



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 34]

नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 21—अगस्त 27, 2010 (श्रावण 30, 1932)

No. 34]

NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 21—AUGUST 27, 2010 (SHRAVANA 30, 1932)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग I—खण्ड 4

### [PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]  
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 21 अगस्त 2010

सं. 436, दिनांक 09 जुलाई 2010—अध्यक्ष महोदय ने खुश होकर  
नंबर 14450444 श्रीमती ए जॉन, एसपीएस की नियुक्ति/पदोन्नति 01  
फरवरी 2010 से।

ए वी बागुर  
अवर सचिव

सी के रंजन (एमआर-04162एच) (एफ-16015), 05 जनवरी 2010  
वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता  
03 जनवरी 2010 से दी जाती है।

यश पांडे  
ब्रिगेडियर  
उप महानिदेशक  
स से चि से (मा सं)

थल सेना शाखा

सं. 437, दिनांक 09 जुलाई 2010—राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित  
अधिकारियों की पदोन्नति करते हैं:—

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

सेना चिकित्सा कोर

ग्रुप कैप्टन (व समकक्ष) से एयर कर्पोरेटर (व समकक्ष) के पद पर  
आर के भट्टाचार्य (एमआर-04051एल) (एफ-15854),  
24 सितम्बर 2009 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता  
22 सितम्बर 2009 से दी जाती है।

सेना शाखा

सं. 438, दिनांक 09 जुलाई 2010—राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां  
करते हैं:—

नियमित सेना

स्थायी आयोग

ले कर्नल से कर्नल के मूल रैंक में (समय मान द्वारा)  
आई सी संख्या, नाम, आर्म तथा सब्सटैंटिव तिथि  
(आईसी-40203एम) राजेश दत्ता, इन्फैन्ट्री, 19 दिसम्बर 2007  
(आईसी-41149डब्ल्यू) वाई वाई शेख, इन्फैन्ट्री, 18 जून 2009  
(आईसी-41756पी) एस जे कराडे, आर्टी, 17 दिसम्बर 2009  
(आईसी-41793एच) एम के पाल, आर्टी, 17 दिसम्बर 2009  
(आईसी-41815डब्ल्यू) एच के दुबे, आईसी, 17 दिसम्बर 2009

(आईसी-43643एल) कमलेंद्र सिंह, इंजीनियर्स, 18 दिसम्बर 2009

(आईसी-45016एक्स) एम एम उन्नीयाल, इन्फैन्ट्री, 26 अप्रैल 2009

टी के दास

उप निदेशक एमएस-8ए

सेना विभाग

नियमित सेना

सं. 439, दिनांक 09 जुलाई 2010—राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:—

सेना सेवा कोर

यांत्रिक परिवहन/पूर्ति

सूबेदार मेजर लिपिक (व्यक्तिगत सहायक)

सूबेदार मोहना कुमार ए के (जेसी-642311एम), 01 फरवरी 2010

सूबेदार मेजर (एसकेटी)

सूबेदार तरलोक सिंह (जेसी-641379एफ), 05 दिसम्बर 2009 \*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2009 से दी जायेगी)

सूबेदार मेजर (एम टी)

सूबेदार कवर सिंह (जेसी-662718के), 01 जनवरी 2010

सूबेदार मान सिंह (जेसी-662757एच), 01 फरवरी 2010

सूबेदार राज किशोर (जेसी-662775एल), 02 फरवरी 2010 \*

सूबेदार लक्ष्मी कांता बनर्जी (जेसी-662771एफ), 01 फरवरी 2010

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 फरवरी 2010 से दी जायेगी)

सूबेदार श्याम लाल (जेसी-662739ए), 01 फरवरी 2010

सूबेदार प्रेम सिंह (जेसी-662691एक्स), 02 दिसम्बर 2009 \*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2009 से दी जायेगी)

सूबेदार मेजर/सूबेदार (आरटी)

सूबेदार फूल चन्द्रा शर्मा (जेसी-144221एफ), 01 जुलाई 2009 \*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जायेगी)

सूबेदार कृष्ण गोपाल (जेसी-140504एल), 01 अगस्त 2009 \*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2009 से दी जायेगी)

सूबेदार राम पूजन पाण्डेय (जेसी-140502ए), 24 अगस्त 2009 \*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2009 से दी जायेगी)

सूबेदार राम भूवन प्रसाद मिश्रा (जेसी-133180एम), 24 अगस्त 2009 \*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जनवरी 2009 से दी जायेगी)

सूबेदार (एमटी)

नायब सूबेदार रक्श पाल सिंह (जेसी-664408एक्स), 11 जुलाई 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जून 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार राज कुमार सिंह (जेसी-661415एच), 06 अप्रैल 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 मार्च 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार बगरा राम बिशनोई (जेसी-664413एच), 16 जुलाई 2009 \*

नायब सूबेदार नारायण मिश्रा (जेसी-664414एल), 14 जुलाई 2009 \*

नायब सूबेदार जे टी नारायण (जेसी-664426ए), 22 जुलाई 2009 \*

नायब सूबेदार उमेदा राम (जेसी-664424पी), 15 जुलाई 2009 \*

नायब सूबेदार ललन सिंह (जेसी-664420वाई), 22 जुलाई 2009 \*

नायब सूबेदार सुशील कुमार चौबे (जेसी-664398वाई), 13 जुलाई 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जून 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार हर्ष वर्धन (जेसी-664132एम), 11 जुलाई 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 फरवरी 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार बहादुर सिंह के (जेसी-664425एक्स), 11 जुलाई 2009 \*

नायब सूबेदार कमला कांत मिश्रा (जेसी-664418एफ), 11 जुलाई 2009 \*

नायब सूबेदार शिशु राम यादव (जेसी-664390एम), 11 जुलाई 2009 \*

नायब सूबेदार निरंजन बिश्वास (जेसी-664409ए), 13 जुलाई 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जून 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार हरी शंकर (जेसी-663997एम), 11 जुलाई 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2008 से दी जायेगी)

- नायब सूबेदार सुधीर कुमार श्रेष्ठा (जेसी-664161एफ), 11 जुलाई 2009 \*
- \*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 02 दिसम्बर 2008 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार महावीर प्रसाद पटेल (जेसी-664399एफ), 16 जुलाई 2009 \*
- नायब सूबेदार विजया कृष्णा (जेसी-664395एल), 03 अगस्त 2009 \*
- नायब सूबेदार राम किशोर सिंह (जेसी-664341के), 18 अगस्त 2009 \*
- नायब सूबेदार पुविया के सी (जेसी-664337एफ), 25 अगस्त 2009 \*
- नायब सूबेदार दामोदर ठाकुर (जेसी-664364एल), 17 अगस्त 2009 \*
- \*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जून 2009 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार बैज नाथ (जेसी-664929एल), 17 अगस्त 2009 \*
- \*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 24 जून 2008 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार राम चन्द्र साह (जेसी-664327एक्स), 18 अगस्त 2009 \*
- नायब सूबेदार विजय कुमार (जेसी-664346एच), 17 अगस्त 2009 \*
- \*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जून 2009 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार हरी सिंह (जेसी-664326पी), 18 अगस्त 2009 \*
- नायब सूबेदार रूदल प्रसाद यादव (जेसी-664429एन), 20 अगस्त 2009 \*
- नायब सूबेदार हेमराज सिंह (जेसी-664434वाई), 20 अगस्त 2009 \*
- \*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जून 2009 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार अंजनि कुमार तिवारी (जेसी-664928एच), 19 अगस्त 2009 \*
- \*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 21 जून 2009 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार तिरलांगि सिन्हा चालम (जेसी-664374पी), 19 अगस्त 2009 \*
- \*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार गणपत सिंह (जेसी-664328ए), 19 अगस्त 2009 \*
- नायब सूबेदार जय प्रकाश सिंह (जेसी-664430एच), 22 अगस्त 2009 \*
- नायब सूबेदार भुपेन्द्र गिरि (जेसी-664416डब्ल्यू), 19 अगस्त 2009 \*
- \*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जून 2009 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार लैश राम तोम्बा सिंह (जेसी-663582एक्स), 19 अगस्त 2009 \*
- \*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 02 दिसम्बर 2008 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार लक्ष्मी कांता सिन्हा (जेसी-664405के), 19 अगस्त 2009 \*
- \*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जून 2009 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार नंद किशोर (जेसी-664203एच), 19 अगस्त 2009 \*
- \*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2008 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार अकौवता सुभाष पंडित (जेसी-664538ए), 19 अगस्त 2009 \*
- नायब सूबेदार केदार सिंह (जेसी-664384वाई), 18 अगस्त 2009 \*
- नायब सूबेदार मनीभद्र जेना (जेसी-664406एम), 25 अगस्त 2009 \*
- नायब सूबेदार पंचम सिंह (जेसी-664543एल), 19 अगस्त 2009 \*
- नायब सूबेदार लखन लाल (जेसी-664444एच), 15 अगस्त 2009 \*
- नायब सूबेदार अदालत प्रसाद सिंह (जेसी-664336वाई), 14 अगस्त 2009 \*
- \*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जून 2009 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार अशोक कुमार दूबे (जेसी-664393ए), 18 अगस्त 2009 \*
- \*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जनवरी 2009 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार ललन पाण्डेय (जेसी-664581एफ), 15 अगस्त 2009 \*
- नायब सूबेदार राम इकबाल सिंह (जेसी-664368एफ), 19 अगस्त 2009 \*
- नायब सूबेदार उमा शंकर सिंह (जेसी-664403वाई), 17 अगस्त 2009 \*
- \*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जून 2009 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार फ्रांसिस जेवियर बखला (जेसी-664335डब्ल्यू), 15 अगस्त 2009 \*
- नायब सूबेदार प्रसाद चन्द्रन नायर के (जेसी-664329एच), 18 अगस्त 2009 \*

नायब सूबेदार कंदार नाथ चौधरी (जेसी-664397डब्ल्यू), 18 अगस्त 2009\*

नायब सूबेदार बली राम (जेसी-664404एफ), 18 अगस्त 2009\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जून 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार सुब्रता दत्ता (जेसी-664507ए), 18 अगस्त 2009\*

नायब सूबेदार शिव पाल (जेसी-664373एम), 18 अगस्त 2009\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार देवता दीन (जेसी-663870के), 17 अगस्त 2009\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 02 दिसम्बर 2008 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार मरीश्वर लैंका (जेसी-664450डब्ल्यू), 18 अगस्त 2009\*

नायब सूबेदार कंदार सिंह (जेसी-664378एल), 10 अगस्त 2009\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार गुलाब चन्द (जेसी-664591के), 12 अगस्त 2009\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2008 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार राम देव जाट (जेसी-664435एफ), 12 अगस्त 2009\*

नायब सूबेदार सुरेन्द्र कुमार मिश्रा (जेसी-664441पी), 12 अगस्त 2009\*

नायब सूबेदार राधिका आर एन गौस्वामी (जेसी-664410पी), 11 अगस्त 2009\*

नायब सूबेदार बिरेन्द्र सिंह (जेसी-664339एम), 09 अगस्त 2009\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जून 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार दिनेश प्रसाद साह (जेसी-664375एक्स), 15 अगस्त 2009\*

नायब सूबेदार नंद लाल (जेसी-664370वाई), 12 अगस्त 2009\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार रत्नेश सिंह (जेसी-664428एल), 19 अगस्त 2009\*

नायब सूबेदार विजय कुमार एस (जेसी-664407पी), 18 अगस्त 2009\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जून 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार राज करण पटेल (जेसी-663313एल), 18 अगस्त 2009\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 02 दिसम्बर 2008 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार हरी राम (जेसी-664449एफ), 18 अगस्त 2009\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार जीवनधर नरसई (जेसी-664459एल), 19 अगस्त 2009\*

नायब सूबेदार बिनोद बिहारी सेठी (जेसी-664540एक्स), 21 अगस्त 2009\*

नायब सूबेदार जवाहर साह (जेसी-664473एक्स), 25 अगस्त 2009\*

नायब सूबेदार रमेश सिंह (जेसी-664477एन), 25 अगस्त 2009\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार शुभेश कुमार ठाकुर (जेसी-664431एल), 11 अगस्त 2009\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जून 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार तेज बहादुर (जेसी-664201एक्स), 22 अगस्त 2009\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 02 दिसम्बर 2008 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार ईश्वर शरण (जेसी-664419के), 29 अगस्त 2009\*

नायब सूबेदार धनू साह (जेसी-664439एक्स), 19 अगस्त 2009\*

नायब सूबेदार ज्ञान प्रकाश (जेसी-664446एन), 22 अगस्त 2009\*

नायब सूबेदार लुना राम जाट (जेसी-664333एल), 19 अगस्त 2009\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जून 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार राम नाथ सिंह (जेसी-664371एफ), 19 अगस्त 2009\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार सुदर्शन प्रसाद (जेसी-664367वाई), 21 अगस्त 2009\*

नायब सूबेदार बिपीन बिहारी मुदुली (जेसी-664583एम), 23 अगस्त 2009\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जून 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार सत्यपाल सिंह चौहान (जेसी-663683एल), 27 अगस्त 2009\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 02 दिसम्बर 2008 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार सत्यवीर सिंह (जेसी-664388पी), 17 अगस्त 2009 \*

नायब सूबेदार ललित चन्द्रा दास (जेसी-664389एक्स), 28 अगस्त 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जनवरी 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार उमेन्द्रन वी वी (जेसी-664401एन), 25 अगस्त 2009 \*

नायब सूबेदार बिरेन्द्र चन्द्रा बासुमत्री (जेसी-664402डब्ल्यू), 24 अगस्त 2009 \*

नायब सूबेदार देवेन्द्र (जेसी-664412ए), 17 अगस्त 2009 \*

नायब सूबेदार मुरलीधर साहू (जेसी-664541ए), 25 अगस्त 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जून 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार गणेश चन्द्र (जेसी-664542एच), 01 सितम्बर 2009 \*

नायब सूबेदार कबी चरन बराड (जेसी-664422के), 17 अगस्त 2009 \*

नायब सूबेदार निमसे शिवाजी बाबुराव (जेसी-664580वाई), 01 सितम्बर 2009 \*

नायब सूबेदार चंद्र ध्वजा राजकुमार (जेसी-664582के), 18 अगस्त 2009 \*

नायब सूबेदार राज मनी प्रसाद (जेसी-664433डब्ल्यू), 25 अगस्त 2009 \*

नायब सूबेदार मानक राम (जेसी-664436के), 29 अगस्त 2009 \*

नायब सूबेदार रादेश प्रसाद द्विवेदी (जेसी-664586ए), 07 सितम्बर 2009 \*

नायब सूबेदार यादव औडम्बर नाना साहेब (जेसी-664363एच), 25 अगस्त 2009 \*

नायब सूबेदार दिनेश प्रसाद सिंह (जेसी-664324के), 29 अगस्त 2009 \*

नायब सूबेदार वकील कुमार सिंह (जेसी-664334एन), 18 अगस्त 2009 \*

नायब सूबेदार दलबीर सिंह (जेसी-664590एच), 18 अगस्त 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जून 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार रोहताश (जेसी-664369के), 31 अगस्त 2009 \*

नायब सूबेदार शिव पूजन सिंह (जेसी-664609डब्ल्यू), 31 अगस्त 2009 \*

नायब सूबेदार भुवनेश्वर नाथ (जेसी-664466एफ), 17 अगस्त 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार प्रकाश चंद (जेसी-664423एम), 25 अगस्त 2009 \*

नायब सूबेदार नुरुद्दीन चौधरी (जेसी-664432एन), 25 अगस्त 2009 \*

नायब सूबेदार मोहम्मद अनवर खान (जेसी-664585एक्स), 28 अगस्त 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जून 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार गोपाल प्रसाद ठाकुर (जेसी-664453के), 26 अगस्त 2009 \*

नायब सूबेदार राधा बल्लव (जेसी-664454एम), 29 अगस्त 2009 \*

नायब सूबेदार लक्ष्मी धर सामंता राय (जेसी-664468एम), 27 अगस्त 2009 \*

नायब सूबेदार रमेश चन्द्र (जेसी-664457ए), 03 सितम्बर 2009 \*

नायब सूबेदार रमेश कुमार (जेसी-664461एच), 03 सितम्बर 2009 \*

नायब सूबेदार गणेश चौधरी (जेसी-664591एल), 25 अगस्त 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार शंकर पैदारगी (जेसी-664394एच), 18 अगस्त 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जनवरी 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार विजय कुमार तिवारी (जेसी-664338के), 18 अगस्त 2009 \*

नायब सूबेदार राम कृपाल (जेसी-664417वाई), 17 अगस्त 2009 \*

नायब सूबेदार सुख पाल (जेसी-664321डब्ल्यू), 05 सितम्बर 2009 \*

नायब सूबेदार रवीन्द्र नाथ गौतम (जेसी-664322वाई), 22 सितम्बर 2009 \*

नायब सूबेदार ज्ञानेन्द्रा माल (जेसी-664442एक्स), 28 अगस्त 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जून 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार रघुबीर सिंह (जेसी-664460ए), 22 अगस्त 2009 \*

नायब सूबेदार शिव लाल बारूईया (जेसी-664508एच), 27 अगस्त 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार रमेश यादव (जेसी-664411एक्स), 11 सितम्बर 2009 \*

नायब सूबेदार जय किशोर तिवारी (जेसी-664445एल), 12 सितम्बर 2009 \*

नायब सूबेदार धोकल राम मेघवाल (जेसी-664345ए), 16 सितम्बर 2009\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जून 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार राम मूर्ति यादव (जेसी-664472पी), 16 सितम्बर 2009\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार शम्भु चौधरी (जेसी-664396एन), 14 सितम्बर 2009\*

नायब सूबेदार भुरे सिंह कुशवाह (जेसी-664332एच), 18 सितम्बर 2009\*

नायब सूबेदार शशिधरन बी (जेसी-664342एम), 14 सितम्बर 2009\*

नायब सूबेदार रिसाल सिंह (जेसी-664366डब्ल्यू), 14 सितम्बर 2009\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जून 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार गिरिजा प्रसाद (जेसी-664652एक्स), 17 सितम्बर 2009\*

नायब सूबेदार अनंत राम (जेसी-664452एफ), 17 सितम्बर 2009\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार जितेन्द्र सिंह (जेसी-664323एफ), 15 सितम्बर 2009\*

नायब सूबेदार संतोश कुमार (जेसी-664331ए), 17 सितम्बर 2009\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जून 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार मंगली चरन दास (जेसी-664456एक्स), 16 सितम्बर 2009\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार बंदि श्रीनिवासा रेड्डी (जेसी-664474ए), 15 सितम्बर 2009\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार विजय कुमार (जेसी-664589एन), 08 अगस्त 2009\*

नायब सूबेदार मुनीम कुमार राम (जेसी-664588एल), 07 सितम्बर 2009\*

नायब सूबेदार हरि सिंह (जेसी-664437एम), 16 सितम्बर 2009\*

नायब सूबेदार पदमेस्वर गोगई (जेसी-664584पी), 28 सितम्बर 2009\*

नायब सूबेदार सुब प्रसाद सब (जेसी-664347एल), 24 सितम्बर 2009\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जून 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार कंसर सिंह (जेसी-664467के), 13 सितम्बर 2009\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार नर सिंह नारायण दुबे (जेसी-664475एच), 16 सितम्बर 2009\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार ललन राम (जेसी-664447डब्ल्यू), 19 सितम्बर 2009\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जून 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार गोपाल जी चौधरी (जेसी-664653ए), 07 अक्टूबर 2009\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार कमल मंडल (जेसी-664930ए), 30 सितम्बर 2009\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 02 दिसम्बर 2009 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार हरि बंस प्रसाद (जेसी-664400एल), 30 सितम्बर 2009\*

नायब सूबेदार रवि शंकर राम (जेसी-664344एक्स), 29 सितम्बर 2009\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जून 2009 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार शेक पीर अहमद (जेसी-664469पी), 03 अक्टूबर 2009\*

नायब सूबेदार कर्मबीर सिंह (जेसी-664462एल), 01 अक्टूबर 2009\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2009 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार जवाहर प्रसाद (जेसी-664440एम), 15 अक्टूबर 2009\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जून 2009 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार परशु राम सिंह (जेसी-664372के), 20 अक्टूबर 2009\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार चंद्र देव यादवा (जेसी-664455पी), 14 अक्टूबर 2009\*

नायब सूबेदार बृज नंदन प्रसाद (जेसी-665048वाई), 08 अक्टूबर 2009 \*

नायब सूबेदार नारायण लाल रेगर (जेसी-664677के), 24 अक्टूबर 2009 \*

नायब सूबेदार गोपाल सिंह (जेसी-664678एम), 16 अक्टूबर 2009 \*

नायब सूबेदार प्रवाकर बल (जेसी-664611एन), 18 अक्टूबर 2009 \*

नायब सूबेदार प्रवीन सिंह (जेसी-664654एच), 19 अक्टूबर 2009 \*

नायब सूबेदार अमीर चंद सिंह (जेसी-664512डब्ल्यू), 15 अक्टूबर 2009 \*

नायब सूबेदार सतेंद्रा कुमार तिवारी (जेसी-664613वाई), 21 अक्टूबर 2009 \*

नायब सूबेदार सुधीर कुमार सिंह (जेसी-664614एफ), 16 अक्टूबर 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2009 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार प्रताप सिंह (जेसी-664617पी), 26 अक्टूबर 2009 \*

नायब सूबेदार गणपत सिंह (जेसी-664619ए), 19 अक्टूबर 2009 \*

नायब सूबेदार गिरजा शंकर शर्मा (जेसी-664620पी), 12 अक्टूबर 2009 \*

नायब सूबेदार ज्योमकेश प्रधान (जेसी-664622ए), 16 अक्टूबर 2009 \*

नायब सूबेदार राम दुलारे (जेसी-664625एन), 13 अक्टूबर 2009 \*

नायब सूबेदार बिनोद कुमार (जेसी-664659एफ), 14 अक्टूबर 2009 \*

नायब सूबेदार लीला राम यादव (जेसी-664627वाई), 13 अक्टूबर 2009 \*

नायब सूबेदार देवानंद नामदेव राव (जेसी-664621एक्स), 13 अक्टूबर 2009 \*

नायब सूबेदार श्री रंग विठल घोड़े (जेसी-664632के), 14 अक्टूबर 2009 \*

नायब सूबेदार प्रवीन पाठक (जेसी-664633एम), 13 अक्टूबर 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2009 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार शिव भजन (जेसी-664634पी), 13 अक्टूबर 2009 \*

नायब सूबेदार कृशना चंद्रा साहू (जेसी-664635एक्स), 27 अक्टूबर 2009 \*

नायब सूबेदार रवींद्रा नाथ चौहान (जेसी-664637एच), 13 अक्टूबर 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार महेंद्रा उपाध्याय (जेसी-665116एफ), 26 अक्टूबर 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2009 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार निम्बा राम धीरू (जेसी-664630वाई), 06 नवम्बर 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2009 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार सुरेश चंद्रा (जेसी-664642एन), 09 नवम्बर 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 नवम्बर 2009 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार कौशल किशोर यादव (जेसी-664451वाई), 27 अक्टूबर 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार छेधारी राय (जेसी-664592एन), 02 नवम्बर 2009 \*

नायब सूबेदार कैलाश कुमार (जेसी-664593डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2009 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार भोलानाथ मौर्या (जेसी-664638एल), 04 नवम्बर 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार अरुण कुमार सिंह (जेसी-664679पी), 01 नवम्बर 2009 \*

नायब सूबेदार शैलेंद्रनाथ घोष (जेसी-664668एच), 04 नवम्बर 2009 \*

नायब सूबेदार अखील चंद्र घोष (जेसी-664672एल), 04 नवम्बर 2009 \*

नायब सूबेदार बाबू लाल (जेसी-664680के), 03 नवम्बर 2009 \*

नायब सूबेदार राम पाल (जेसी-664681एम), 01 नवम्बर 2009 \*

नायब सूबेदार राम मोहन (जेसी-664682पी), 03 नवम्बर 2009 \*

नायब सूबेदार बोरा वीना वेंकेश्वरा (जेसी-664683एक्स), 03 नवम्बर 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 नवम्बर 2009 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार शिव शंकर शाह गुप्ता (जेसी-664470के), 26 अक्टूबर 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2009 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार अरुण कुमार (जेसी-664365एन), 27 अक्टूबर 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जून 2009 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार राजन चंद्र दत्ता (जेसी-664662एफ), 03 नवम्बर 2009 \*

नायब सूबेदार रमेश (जेसी-664675वाई), 02 नवम्बर 2009 \*

नायब सूबेदार महेंद्र सिंह (जेसी-664931एच), 05 नवम्बर 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 नवम्बर 2009 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार (एमटी)

हवलदार सुरेश चंद्रा (सं. 13898062पी अब जेसी-665896एक्स), 15 अप्रैल 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 मार्च 2009 से दी जाएगी)

हवलदार मुख्तियार सिंह (सं. 13895932डब्ल्यू अब जेसी-665892एफ), 17 अप्रैल 2009 \*

हवलदार शिवनंद यलमार के के (सं. 13894985एच अब जेसी-665894एम), 27 मई 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 फरवरी 2009 से दी जाएगी)

हवलदार सुरेश कुमार सिंह (सं. 13894739एक्स अब जेसी-665898एच), 10 अप्रैल 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जनवरी 2009 से दी जाएगी)

हवलदार अश्वनी कुमार (सं. 13896122ए अब जेसी-665911एफ), 27 मई 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 मार्च 2009 से दी जाएगी)

हवलदार विजय कुमार (सं. 13898318एम अब जेसी-665910वाई), 28 मई 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 07 मार्च 2009 से दी जाएगी)

हवलदार अजब सिंह (सं. 13895850वाई अब जेसी-665907वाई), 27 मई 2009 \*

हवलदार मदन (सं. 15351082एफ अब जेसी-665909के), 30 मई 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 मार्च 2009 से दी जाएगी)

हवलदार खोत विलास सुबा (सं. 13887793एच अब जेसी-665906डब्ल्यू), 25 मई 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 21 फरवरी 2009 से दी जाएगी)

हवलदार स्वपन कुमार पाल (सं. 13898112पी अब जेसी-665913एम), 28 मई 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 मार्च 2009 से दी जाएगी)

हवलदार किशोर कुमार परमारकर (सं. 13898110के अब जेसी-665908एफ), 03 जून 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जनवरी 2009 से दी जाएगी)

हवलदार शिव शंकर प्रसाद (सं. 13898182एन अब जेसी-665912के), 06 जून 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 मार्च 2009 से दी जाएगी)

हवलदार राम प्रसाद (सं. 13897554एफ अब जेसी-665914पी), 15 जून 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 फरवरी 2009 से दी जाएगी)

हवलदार नोक राम दारा (सं. 13898161एक्स अब जेसी-665917एच), 09 जून 2009 \*

हवलदार बाला चंद्रन आर (सं. 13896252एच अब जेसी-665920एच), 09 जून 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 मई 2009 से दी जाएगी)

हवलदार अनिल कुमार मजुमंदर (सं. 15355918एल अब जेसी-665915एक्स), 15 जून 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 21 फरवरी 2009 से दी जाएगी)

हवलदार गोपाल चंद्र दास (सं. 13898225एक्स अब जेसी-665923डब्ल्यू), 12 जून 2009 \*

हवलदार भीम नारायण यादव (सं. 13896207डब्ल्यू अब जेसी-665919एन), 08 जून 2009 \*



हवलदार अजया कुमार शर्मा (सं. 13896457एक्स अब जेसी- 665921एल), 08 जून 2009 \*

हवलदार सत्या नारायण (सं. 13898358एन अब जेसी- 665918एल), 09 जून 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 मई 2009 से दी जाएगी)

हवलदार जयबीर सिंह (सं. 13896191डब्ल्यू अब जेसी- 665750के), 25 अप्रैल 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार एम एम नीनगप्पा (सं. 15357276ए अब जेसी- 665941वाई), 08 जुलाई 2009 \*

हवलदार नगेंद्र नाथ सिंह (सं. 13897712एल अब जेसी- 665943के), 07 जुलाई 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जून 2009 से दी जाएगी)

हवलदार ललता पात्रो (सं. 13891519एच अब जेसी- 665926के), 07 जुलाई 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 18 अप्रैल 2009 से दी जाएगी)

हवलदार हमीद (सं. 13898190एम अब जेसी- 665936एन), 06 जुलाई 2009 \*

हवलदार उषेंद्र राय (सं. 13896106एच अब जेसी- 665932एक्स), 08 जुलाई 2009 \*

हवलदार विजय शंकर (सं. 15351908के अब जेसी- 665939एफ), 07 जुलाई 2009 \*

हवलदार सतेंद्र पाथक (सं. 13896082के अब जेसी- 665935एल), 06 जुलाई 2009 \*

हवलदार शिव नंदन यादव (सं. 13897291एन अब जेसी- 665928पी), 07 जुलाई 2009 \*

हवलदार ओम प्रकाश तिवारी (सं. 13898079एच अब जेसी- 665929एक्स), 10 जुलाई 2009 \*

हवलदार रोहताशवा यादव (सं. 13897552डब्ल्यू अब जेसी- 665937डब्ल्यू), 08 जुलाई 2009 \*

हवलदार गुर सिंह (सं. 13896254एन अब जेसी- 665934एच), 09 जुलाई 2009 \*

हवलदार सी एच चीनासुब्बाई (सं. 13892124के अब जेसी- 665942एफ), 09 जुलाई 2009 \*

हवलदार बाल्लाप्पा के एन (सं. 13896470एफ अब जेसी- 665940डब्ल्यू), 11 जुलाई 2009 \*

हवलदार आज़ाद साह (सं. 13897768एक्स अब जेसी- 665938वाई), 07 जुलाई 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जून 2009 से दी जाएगी)

हवलदार एम एम भाई गंदा (सं. 13896268एन अब जेसी- 665927एम), 10 जुलाई 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 मई 2009 से दी जाएगी)

हवलदार अशोक कुमार दास (सं. 13896273वाई अब जेसी- 665930एम), 03 जुलाई 2009 \*

हवलदार दीपक कुमार जोदर (सं. 13896283एच अब जेसी- 665933ए), 08 जुलाई 2009 \*

हवलदार राजेंद्र प्रसाद (सं. 15359308डब्ल्यू अब जेसी- 665931पी), 09 जुलाई 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जून 2009 से दी जाएगी)

हवलदार कृष्ण राव पीपारडे (सं. 13896185एच अब जेसी- 665916ए), 12 जून 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 मई 2009 से दी जाएगी)

हवलदार गुप्त सिंह मीर (सं. 13896278एक्स अब जेसी- 665988के), 10 जुलाई 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जून 2009 से दी जाएगी)

हवलदार नाहर सिंह जाट (सं. 13895193पी अब जेसी- 665989एम), 30 जुलाई 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 फरवरी 2009 से दी जाएगी)

हवलदार सुरेश प्रसाद (सं. 13895946डब्ल्यू अब जेसी- 665990एफ), 21 अगस्त 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 18 अप्रैल 2009 से दी जाएगी)

हवलदार मनोज कुमार सिंह (सं. 13898220वाई अब जेसी- 665991के), 18 अगस्त 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 23 जुलाई 2009 से दी जाएगी)

हवलदार ज्ञानी राय (सं. 15359312वाई अब जेसी- 665992एम), 25 अगस्त 2009 \*

हवलदार अशोक कुमार सिंह (सं. 13887699वाई अब जेसी- 665993पी), 18 अगस्त 2009\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जून 2009 से दी जाएगी)

हवलदार कृपाल सिंह (सं. 13895904के अब जेसी- 665994एक्स), 18 अगस्त 2009\*

हवलदार सुरेंद्र सिंह (सं. 13898241पी अब जेसी- 665995ए), 19 अगस्त 2009\*

हवलदार अजय कुमार (सं. 13896289एल अब जेसी- 665996एच), 18 अगस्त 2009\*

हवलदार अनार सिंह (सं. 13896463एल अब जेसी- 665997एल), 22 अगस्त 2009\*

हवलदार प्रफुल्ला चंद्रा शुक्ला (सं. 13896239वाई अब जेसी- 665998एन), 19 अगस्त 2009\*

हवलदार अशोक कुमार (सं. 13896311के अब जेसी- 665999डब्ल्यू), 19 अगस्त 2009\*

हवलदार मदन पाल सिंह (सं. 13895746ए अब जेसी- 666000एक्स), 18 अगस्त 2009\*

हवलदार घनश्याम सिंह (सं. 13894557के अब जेसी- 666001ए), 19 अगस्त 2009\*

हवलदार बिरेंद्र सिंह (सं. 15359401एक्स अब जेसी- 666002एच), 20 अगस्त 2009\*

हवलदार राम रतन सिंह उप्रेति (सं. 13896318एन अब जेसी- 666003एल), 18 अगस्त 2009\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जाएगी)

हवलदार अशोक सिंह (सं. 13895352एफ अब जेसी- 666004एन), 27 अगस्त 2009\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार इंद्रे भीमा लक्ष्मण (सं. 13896234ए अब जेसी- 666005डब्ल्यू), 04 सितम्बर 2009\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जून 2009 से दी जाएगी)

हवलदार स्वपन कुमार मंडल (सं. 13896284एल अब जेसी- 666006वाई), 01 सितम्बर 2009\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जाएगी)

हवलदार राम ध्यान सिंह (सं. 13898275एच अब जेसी- 666007एफ), 05 सितम्बर 2009\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2009 से दी जाएगी)

हवलदार जितेंद्र कुमार तिवारी (सं. 13896388एम अब जेसी- 666018एन), 18 सितम्बर 2009\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2009 से दी जाएगी)

हवलदार सतपाल सिंह (सं. 13896422एफ अब जेसी- 666019डब्ल्यू), 16 सितम्बर 2009\*

हवलदार सिंघातला बी गुर्वि रेड्डी (सं. 15359416ए अब जेसी- 666020एल), 07 सितम्बर 2009\*

हवलदार भगवती प्रसाद जोशी (सं. 13898128ए अब जेसी- 666021एन), 05 सितम्बर 2009\*

हवलदार श्याम नारायण प्रसाद (सं. 13896215पी अब जेसी- 666022डब्ल्यू), 16 सितम्बर 2009\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जाएगी)

हवलदार भोला राय (सं. 13896357एम अब जेसी- 666023वाई), 14 सितम्बर 2009\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2009 से दी जाएगी)

हवलदार जयवीर सिंह (सं. 13895730पी अब जेसी- 666024एफ), 05 सितम्बर 2009\*

हवलदार इक्रमुद्दीन (सं. 13896187एन अब जेसी- 666025के), 23 सितम्बर 2009\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जाएगी)

हवलदार पंचा नंद राय (सं. 13898277एन अब जेसी- 666026एम), 25 सितम्बर 2009\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2009 से दी जाएगी)

हवलदार राम बिलास यादव (सं. 13896384डब्ल्यू अब जेसी- 666027पी), 19 सितम्बर 2009\*

हवलदार ललन प्रसाद भौर्या (सं. 15359494एक्स अब जेसी- 666028एक्स), 22 सितम्बर 2009\*

हवलदार अशोक कुमार योगी (सं. 13896403डब्ल्यू अब जेसी- 666029ए), 22 सितम्बर 2009\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2009 से दी जाएगी)

हवलदार सुभाष कुमार पांडेय (सं. 13898581एक्स अब जेसी-666030पी), 23 सितम्बर 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 11 मई 2009 से दी जाएगी)

हवलदार पृथ्वी राज (सं. 15357468एक्स अब जेसी- 666031एक्स), 23 सितम्बर 2009 \*

हवलदार शोभ नाथ (सं. 13896109डब्ल्यू अब जेसी- 666032ए), 22 सितम्बर 2009 \*

हवलदार सुरेश चंद शर्मा (सं. 13896379एल अब जेसी- 666033एच), 23 सितम्बर 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2009 से दी जाएगी)

हवलदार नंद किशोर राय (सं. 13898406एच अब जेसी- 666034एल), 23 सितम्बर 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2009 से दी जाएगी)

हवलदार भगवत प्रसाद (सं. 4558566एक्स अब जेसी-665987एफ), 23 दिसम्बर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 23 दिसम्बर 2008 से दी जायेगी)

हवलदार ओम प्रकाश पाण्डेय (सं. 13896421वाई अब जेसी-666046ए), 21 अगस्त 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जायेगी)

हवलदार छबी राम सिन्हा (सं. 15351812एफ अब जेसी-666047एच), 23 सितम्बर 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 04 जुलाई 2008 से दी जायेगी)

हवलदार आनंद प्रकाश (सं. 13896213के अब जेसी-666048एल), 19 अगस्त 2009 \*

हवलदार सुरमुख सिंह (सं. 13896417डब्ल्यू अब जेसी-666049एन), 23 सितम्बर 2009 \*

हवलदार निशान सिंह (सं. 13896465डब्ल्यू अब जेसी-666050एच), 29 सितम्बर 2009 \*

हवलदार शाजी लाल ए के (सं. 15359331के अब जेसी-666051एल), 29 सितम्बर 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2009 से दी जायेगी)

हवलदार संकरी वैकटेश्वरलू (सं. 13898524डब्ल्यू अब जेसी-666052एन), 29 सितम्बर 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2009 से दी जायेगी)

हवलदार राम पाल (सं. 13898522एल अब जेसी-666053डब्ल्यू), 29 सितम्बर 2009 \*

हवलदार ओम प्रकाश सिंह (सं. 13898334के अब जेसी-666054वाई), 24 सितम्बर 2009 \*

हवलदार उमा शंकर (सं. 13896375पी अब जेसी-666055एफ), 19 सितम्बर 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2009 से दी जायेगी)

हवलदार राकेश कुमार (सं. 13898363वाई अब जेसी-666056के), 19 सितम्बर 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2009 से दी जायेगी)

हवलदार रमेश चंद यादव (सं. 13896377ए अब जेसी-666057एम), 25 सितम्बर 2009 \*

हवलदार जगदीश प्रसाद अहीरवार (सं. 13896425पी अब जेसी-666058पी), 26 सितम्बर 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2009 से दी जायेगी)

हवलदार केदार नाथ तिवारी (सं. 15359500ए अब जेसी-666059एक्स), 23 सितम्बर 2009 \*

हवलदार स्वर्णा वैकटेश्वरलू (सं. 13898523एन अब जेसी-666060एम), 22 सितम्बर 2009 \*

हवलदार रेखा राम जाट (सं. 15359582एन अब जेसी-666061पी), 26 सितम्बर 2009 \*

हवलदार सीता राम प्रसाद (सं. 13898385एक्स अब जेसी-666062एक्स), 08 अक्टूबर 2009 \*

हवलदार अजीत कुमार नाथ (सं. 15359546एच अब जेसी-666063ए), 01 अक्टूबर 2009 \*

हवलदार जय प्रकाश (सं. 13896400एच अब जेसी-666064एच), 30 सितम्बर 2009 \*

हवलदार मेहरा छेय भाई जेता (सं. 13898391एल अब जेसी-666065एल), 07 अक्टूबर 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2009 से दी जायेगी)

हवलदार श्याम सुंदर चौबे (सं. 13896324एफ अब जेसी-666066एन),  
06 अक्टूबर 2009 \*

हवलदार अर्धाशु कुमार डे (सं. 13897190ए अब जेसी-666067डब्ल्यू),  
07 अक्टूबर 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जायेगी)

हवलदार राधे श्याम मिश्रा (सं. 15359493पी अब जेसी-666068वाई),  
08 अक्टूबर 2009 \*

हवलदार राम प्रताप नागर (सं. 13898221एफ अब जेसी-666069एफ),  
07 अक्टूबर 2009 \*

हवलदार ठाकुर दीन वर्मा (सं. 13896312एम अब जेसी-666070डब्ल्यू),  
07 अक्टूबर 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 अगस्त 2009 से दी जायेगी)

हवलदार सुरेंद्र सिंह (सं. 13898374एल अब जेसी-666071वाई),  
07 अक्टूबर 2009 \*

हवलदार मोहर सिंह (सं. 13898375एन अब जेसी-666072एफ),  
08 अक्टूबर 2009 \*

हवलदार अजय कुमार (सं. 13898384पी अब जेसी-666073के),  
09 अक्टूबर 2009 \*

हवलदार सुरेश के बी (सं. 13896427ए अब जेसी-666074एम),  
09 अक्टूबर 2009 \*

हवलदार एम माधव राव (सं. 13898416एम अब जेसी-666075पी),  
14 अक्टूबर 2009 \*

हवलदार सुरेश कुमार बी (सं. 13896444ए अब जेसी-666076एक्स),  
08 अक्टूबर 2009 \*

हवलदार मनोरंजन प्रसाद सिंह (सं. 13898462एफ अब जेसी-666077ए),  
06 अक्टूबर 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 सितम्बर 2009 से दी जायेगी)

हवलदार दलबीर (सं. 13895845एच अब जेसी-666078एच),  
26 अक्टूबर 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जायेगी)

हवलदार ब्रिजेश कुमार सिंह (सं. 13898274ए अब जेसी-666079एल),  
16 अक्टूबर 2009 \*

हवलदार राम शाही गुर्जर (सं. 13898331डब्ल्यू अब जेसी-666080ए),  
16 अक्टूबर 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 अगस्त 2009 से दी जायेगी)

हवलदार भंवर लाल (सं. 15359584वाई अब जेसी-666081एच),  
21 अक्टूबर 2009 \*

हवलदार जय शंकर शाह (सं. 13898533एक्स अब जेसी-666082एल),  
16 अक्टूबर 2009 \*

हवलदार ललीत मोहन मखोलिया (सं. 15359731डब्ल्यू अब  
जेसी-666083एन), 15 अक्टूबर 2009 \*

हवलदार राजबीर (सं. 13898450एम अब जेसी-666084डब्ल्यू),  
18 अक्टूबर 2009 \*

हवलदार आनंद कुमार (सं. 13898453ए अब जेसी-666085वाई),  
15 अक्टूबर 2009 \*

हवलदार प्रेम सिंह (सं. 13898458वाई अब जेसी-666086एफ),  
15 अक्टूबर 2009 \*

हवलदार जयबीर सिंह (सं. 13896475ए अब जेसी-666087के),  
13 अक्टूबर 2009 \*

हवलदार सोम राज (सं. 13896633के अब जेसी-666088एम),  
20 अक्टूबर 2009 \*

हवलदार अनील कुमार के पी (सं. 15359724ए अब जेसी-666089पी),  
16 अक्टूबर 2009 \*

हवलदार विजय पाल सिंह (सं. 13898472एल अब  
जेसी-666090के), 18 अक्टूबर 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 सितम्बर 2009 से दी जाती है)

हवलदार मोहम्मद ईलायस खान (सं. 13898244एच अब  
जेसी-666091एम), 19 अक्टूबर 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 मई 2009 से दी जायेगी)

हवलदार सुसांता मंडल (सं. 13896282ए अब जेसी-666092पी),  
15 अक्टूबर 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 अगस्त 2009 से दी जायेगी)

हवलदार प्रेम चंद सिंह (सं. 13898443डब्ल्यू अब जेसी-666093एक्स),  
26 अक्टूबर 2009 \*

हवलदार भूपेन्द्र नारायण शाही (सं. 13898456एन अब जेसी-666094ए),  
16 अक्टूबर 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 04 जुलाई 2009 से दी जायेगी)

हवलदार शम्भू शाह (सं. 13896359एक्स अब जेसी-667006एल),  
06 अक्टूबर 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 अगस्त 2009 से दी जायेगी)

हवलदार एन थामिझारसू (सं. 13898465पी अब जेसी-667007एन),  
30 अक्टूबर 2009\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 सितम्बर 2009 से दी जायेगी)

हवलदार लाला राम (सं. 13898153वाई अब जेसी-667008डब्ल्यू),  
31 अक्टूबर 2009\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 मार्च 2009 से दी जायेगी)

हवलदार अशोक कुमार ओझा (सं. 13891261ए अब जेसी-667009वाई),  
07 नवम्बर 2009\*

हवलदार बलजीत सिंह (सं. 15356839एच अब जेसी-667010एन),  
03 नवम्बर 2009\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 22 अगस्त 2009 से दी जायेगी)

हवलदार मुन्ना प्रसाद (सं. 13898506एन अब जेसी-667011डब्ल्यू),  
08 नवम्बर 2009\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 नवम्बर 2009 से दी जायेगी)

हवलदार अम्बीगा पाठी (सं. 13895908ए अब जेसी-667012वाई),  
08 नवम्बर 2009\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 22 अगस्त 2009 से दी जायेगी)

हवलदार सुग्रीव सिंह (सं. 13898312एल अब जेसी-667013एफ),  
11 नवम्बर 2009\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 नवम्बर 2009 से दी जायेगी)

सूबेदार मेजर (धर्म शिक्षक)

सूबेदार दिवाकर शुक्ला (जेसी-140505एन), 24 सितम्बर 2009\*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 अगस्त 2009 से दी जायेगी)

सूबेदार शीतला प्रसाद शुक्ला (जेसी-144220वाई), 01 अगस्त 2009\*

सूबेदार राम बिहारी दिवेदी (जेसी-140503एच), 20 जनवरी 2010\*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 11 सितम्बर 2009 से दी जायेगी)

सूबेदार (धर्म शिक्षक)

नायब सूबेदार किशन कांत सिंह (जेसी-661416एल), 25 सितम्बर  
2009\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 सितम्बर 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार बालमीकी तिवारी (जेसी-661419वाई), 07 नवम्बर  
2009\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 नवम्बर 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार वेद प्रकाश (जेसी-661572पी), 01 फरवरी 2010\*

नायब सूबेदार अशोक कुमार ठाकुर (जेसी-661573एक्स), 18 फरवरी  
2010\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 फरवरी 2010 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार धीरेन्द्र कुमार (जेसी-724288डब्ल्यू), 02 मार्च 2010\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 मार्च 2010 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार (धर्म शिक्षक)

नायक राजेश कुमार मिश्रा (सं. 15128914एफ अब जेसी-666035एन),  
15 नवम्बर 2008

सी एफ एन कपिल मुनि पांडेय (सं. 14658325एम अब  
जेसी-666036डब्ल्यू), 15 नवम्बर 2008

रिक्रूट श्रेष्ठ कुमार पांडेय (सं. 665488एम अब जेसी-665488एम),  
15 नवम्बर 2008

रिक्रूट सुरेश कुमार उपाध्याय (सं. 665489पी अब जेसी-665489पी),  
15 नवम्बर 2008

सी एफ एन उमेश मनी तिवारी (सं. 14654427एल अब जेसी-665986वाई),  
14 नवम्बर 2009

सिपाही मोहन दिवेदी (सं. 13987800एच अब जेसी-668073एच),  
14 नवम्बर 2009

रिक्रूट मो. अबुल कलाम (सं. 666037वाई अब जेसी-666037वाई),  
14 नवम्बर 2009

रिक्रूट ब्रह्मी कांत शुक्ला (सं. 666038एफ अब जेसी-666038एफ),  
30 जनवरी 2010

सिपाही कामख्या नारायण (सं. 13991605एच जेसी-667109के),  
30 जनवरी 2010

सेपर लक्ष्मण सिंह (सं. 15566562एम जेसी-667110वाई), 30 जनवरी  
2010

तोपखाना अभिलेख

सबस्टैंटिव सूबेदार मेजर (जीडी) के पद में

सूबेदार राम अवध सिंह (जेसी-261756ए), 22 मई 2009/01 मार्च  
2009\*

सूबेदार लखविन्दर सिंह (जेसी-261482ए), 14 नवम्बर 2009/01 मार्च  
2009\*

सूबेदार चन्द्र प्रकाश (जेसी-262032पी), 22 अगस्त 2009/01 मार्च 2009\*

सूबेदार सेवो कुमार तिवारी (जेसी-263443ए), 01 अगस्त 2009

सूबेदार बसन्त सिंह (जेसी-263675वाई), 29 सितम्बर 2009/01 सितम्बर 2009\*

सूबेदार कट्यारे बाबा साहेब पाडुंग (जेसी-263022एक्स), 30 अक्टूबर 2009/01 अक्टूबर 2009\*

सूबेदार देव सिंह भंडारी (जेसी-260949एन), 28 अक्टूबर 2009/01 अक्टूबर 2009\*

सूबेदार सुखविन्दर सिंह (जेसी-262989एन), 10 अक्टूबर 2009/01 अक्टूबर 2009\*

सूबेदार जगबीर सिंह (जेसी-262123वाई), 02 अक्टूबर 2009/01 अक्टूबर 2009\*

सूबेदार प्रदीप चेटीया (जेसी-261431एम), 01 नवम्बर 2009

सूबेदार सुमेर सिंह राजपूत (जेसी-262473एल), 08 अगस्त 2009/01 जुलाई 2009\*

सूबेदार दर्शन कुमार (जेसी-262908एच), 08 अक्टूबर 2009/01 अक्टूबर 2009\*

सूबेदार जगफुल (जेसी-265321पी), 04 नवम्बर 2009/01 अक्टूबर 2009\*

सूबेदार नरेन्द्र कुमार (जेसी-263198एच), 03 दिसम्बर 2009/01 दिसम्बर 2009\*

सूबेदार हरभजन सिंह (जेसी-264889एफ), 04 सितम्बर 2009/01 सितम्बर 2009\*

सूबेदार राणा प्रताप सिंह (जेसी-264951एच), 12 अक्टूबर 2009/01 अक्टूबर 2009\*

सूबेदार देवा प्रसाद हलदार (जेसी 263698ए), 02 दिसम्बर 2009/01 दिसम्बर 2009\*

सूबेदार अरविन्द कुमार (जेसी-264102एफ), 04 दिसम्बर 2009/01 दिसम्बर 2009\*

सूबेदार रमेश चन्द (जेसी-263483एफ), 03 अक्टूबर 2009/01 अक्टूबर 2009\*

सूबेदार युगल किशोर (जेसी-262683एल), 01 नवम्बर 2009\*

सूबेदार श्री कुमार के जी (जेसी-263762एम), 28 अक्टूबर 2009/01 अक्टूबर 2009\*

सूबेदार शिव प्रसाद यादव (जेसी-265400के), 14 नवम्बर 2009/01 अक्टूबर 2009\*

सूबेदार रामेश्वर दयाल (जेसी-263341के), 20 अगस्त 2009/01 जुलाई 2009\*

सूबेदार हाकिम सिंह (जेसी-260714एफ), 21 दिसम्बर 2009/01 दिसम्बर 2009\*

सूबेदार श्री प्रसाद मोहन्ता (जेसी-261994एम), 24 दिसम्बर 2009/01 दिसम्बर 2009\*

सूबेदार परमजीत सिंह (जेसी-265351एम), 03 दिसम्बर 2009/01 दिसम्बर 2009\*

सूबेदार लाल बहादुर (जेसी-263439एक्स), 03 अगस्त 2009/01 जुलाई 2009\*

सूबेदार कृष्णन कुमार त्रिपाठी (जेसी-260970डब्ल्यू), 02 दिसम्बर 2009/01 दिसम्बर 2009\*

सूबेदार नमो नारायण पाण्डेय (जेसी-261265के), 04 जनवरी 2010/01 दिसम्बर 2009\*

सूबेदार तावरे बालासाहेब बाबूराव (जेसी-262748एन), 12 दिसम्बर 2009/01 अक्टूबर 2009\*

सूबेदार राजकुमार (जेसी-264400एक्स), 05 अगस्त 2009/01 अगस्त 2009\*

सूबेदार सुभाष चन्दर (जेसी-264651एफ), 01 अक्टूबर 2009

सूबेदार मोहिंदर कुमार (जेसी-261170के), 01 नवम्बर 2009

सूबेदार फ्रान्सिस कुजर (जेसी-263498के), 01 सितम्बर 2009

सूबेदार निरस झा (जेसी-262300एन), 30 अक्टूबर 2009/01 अक्टूबर 2009\*

सूबेदार बलविन्दर सिंह (जेसी-264052एफ), 01 फरवरी 2010/01 नवम्बर 2009\*

सूबेदार टी रेड्डीपा रेड्डी (जेसी-262505एच), 08 फरवरी 2010/01 फरवरी 2010\*

सूबेदार जंग बहादुर सिंह बक्शी (जेसी-263535एम), 21 दिसम्बर 2009/01 दिसम्बर 2009\*

सूबेदार पी सी विगेन्द्रा (जेसी-263618एक्स), 16 फरवरी 2010/01 फरवरी 2010\*

सूबेदार गुप्त सिंह (जेसी-261982एक्स), 04 जुलाई 2009/01 जून 2009\*

सूबेदार बलबीर सिंह (जेसी-262026एफ), 12 फरवरी 2010/01 जनवरी 2010\*

सबस्टैंटिव सूबेदार मेजर (एआईजी) के पद में

सूबेदार ग्यानेन्द्र कुमार तिवारी (जेसी-257758एन), 26 अक्टूबर 2009/01 अक्टूबर 2009\*

सबस्टैंटिव सूबेदार (एआईजी) के पद में

नायब सूबेदार परमपाल सिंह (जेसी-268984एल), 06 जुलाई 2009/01 दिसम्बर 2008\*

नायब सूबेदार मनोज कुमार (जेसी-269453ए), 01 अगस्त 2009  
 नायब सूबेदार प्रीतम सिंह (जेसी-268306एल), 26 अक्टूबर 2009/  
 27 जुलाई 2009 \*

नायब सूबेदार जगने राम गोविन्द रामजी (जेसी-269945वाई),  
 01 अगस्त 2009

नायब सूबेदार श्याम कुमार (जेसी-269455एल), 01 मई 2009

नायब सूबेदार पटेल हितेश कुमार के (जेसी-269451पी), 02 जुलाई  
 2009/01 जुलाई 2009 \*

नायब सूबेदार हरविन्दर सिंह (जेसी-269950के), 04 जनवरी  
 2010/01 जनवरी 2010 \*

नायब सूबेदार अरविन्द कुमार (जेसी-270076एफ), 04 जनवरी  
 2009/01 जनवरी 2010 \*

नायब सूबेदार नित्या नन्द दुबे (जेसी-268308डब्ल्यू), 01 जनवरी  
 2010

नायब सूबेदार कोट्य सांबाशिवा राव (जेसी-262581पी), 04 जनवरी  
 2010/01 जनवरी 2010 \*

नायब सूबेदार वी प्रसन्ना कुमार (जेसी-270421के), 20 जनवरी  
 2010/01 जनवरी 2010 \*

नायब सूबेदार राजेश ओ (जेसी-269942एल), 01 जनवरी 2010

नायब सूबेदार देशराज (जेसी-270075वाई), 11 जनवरी 2010/  
 01 दिसम्बर 2009 \*

नायब सूबेदार रामधन (जेसी-270078एम), 01 फरवरी 2010

नायब सूबेदार शहाजी अन्तेनी (जेसी-266507एल), 09 जनवरी  
 2010/01 अक्टूबर 2008 \*

नायब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह (जेसी-269947के), 09 जनवरी 2010/  
 01 जनवरी 2010 \*

नायब सूबेदार प्रदीप कुमार (जेसी-270420एफ), 12 जनवरी 2010/  
 01 जनवरी 2010 \*

सबस्टैटिव सूबेदार (म्युजिशियन) के पद में

नायब सूबेदार एम डी बोड्डोडोझा (जेसी-268827वाई), 27 जनवरी  
 2010/01 जनवरी 2010 \*

नायब सूबेदार मुलतान सिंह (जेसी-271469के), 27 जनवरी 2010/  
 01 जनवरी 2010 \*

\*(ज्येष्ठता प्राप्त)

सबस्टैटिव सूबेदार मेजर (धर्मशिक्षक) के पद में

सूबेदार राम अचल पाण्डेय (जेसी-142714के), 01 जनवरी 2009

सूबेदार विजय प्रसाद किमोती (जेसी-142723एल), 01 फरवरी  
 2009

सूबेदार प्रेम बल्लभ पंत (जेसी-142731के), 02 फरवरी 2009/  
 01 फरवरी 2009 \*

सूबेदार बाल मुन्कुद द्विवेदी (जेसी-142724एन), 02 अप्रैल 2009/  
 01 मार्च 2009 \*

सूबेदार राकेश प्रसाद द्विवेदी (जेसी-142725डब्ल्यू), 01 अप्रैल  
 2009/01 मार्च 2009 \*

सूबेदार नवीन चंद्र पंत (जेसी-137667एन), 01 जुलाई 2009/  
 01 अगस्त 2008 \*

सूबेदार सत्य नारायण शर्मा (जेसी-149767एल), 18 जुलाई 2009/  
 01 नवम्बर 2008 \*

सबस्टैटिव सूबेदार (धर्मशिक्षक) के पद में

नायब सूबेदार लाल मनी शुक्ला (जेसी-260466डब्ल्यू), 01 दिसम्बर  
 2008

नायब सूबेदार शिबेश्वर कुमार (जेसी-260465एन), 21 फरवरी  
 2009/01 फरवरी 2009 \*

नायब सूबेदार हरी प्रकाश मिश्रा (जेसी-260556एक्स), 09 अप्रैल  
 2009/01 मार्च 2009 \*

नायब सूबेदार राजीव कान्त झा (जेसी-260553के), 13 अप्रैल  
 2009/01 अप्रैल 2009 \*

नायब सूबेदार कौशलेन्द्रा शरण मिश्रा (जेसी-260555पी), 08 जून  
 2009/01 जून 2009 \*

नायब सूबेदार देवी दयाल पाण्डेय (जेसी-260554एम), 01 जुलाई  
 2009

नायब सूबेदार सन्तोख सिंह (जेसी-260557ए), 04 अगस्त 2009/  
 01 अगस्त 2009 \*

सबस्टैटिव नायब सूबेदार (धर्मशिक्षक) के पद में

नायब सूबेदार दनेश चन्द्र त्रिपाठी (जेसी-270275पी), 08 सितम्बर  
 2007

नायब सूबेदार याद राम शर्मा (जेसी-270276एक्स), 08 सितम्बर  
 2007

नायब सूबेदार दलविन्दर सिंह (जेसी-270274एम), 08 सितम्बर  
 2007

नायब सूबेदार प्रेम सिंह (जेसी-270277ए), 08 सितम्बर 2007

नायब सूबेदार कृष्णन शंकर द्विवेदी (जेसी-270522), 01 दिसम्बर  
 2007

नायब सूबेदार राजिन्दर पाल सिंह (जेसी-270523ए), 01 दिसम्बर  
 2007

नायब सूबेदार रवी कुमार (जेसी-270524एच), 01 दिसम्बर 2007

नायब सूबेदार हरीश कुमार उपाध्याय (जेसी-271028एन), 20 मार्च 2008

नायब सूबेदार गया प्रसाद शर्मा (जेसी-271528एल), 06 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार अशुतोष कुमार तिवारी (जेसी-271529एन), 06 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार मथुरा प्रसाद (जेसी-271530एच), 06 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार अजय कुमार दुबे (जेसी-271531एल), 06 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार अश्विनी कुमार (जेसी-271532एन), 06 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार लाल मनी (जेसी-271760डब्ल्यू), 15 नवम्बर 2008

नायब सूबेदार अंबोज कुमार राय (जेसी-271761वाई), 15 नवम्बर 2008

\*(ज्येष्ठता प्राप्त)

सबस्टैटिव सूबेदार (जी डी) के पद में

नायब सूबेदार सुभाष कृष्णाराव शर्के (जेसी-270499पी), 20 अक्टूबर 2009/20 अगस्त 2009\*

नायब सूबेदार बी जॉन केन्डी (जेसी-270504पी), 05 नवम्बर 2009/20 अगस्त 2009\*

नायब सूबेदार पीकिल्ली सुब्रायडू (जेसी 270533के), 14 अक्टूबर 2009/20 अगस्त 2009\*

नायब सूबेदार हरजिन्दर सिंह (जेसी 271522के), 03 नवम्बर 2009/15 अगस्त 2009\*

नायब सूबेदार तिलक राज (जेसी-260822वाई), 01 नवम्बर 2009/21 अगस्त 2009\*

नायब सूबेदार दिवान सिंह (जेसी-271395ए), 25 अक्टूबर 2009/20 अगस्त 2009\*

नायब सूबेदार मधूकर नानू खाम्बे (जेसी-270884वाई), 01 अक्टूबर 2009/20 अगस्त 2009\*

नायब सूबेदार रणजीत सिंह राठोड (जेसी-270508एल), 06 अक्टूबर 2009/20 अगस्त 2009\*

नायब सूबेदार प्रेम कुमार टी (जेसी-270300एच), 11 नवम्बर 2009/20 अगस्त 2009\*

नायब सूबेदार खलील अहमद खान (जेसी-261306डब्ल्यू), 15 अक्टूबर 2009/15 अगस्त 2009\*

नायब सूबेदार प्रसन्ता कुमार हजारिका (जेसी-270664पी), 29 सितम्बर 2009/15 अगस्त 2009\*

नायब सूबेदार रमेश सिंह (जेसी-271032डब्ल्यू), 28 अक्टूबर 2009/01 अक्टूबर 2009\*

नायब सूबेदार केवल सिंह (जेसी-270789एम), 23 सितम्बर 2009/01 अगस्त 2009\*

नायब सूबेदार अनिल कुमार के पी (जेसी-270474एच), 20 अक्टूबर 2009/01 अगस्त 2009\*

नायब सूबेदार मडडीनेनी श्रीनिवासा राव (जेसी-270867वाई), 20 अक्टूबर 2009/01 अगस्त 2009\*

नायब सूबेदार तीर्थ नाथ यादव (जेसी-271582वाई), 22 अक्टूबर 2009/01 अगस्त 2009\*

नायब सूबेदार गुरुमुख सिंह (जेसी-271379एच), 01 अगस्त 2009

नायब सूबेदार शेष अहमद वाली (जेसी-271612एल), 01 नवम्बर 2009/01 अगस्त 2009\*

नायब सूबेदार राधे श्याम मौर्या (जेसी-271238एन), 21 सितम्बर 2009/01 अगस्त 2009\*

नायब सूबेदार विजेन्द्र सिंह (जेसी-270941पी), 26 अक्टूबर 2009/08 अगस्त 2009\*

नायब सूबेदार धनपती (जेसी-270891पी), 26 अक्टूबर 2009/08 अगस्त 2009\*

नायब सूबेदार बिपुल चन्द्र नाथ (जेसी-271160एन), 29 सितम्बर 2009/10 अगस्त 2009\*

\*(ज्येष्ठता प्राप्त)

नायब सूबेदार रावेन्द्रा सिंह (जेसी-270698एच), 31 अक्टूबर 2009/28 अगस्त 2009\*

नायब सूबेदार सूराम सिंह (जेसी-271050वाई), 25 अक्टूबर 2009/21 अगस्त 2009\*

नायब सूबेदार शशी भूषण शर्मा (जेसी-270969पी), 25 अक्टूबर 2009/21 अगस्त 2009\*

नायब सूबेदार गुरभेज सिंह (जेसी-271630एन), 01 नवम्बर 2009/22 अगस्त 2009\*

नायब सूबेदार गोपीनाथन बी के (जेसी-270760के), 27 नवम्बर 2009/24 अगस्त 2009\*

नायब सूबेदार जसवन्त सिंह जाट (जेसी-269128ए), 09 अक्टूबर 2009/25 अगस्त 2009\*

नायब सूबेदार के एम विक्रमन (जेसी-270013वाई), 09 नवम्बर 2009/25 अगस्त 2009\*

नायब सूबेदार गुरमीत सिंह (जेसी-270429डब्ल्यू), 11 अक्टूबर 2009/25 अगस्त 2009\*



नायब सूबेदार उमेद सिंह (जेसी-270641एन), 09 अक्टूबर 2009/ 25 अगस्त 2009 *	नायब सूबेदार प्रितम सिंह (जेसी-270575डब्ल्यू), 16 अक्टूबर 2009/01 अक्टूबर 2009 *
नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह (जेसी-271410के), 05 अक्टूबर 2009/ 25 अगस्त 2009 *	नायब सूबेदार विशूम्बर नाथ मिश्रा (जेसी-267070पी), 04 अक्टूबर 2009/01 अक्टूबर 2009 *
नायब सूबेदार दयालन एस (जेसी-271624ए), 03 नवम्बर 2009/ 25 अगस्त 2009 *	नायब सूबेदार रणधीर सिंह (जेसी-267174डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2009
नायब सूबेदार मान सिंह (जेसी-270816एल), 18 अक्टूबर 2009/ 27 अगस्त 2009 *	नायब सूबेदार मोहिन्दर सिंह (जेसी-269686एफ), 30 नवम्बर 2009/01 अक्टूबर 2009 *
नायब सूबेदार त्रिलोकी प्रसाद मिश्रा (जेसी-270791के), 31 अक्टूबर 2009/28 अगस्त 2009 *	नायब सूबेदार जसबीर सिंह (जेसी-269691एम), 07 अक्टूबर 2009/01 अक्टूबर 2009 *
नायब सूबेदार रमेश चन्द्र (जेसी-269377वाई), 03 नवम्बर 2009/ 30 अगस्त 2009 *	नायब सूबेदार शिशिर कुमार नायक (जेसी-271252ए), 01 अक्टूबर 2009
नायब सूबेदार एम अथीनारायणन (जेसी-270990एक्स), 23 अक्टूबर 2009/31 अगस्त 2009 *	नायब सूबेदार जी रामा मुर्ती (जेसी-270892एक्स), 10 नवम्बर 2009/01 अक्टूबर 2009 *
नायब सूबेदार भँवर सिंह (जेसी-271052के), 06 नवम्बर 2009/ 31 अगस्त 2009 *	नायब सूबेदार जगदेव सिंह (जेसी-270455एक्स), 01 अक्टूबर 2009
नायब सूबेदार स्मेल राज (जेसी-271421डब्ल्यू), 30 अक्टूबर 2009/31 अगस्त 2009 *	नायब सूबेदार ओमपाल सिंह (जेसी-270589डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2009
नायब सूबेदार केदार सिंह (जेसी-271769एल), 10 अक्टूबर 2009/ 31 अगस्त 2009 *	नायब सूबेदार अजब सिंह (जेसी-271034एफ), 01 अक्टूबर 2009
नायब सूबेदार मदन सिंह राठौड (जेसी-271459ए), 06 नवम्बर 2009/31 अगस्त 2009 *	नायब सूबेदार गणेश सिंह धुनी (जेसी-271307वाई), 01 अक्टूबर 2009
नायब सूबेदार बलविन्दर सिंह (जेसी-269992डब्ल्यू), 09 दिसम्बर 2009/01 सितम्बर 2009 *	नायब सूबेदार हरि सिंह (जेसी-264902ए), 01 नवम्बर 2009/ 05 अक्टूबर 2009 *
नायब सूबेदार जय प्रकाश राय (जेसी-270164एक्स), 29 अक्टूबर 2009/18 सितम्बर 2009 *	नायब सूबेदार वी सेनथील कुमारन (जेसी-270492एल), 05 नवम्बर 2009/05 अक्टूबर 2009 *
नायब सूबेदार कुलवन्त सिंह (जेसी-266386पी), 29 अक्टूबर 2009/01 अक्टूबर 2009 *	नायब सूबेदार एचएम कमल पाशा (जेसी-270922के), 09 अक्टूबर 2009/20 अगस्त 2009 *
नायब सूबेदार जरनैल सिंह (जेसी-268815के), 08 सितम्बर 2009/ 01 अगस्त 2009 *	नायब सूबेदार रमेश कुमार (जेसी-271342एफ), 26 सितम्बर 2009/20 अगस्त 2009 *
नायब सूबेदार विक्रम सिंह शाही (जेसी-270959एल), 24 सितम्बर 2009/19 अगस्त 2009 *	नायब सूबेदार मोहन लाल (जेसी-269752वाई), 01 दिसम्बर 2009/13 नवम्बर 2009 *
नायब सूबेदार पटेल अनिल कुमार अर्जुन भाई (जेसी-269994एफ), 30 अप्रैल 2009/01 मार्च 2009 *	नायब सूबेदार भँवर लाल (जेसी-270503एम), 03 नवम्बर 2009/ 15 अगस्त 2009 *
नायब सूबेदार शिव प्रकाश (जेसी-269370पी), 01 अप्रैल 2009	नायब सूबेदार राजेश कुमार शुक्ला (जेसी-271234एक्स), 26 सितम्बर 2009/19 अगस्त 2009 *
नायब सूबेदार चन्नापाण्डा टी उथप्पा (जेसी-264351ए), 15 अगस्त 2009/01 अप्रैल 2009 *	नायब सूबेदार राधाकृष्णन पी एन (जेसी-270209एम), 02 नवम्बर 2009/19 अगस्त 2009 *
	नायब सूबेदार शरनम श्रीनिवासा राव (जेसी-271061एल), 14 अक्टूबर 2009/20 अगस्त 2009 *
	नायब सूबेदार एन विश्वनाथन (जेसी-269620एल), 16 नवम्बर 2009/01 अक्टूबर 2009 *

\*(ज्येष्ठता प्राप्त)

नायब सूबेदार रमेश कुमार (जेसी-269898एम), 21 अक्टूबर 2009/01 अक्टूबर 2009 \*

नायब सूबेदार कैलाश चन्द्र सिंह (जेसी-269549एच), 13 नवम्बर 2009/01 अक्टूबर 2009 \*

नायब सूबेदार गिन्नी रामा राव (जेसी-270781ए), 04 दिसम्बर 2009/01 सितम्बर 2009 \*

नायब सूबेदार शैलेन्द्र पाल (जेसी-270599ए), 16 अक्टूबर 2009/01 सितम्बर 2009 \*

नायब सूबेदार अरविन्द कुमार सिंह (जेसी-270580एफ), 12 नवम्बर 2009/23 सितम्बर 2009 \*

नायब सूबेदार करन सिंह यादव (जेसी-271059एन), 13 नवम्बर 2009/01 सितम्बर 2009 \*

नायब सूबेदार समशेर बहादुर सिंह (जेसी-270636एच), 10 नवम्बर 2009/01 सितम्बर 2009 \*

नायब सूबेदार राजवीर सिंह (जेसी-270549पी), 10 दिसम्बर 2009/01 सितम्बर 2009 \*

नायब सूबेदार चन्द्र शेखर बिरादर (जेसी-270402वाई), 07 जनवरी 2010/03 दिसम्बर 2009 \*

नायब सूबेदार भवानी सिंह राठोड (जेसी-271329एक्स), 01 जनवरी 2010/01 दिसम्बर 2009 \*

नायब सूबेदार विजय कुमार सिंह (जेसी-270288एम), 14 दिसम्बर 2009/01 दिसम्बर 2009 \*

नायब सूबेदार बहादुर सिंह (जेसी-269579ए), 14 जनवरी 2010/01 दिसम्बर 2009 \*

नायब सूबेदार सुखदेव सिंह (जेसी-269375एन), 31 दिसम्बर 2009/01 दिसम्बर 2009 \*

नायब सूबेदार राधाकृष्णन एस (जेसी-269561के), 26 दिसम्बर 2009/01 दिसम्बर 2009 \*

नायब सूबेदार हरीश चन्द्र जोशी (जेसी-267317एल), 19 दिसम्बर 2009/01 दिसम्बर 2009 \*

नायब सूबेदार श्री कुमार आर (जेसी-271550डब्ल्यू), 29 दिसम्बर 2009/13 नवम्बर 2009 \*

नायब सूबेदार अमर नाथ सिंह यादव (जेसी-271271एल), 02 जनवरी 2010/30 नवम्बर 2009 \*

नायब सूबेदार कृष्णन पाल (जेसी-270278एच), 26 दिसम्बर 2009/29 नवम्बर 2009 \*

नायब सूबेदार राम चन्द्र सिंह (जेसी-269503ए), 07 दिसम्बर 2009/23 नवम्बर 2009 \*

नायब सूबेदार अनिरुद्धन बी (जेसी-270604ए), 03 जनवरी 2010/13 नवम्बर 2009 \*

नायब सूबेदार सुरजीवन सिंह (जेसी-270159एम), 14 दिसम्बर 2009/13 नवम्बर 2009 \*

नायब सूबेदार राज कुमार (जेसी-270567एक्स), 22 जनवरी 2010/18 सितम्बर 2009 \*

नायब सूबेदार सुरजीत सिंह (जेसी-270792एम), 15 नवम्बर 2009/01 अगस्त 2009 \*

नायब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह (जेसी-271242डब्ल्यू), 12 अक्टूबर 2009/01 अगस्त 2009 \*

नायब सूबेदार जोगिन्दर सिंह (जेसी-270225डब्ल्यू), 15 नवम्बर 2009/01 अगस्त 2009 \*

नायब सूबेदार राम स्वरूप जाट (जेसी-271001डब्ल्यू), 20 जनवरी 2010/15 अगस्त 2009 \*

नायब सूबेदार मदन राम (जेसी-270494डब्ल्यू), 25 जनवरी 2010/19 अगस्त 2009 \*

नायब सूबेदार बसाप्पा कजागर (जेसी-270830एक्स), 14 अक्टूबर 2009/24 अगस्त 2009 \*

नायब सूबेदार विनोद कुमार (जेसी-270758एम), 24 अक्टूबर 2009/25 अगस्त 2009 \*

नायब सूबेदार अर्जुन सिंह (जेसी-269221एफ), 08 सितम्बर 2009/15 जून 2009 \*

नायब सूबेदार उदयवीर सिंह (जेसी-269614एक्स), 01 फरवरी 2009

नायब सूबेदार मन्यीयन एम (जेसी-271491पी), 28 नवम्बर 2009/01 अगस्त 2009 \*

नायब सूबेदार जयप्रकाश (जेसी-270460एच), 30 सितम्बर 2009/01 अगस्त 2009 \*

नायब सूबेदार जवाहिर शाह (जेसी-270401डब्ल्यू), 01 जुलाई 2009

नायब सूबेदार मेवा लाल (जेसी-266467पी), 20 जुलाई 2009/05 जून 2009 \*

नायब सूबेदार गुरुपाल सिंह (जेसी-269586डब्ल्यू), 05 मार्च 2009/01 मार्च 2009 \*

नायब सूबेदार बलविन्दर सिंह (जेसी-268337एल), 18 फरवरी 2010/01 फरवरी 2009 \*

नायब सूबेदार शीनन टी (जेसी-269831एन), 07 दिसम्बर 2008/28 अगस्त 2008 \*

नायब सूबेदार काले शिवजी दिगंबर (जेसी-269655एफ), 01 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार जर्मन सिंह (जेसी-269413वाई), 18 अक्टूबर 2008/18 अगस्त 2008 \*

नायब सूबेदार सोमन ए (जेसी-268924डब्ल्यू), 02 अक्टूबर 2008/  
20 अगस्त 2008 \*

नायब सूबेदार जगदीश प्रसाद यादव (जेसी-263503एल), 23 नवम्बर  
2009/01 अगस्त 2009 \*

नायब सूबेदार सोम दत्त (जेसी-270577एफ), 23 नवम्बर 2009/  
01 अगस्त 2009 \*

नायब सूबेदार कृष्णा सिंह (जेसी-269929एफ), 01 दिसम्बर 2009

नायब सूबेदार अजय सी (जेसी-270435के), 11 दिसम्बर 2009/  
04 नवम्बर 2009 \*

नायब सूबेदार शंकरन पी सी (जेसी-271362पी), 10 दिसम्बर  
2009/01 नवम्बर 2009 \*

नायब सूबेदार राम मनोहर साहू (जेसी-270747ए), 16 नवम्बर  
2009/01 नवम्बर 2009 \*

नायब सूबेदार कुन्दन सिंह (जेसी-271668एक्स), 02 दिसम्बर  
2009/01 नवम्बर 2009 \*

नायब सूबेदार दिगार सिंह (जेसी-271232एम), 04 दिसम्बर 2009/  
01 नवम्बर 2009 \*

नायब सूबेदार जीतसम ओरान (जेसी-270932एन), 25 नवम्बर  
2009/01 नवम्बर 2009 \*

नायब सूबेदार सच्चिदानन्द ठाकुर (जेसी-271496एन), 17 नवम्बर  
2009/01 नवम्बर 2009 \*

नायब सूबेदार लाखन सिंह (जेसी-270174एफ), 18 नवम्बर 2009/  
01 नवम्बर 2009 \*

नायब सूबेदार राम प्रकाश (जेसी-270145एम), 25 नवम्बर 2009/  
01 नवम्बर 2009 \*

नायब सूबेदार रमेश प्रसाद (जेसी-269810एक्स), 24 नवम्बर  
2009/01 नवम्बर 2009 \*

नायब सूबेदार आराम सिंह (जेसी-269769एम), 01 नवम्बर 2009

नायब सूबेदार त्रिलोक सिंह सिंगार (जेसी-269959वाई), 16 नवम्बर  
2009/01 नवम्बर 2009 \*

नायब सूबेदार मुन्ना लाल (जेसी-270464वाई), 16 नवम्बर 2009/  
31 अगस्त 2009 \*

नायब सूबेदार गुलजारी लाल (जेसी-270548एम), 26 नवम्बर  
2009/31 अगस्त 2009 \*

नायब सूबेदार के रमेश रेड्डी (जेसी-271147के), 10 नवम्बर  
2009/31 अगस्त 2009 \*

नायब सूबेदार राज कुमार (जेसी-271030एल), 16 नवम्बर 2009/  
31 अगस्त 2009 \*

नायब सूबेदार बिहारी सिंह (जेसी-271065एफ), 20 नवम्बर 2009/  
31 अगस्त 2009 \*

नायब सूबेदार आर गोविन्दा राजन (जेसी-270940एम), 29 नवम्बर  
2009/31 अगस्त 2009 \*

नायब सूबेदार नलावडे संजय नाना (जेसी-269125एम), 15 फरवरी  
2010/22 अगस्त 2009 \*

नायब सूबेदार अश्विनी कुमार नाथ (जेसी-270750ए), 15 फरवरी  
2010/22 अगस्त 2009 \*

नायब सूबेदार ब्रिजेश कुमार यादव (जेसी-271039ए), 15 फरवरी  
2010/22 अगस्त 2009 \*

नायब सूबेदार धरमबीर सिंह (जेसी-271480एच), 19 फरवरी  
2010/01 जनवरी 2010 \*

नायब सूबेदार के मुरलीधरन (जेसी-266163एक्स), 05 मार्च 2010/  
01 जनवरी 2010 \*

नायब सूबेदार नरेश कुमार (जेसी-270931एल), 25 दिसम्बर  
2009/01 अगस्त 2009 \*

नायब सूबेदार राघवेन्द्रा यादव (जेसी-271064वाई), 21 दिसम्बर  
2009/01 अगस्त 2009 \*

नायब सूबेदार राम कुमार (जेसी-271772एल), 18 जनवरी 2010/  
02 अक्टूबर 2009 \*

नायब सूबेदार सुचा सिंह (जेसी-269640वाई), 01 अक्टूबर 2009

नायब सूबेदार सी गोपी (जेसी-268490एफ), 15 मई 2009/01 मई  
2009 \*

नायब सूबेदार दयाल सिंह रावत (जेसी-270702ए), 05 अक्टूबर  
2009/01 अक्टूबर 2009 \*

नायब सूबेदार जगदेव सिंह (जेसी-268646एन), 28 दिसम्बर  
2009/01 अगस्त 2009 \*

नायब सूबेदार जगत नारायण सिंह (जेसी-270138डब्ल्यू), 01 मई  
2009

नायब सूबेदार के राधाकृष्णन (जेसी-270404के), 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार मदन लाल (जेसी-270302एन), 07 दिसम्बर 2009/  
13 अगस्त 2009 \*

नायब सूबेदार दशरथ पांडुरंग खोत (जेसी-271631डब्ल्यू), 07 दिसम्बर  
2009/01 अगस्त 2009 \*

नायब सूबेदार राम फल (जेसी-271623एक्स), 03 दिसम्बर 2009/  
01 अगस्त 2009 \*

नायब सूबेदार शेख शिकन्दर यासीन (जेसी-271484वाई), 03 दिसम्बर  
2009/01 अगस्त 2009 \*

नायब सूबेदार नन्द लाल (जेसी-271565वाई), 15 नवम्बर 2009/  
01 अगस्त 2009 \*

नायब सूबेदार विनोद पी जे (जेसी-270493एन), 13 नवम्बर 2009/  
01 अगस्त 2009 \*

नायब सूबेदार छोटू राम (जेसी-270568ए), 10 दिसम्बर 2009/  
01 अगस्त 2009 \*

नायब सूबेदार रोहित बोहरा (जेसी-269317के), 01 दिसम्बर 2009/  
01 अगस्त 2009 \*

नायब सूबेदार अल्बर्ट रवी (जेसी-270463डब्ल्यू), 07 नवम्बर 2009/  
18 अगस्त 2009 \*

नायब सूबेदार सुनील कुमार कान्डीयिल (जेसी-271464एल), 07 नवम्बर  
2009/18 अगस्त 2009 \*

नायब सूबेदार कुंचाम तुलसीदास (जेसी-270532एफ), 28 दिसम्बर  
2009/20 अगस्त 2009 \*

नायब सूबेदार अमर कुमार सिन्हा (जेसी-270552पी), 24 नवम्बर  
2009/20 अगस्त 2009 \*

नायब सूबेदार सुरेन्द्रन पी (जेसी-270988ए), 07 नवम्बर 2009/  
18 अगस्त 2009 \*

नायब सूबेदार वी शिवनेसा शंकर (जेसी-271554एम), 05 दिसम्बर  
2009/18 अगस्त 2009 \*

नायब सूबेदार गधुसुदन नायर जी (जेसी-270553एक्स), 22 नवम्बर  
2009/18 अगस्त 2009 \*

नायब सूबेदार आनंदम एम (जेसी-270739एफ), 04 दिसम्बर  
2009/18 अगस्त 2009 \*

नायब सूबेदार तेजपाल सिंह (जेसी-271547डब्ल्यू), 02 दिसम्बर  
2009/20 अगस्त 2009 \*

नायब सूबेदार जागीर सिंह (जेसी-271207एन), 12 नवम्बर 2009/  
25 अगस्त 2009 \*

नायब सूबेदार कुलबीर सिंह (जेसी-269533एक्स), 02 मार्च 2009/  
31 अगस्त 2008 \*

नायब सूबेदार अनिल कुमार यादव (जेसी-270685एल), 07 अक्टूबर  
2009/23 अगस्त 2009 \*

नायब सूबेदार शशी भूषण कुमार (जेसी-271170एक्स), 23 नवम्बर  
2009/11 अक्टूबर 2009 \*

नायब सूबेदार गणेशो लाल (जेसी-269026के), 12 नवम्बर 2009/  
11 अक्टूबर 2009 \*

नायब सूबेदार सरदार सिंह परमार (जेसी-270772वाई), 09 नवम्बर  
2009/10 अक्टूबर 2009 \*

नायब सूबेदार ज्ञानेश्वर सोनावणे (जेसी-269313एन), 12 नवम्बर  
2009/10 अक्टूबर 2009 \*

नायब सूबेदार घनश्याम शर्मा (जेसी-271328पी), 02 दिसम्बर  
2009/01 अक्टूबर 2009 \*

नायब सूबेदार पुरुषोत्तम राम (जेसी-271053एम), 11 नवम्बर  
2009/01 अक्टूबर 2009 \*

नायब सूबेदार इकबाल सिंह (जेसी-271304एल), 27 नवम्बर  
2009/01 अक्टूबर 2009 \*

नायब सूबेदार महाबीर सिंह (जेसी-270699एल), 27 नवम्बर  
2009/01 अक्टूबर 2009 \*

नायब सूबेदार राजाशेखरन नायर (जेसी-271013एल), 30 नवम्बर  
2009/01 अक्टूबर 2009 \*

नायब सूबेदार व्हिटर पेरेरा (जेसी-270595के), 01 फरवरी 2009/  
01 अक्टूबर 2009 \*

नायब सूबेदार गागरे भागुजी अमृता (जेसी-270439ए), 11 नवम्बर  
2009/01 अक्टूबर 2009 \*

नायब सूबेदार घनमारे सुरेश नथु (जेसी-270773एफ), 23 नवम्बर  
2009/01 अक्टूबर 2009 \*

नायब सूबेदार जोगिन्दर सिंह (जेसी-270392ए), 17 नवम्बर 2009/  
01 अक्टूबर 2009 \*

नायब सूबेदार संजीव गुरंग (जेसी-269598एल), 16 नवम्बर 2009/  
01 अक्टूबर 2009 \*

नायब सूबेदार रती राम सिंह (जेसी-269735वाई), 15 मार्च 2010/  
01 जनवरी 2010 \*

नायब सूबेदार सुभाष चन्द (जेसी-271549एफ), 01 दिसम्बर 2009

नायब सूबेदार शिशुपाल सिंह (जेसी-270997एफ), 07 दिसम्बर  
2009/01 दिसम्बर 2009 \*

नायब सूबेदार दुर्गा लाल धाडवाडीया (जेसी-270476एन), 01 दिसम्बर  
2009

नायब सूबेदार नाफे सिंह (जेसी-270339पी), 01 दिसम्बर 2009

नायब सूबेदार शेडागे तुकाराम गंगाराम (जेसी-268222एक्स),  
01 दिसम्बर 2009

नायब सूबेदार मिथथान सिंह (जेसी-270135एच), 16 दिसम्बर  
2009/13 नवम्बर 2009 \*

नायब सूबेदार मनजीत सिंह (जेसी-269656के), 01 जनवरी 2010/  
13 नवम्बर 2009 \*

नायब सूबेदार रामजीत सिंह यादव (जेसी-271037पी), 01 अक्टूबर  
2009/11 अगस्त 2009 \*

नायब सूबेदार पिन्की यादव (जेसी-271364ए), 03 मार्च 2010/  
01 जनवरी 2010 \*

नायब सूबेदार ब्रम्हानन्द जीना (जेसी-268523एफ), 11 मार्च 2010/01 जनवरी 2010\*

नायब सूबेदार रामाकान्त सिंह (जेसी-267106एच), 02 दिसम्बर 2009/10 मई 2009\*

नायब सूबेदार दशरथ केरू खोन्डगे (जेसी-270064एम), 04 दिसम्बर 2009/01 अगस्त 2009\*

नायब सूबेदार सुरीन्द्र मोहन (जेसी-270897डब्ल्यू), 27 नवम्बर 2009/14 अगस्त 2009\*

नायब सूबेदार नन्नावरे बालु (जेसी-270147एक्स), 27 फरवरी 2010/13 नवम्बर 2009\*

नायब सूबेदार यशपाल (जेसी-271427एक्स), 02 मार्च 2010/03 दिसम्बर 2009\*

नायब सूबेदार बसन्त सिंह (जेसी-271194एफ), 11 मार्च 2010/01 जनवरी 2010\*

नायब सूबेदार पुरन सिंह (जेसी-268623एम), 01 मार्च 2010/01 जनवरी 2010\*

नायब सूबेदार आनंद कुमार पी के (जेसी-271551वाई), 29 दिसम्बर 2009/07 अगस्त 2009\*

नायब सूबेदार दिलबाग सिंह (जेसी-268161एल), 31 दिसम्बर 2009/09 अगस्त 2009\*

नायब सूबेदार बनवारी लाल (जेसी-270482एफ), 05 जनवरी 2010/31 अगस्त 2009\*

नायब सूबेदार हनमंता सनासिद्धा (जेसी-271131वाई), 22 जनवरी 2010/31 अगस्त 2009\*

नायब सूबेदार अमरजीत सिंह (जेसी-270821डब्ल्यू), 21 जनवरी 2010/12 सितम्बर 2009\*

नायब सूबेदार सुरेश चन्द (जेसी-271011ए), 17 फरवरी 2010/01 नवम्बर 2009\*

नायब सूबेदार शशीधरन पी (जेसी-267172एल), 01 जनवरी 2010/13 नवम्बर 2009\*

नायब सूबेदार ओम प्रकाश (जेसी-268630एच), 11 जनवरी 2010/13 नवम्बर 2009\*

नायब सूबेदार महेन्द्र सिंह (जेसी-269664एच), 12 जनवरी 2010/13 नवम्बर 2009\*

नायब सूबेदार इलुमलाई ए (जेसी-270056एन), 02 जनवरी 2010/13 नवम्बर 2009\*

नायब सूबेदार महेन्द्र प्रसाद सिंह (जेसी-270581के), 20 अक्टूबर 2009/29 अगस्त 2009\*

नायब सूबेदार रामाचन्द्रन पी वी (जेसी-270631के), 01 दिसम्बर 2009/18 अगस्त 2009\*

नायब सूबेदार बब्बन प्रसाद (जेसी-270863एच), 23 नवम्बर 2009/26 अगस्त 2009\*

नायब सूबेदार कृष्णन चन्द (जेसी-267543एच), 01 दिसम्बर 2009/28 अगस्त 2009\*

नायब सूबेदार गुरुदीप सिंह (जेसी-269642के), 18 नवम्बर 2009/28 अगस्त 2009\*

नायब सूबेदार सत्येन्द्र प्रसाद चौधरी (जेसी-270673डब्ल्यू), 23 नवम्बर 2009/29 अगस्त 2009\*

नायब सूबेदार विजय सिंह (जेसी-270381एन), 05 नवम्बर 2009/30 अगस्त 2009\*

नायब सूबेदार हरबन्स सिंह (जेसी-268358एफ), 26 नवम्बर 2009/31 अगस्त 2009\*

नायब सूबेदार जोगानन्द बालाजी दत्तू (जेसी-269558के), 26 नवम्बर 2009/31 अगस्त 2009\*

नायब सूबेदार राम प्रसाद गुजर (जेसी-269361एन), 26 नवम्बर 2009/31 अगस्त 2009\*

नायब सूबेदार राम बहादुर श्रीस्त (जेसी-270542एल), 12 फरवरी 2010/31 अगस्त 2009\*

नायब सूबेदार शिव शंकर (जेसी-270585ए), 14 नवम्बर 2009/31 अगस्त 2009\*

\*(ज्येष्ठता प्राप्त)

सेना सेवा कोर (पूर्ति)

राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं।

सूबेदार लिपिक एसडी

नायब सूबेदार रामा चन्द्र बारिक (जेसी-663532एम), 23 अक्टूबर 2009\*

नायब सूबेदार श्री प्रसाद यादव (जेसी-663638वाई), 23 अक्टूबर 2009\*

नायब सूबेदार तप सिमुहद्री रेड्डी (जेसी-663527एफ), 22 अक्टूबर 2009\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार कैलाश चन्द्र खतेल (जेसी-663139के), 26 अक्टूबर 2009\*

नायब सूबेदार दिनेश कुमार कश्यप (जेसी-663138एफ), 26 अक्टूबर 2009\*

नायब सूबेदार बिस्वा मोहन साहू (जेसी-663063पी), 29 अक्टूबर 2009\*

नायब सूबेदार अरून कुमार साहू (जेसी-663088एफ), 21 अक्टूबर 2009\*

नायब सूबेदार उन्नीकण्णन नायर बी (जेसी-663219एफ), 21 अक्टूबर 2009\*

नायब सूबेदार दिलीप कुमार बिसवाल (जेसी-663273पी), 21 अक्टूबर 2009\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार लक्ष्मण सिंह खैरायत (जेसी-663743पी), 19 अगस्त 2009\*

नायब सूबेदार राजेश्वर (जेसी-663817वाई), 26 जुलाई 2009\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 मार्च 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार गुथा नारायण (जेसी-663464के), 30 अक्टूबर 2009\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2009 से दी जायेगी)

सूबेदार लिपिक व्यक्तिगत सहायक

नायब सूबेदार अक्षय कुमार (जेसी-664707डब्ल्यू), 13 अगस्त 2009\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 04 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार उमेश सिंह (जेसी-663892एच), 12 अगस्त 2009\*

नायब सूबेदार महेश चन्द्र यादव (जेसी-663894एन), 12 अगस्त 2009\*

नायब सूबेदार रमेश चन्द्र यादव (जेसी-663893एल), 12 अगस्त 2009\*

नायब सूबेदार नेत राम बैरागी (जेसी-663820वाई), 13 अगस्त 2009\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार बिजय कुमार राय (जेसी-663895डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2009

नायब सूबेदार मदन लाल (जेसी-663896वाई), 01 अक्टूबर 2009

नायब सूबेदार हरि कुमार ए एम (जेसी-663977वाई), 01 अक्टूबर 2009

नायब सूबेदार रोमेश चंद (जेसी-663974एल), 01 अक्टूबर 2009

नायब सूबेदार सुरेश कुमार (जेसी-663403एम), 19 नवम्बर 2009\*

नायब सूबेदार रूप लाल (जेसी-663322एम), 12 नवम्बर 2009\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार जसवन्त सिंह (जेसी-663664ए), 31 अक्टूबर 2009\*

नायब सूबेदार जय भगवान (जेसी-663642एफ), 05 नवम्बर 2009\*

नायब सूबेदार कृष्णा चन्द्र सिंघु (जेसी-663730एक्स), 13 नवम्बर 2009\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार विद्या सागर (जेसी-663886पी), 06 नवम्बर 2009\*

नायब सूबेदार हरेन्द्र सिंह रावत (जेसी-664565के), 11 नवम्बर 2009\*

नायब सूबेदार इंदर सिंह (जेसी-663890एक्स), 16 नवम्बर 2009\*

नायब सूबेदार हेमंत कुमार मिश्रा (जेसी-663891ए), 20 नवम्बर 2009\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार मनोरंजन मोहंती (जेसी-663971एक्स), 17 नवम्बर 2009\*

नायब सूबेदार प्रकाशन एन के (जेसी-663933एफ), 19 नवम्बर 2009\*

नायब सूबेदार चुना राम थालोर (जेसी-663970पी), 17 नवम्बर 2009\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 नवम्बर 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार राधे श्याम (जेसी-663140वाई), 30 अक्टूबर 2009\*

नायब सूबेदार अशोक कुमार (जेसी-663274एक्स), 01 जनवरी 2010\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार शशि भूषण झा (जेसी-663469एच), 16 नवम्बर 2009\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार नरेश चंद (जेसी-663724के), 23 अक्टूबर 2009\*

नायब सूबेदार एम मनोहरन (जेसी-663726पी), 30 अक्टूबर 2009\*

नायब सूबेदार श्रुत सिंह तोमर (जेसी-663727एक्स), 26 अक्टूबर 2009\*

नायब सूबेदार चंद्र मोहन (जेसी-663729एच), 26 अक्टूबर 2009\*

नायब सूबेदार अशोक प्रसद खान क्रियाल (जेसी-663731ए), 23 अक्टूबर 2009\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार कुलवंत सिंह (जेसी-663931डब्ल्यू), 04 नवम्बर 2009\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार राम प्रकाश यादव (जेसी-663880एन), 19 नवम्बर 2009\*

नायब सूबेदार विजय सिंह (जेसी-664012एन), 09 नवम्बर 2009\*

नायब सूबेदार अजीत कुमार एम बी (जेसी-663970पी), 19 नवम्बर 2009\*

नायब सूबेदार प्रेम सिंह (जेसी-663969ए), 20 नवम्बर 2009\*

नायब सूबेदार लक्ष्मण प्रसाद (जेसी-663881डब्ल्यू), 26 दिसम्बर 2009\*

नायब सूबेदार गुरबचन सिंह (जेसी-663921एम), 04 जनवरी 2010\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 नवम्बर 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार धर्मपाल (जेसी-664078के), 01 दिसम्बर 2009

नायब सूबेदार के वीरा राजु (जेसी-664079एम), 01 दिसम्बर 2009

नायब सूबेदार विजय कुमार उपाध्याय (जेसी-664067एक्स), 01 दिसम्बर 2009

नायब सूबेदार राज वीर सिंह (जेसी-664104ए), 01 दिसम्बर 2009

नायब सूबेदार अखिलेश कुमार सिंह (जेसी-664208एफ), 01 दिसम्बर 2009

नायब सूबेदार राकेश चंद (जेसी-664077एफ), 01 दिसम्बर 2009

नायब सूबेदार जय प्रकाश सिंह (जेसी-664080एफ), 01 दिसम्बर 2009

नायब सूबेदार जोगिन्दर सिंह रीन (जेसी-664068), 01 दिसम्बर 2009

नायब सूबेदार रमेश कुमार पाण्डे (जेसी-664644वाई), 01 दिसम्बर 2009

नायब सूबेदार अशोक कुमार गिरि (जेसी-664063एफ), 01 दिसम्बर 2009

नायब सूबेदार दुकन कुमार राउत (जेसी-664014वाई), 01 दिसम्बर 2009

नायब सूबेदार सुरजीत सिंह (जेसी-664066पी), 01 दिसम्बर 2009

नायब सूबेदार थंकाचन के वी (जेसी-664046एफ), 01 दिसम्बर 2009

नायब सूबेदार सतेन्द्र पाल सिंह (जेसी-664032एफ), 01 दिसम्बर 2009

नायब सूबेदार सूबे सिंह (जेसी-664495डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2009

नायब सूबेदार प्रेमन पी (जेसी-664047के), 14 दिसम्बर 2009\*

नायब सूबेदार जिले राम (जेसी-664040ए), 01 दिसम्बर 2009

नायब सूबेदार भ्रमरबर साहु (जेसी-664039एल), 01 दिसम्बर 2009

नायब सूबेदार प्रभजीत सिंह (जेसी-664036एक्स), 29 दिसम्बर 2009\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार श्रीधर राय (जेसी-664193के), 31 मार्च 2010\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 फरवरी 2010 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार ब्रिज नंदन सिंह (जेसी-664220एच), 31 मार्च 2010\*

नायब सूबेदार अशोक कुमार सिंह (जेसी-664316एल), 31 मार्च 2010\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 मार्च 2010 से दी जायेगी)

#### सूबेदार व्यक्तिगत सहायक

नायब सूबेदार रामबीर सिंह (जेसी-664042एच), 08 दिसम्बर 2009\*

नायब सूबेदार सुरेन्द्र कुमार शर्मा (जेसी-664044डब्ल्यू), 10 नवम्बर 2009\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 नवम्बर 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार रत्नाकर साहु (जेसी-664072एच), 01 दिसम्बर 2009

नायब सूबेदार शम शेर सिंह (जेसी-664070एक्स), 01 दिसम्बर 2009

नायब सूबेदार सत्यपाल सिंह (जेसी-664043एन), 01 दिसम्बर 2009

नायब सूबेदार महेन्द्र सिंह चौहान (जेसी-664071ए), 01 दिसम्बर 2009

नायब सूबेदार अरूण कुमार मिश्रा (जेसी-664074एन), 01 दिसम्बर 2009

नायब सूबेदार इन्द्र पाल कुशवाहा (जेसी-664075डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2009

नायब सूबेदार हरजीत सिंह (जेसी-664178पी), 01 जनवरी 2010

नायब सूबेदार सुरेश एम (जेसी-664155एन), 01 जनवरी 2010

नायब सूबेदार राज कुमार (जेसी-664133पी), 01 जनवरी 2010

नायब सूबेदार अमर नाथ (जेसी-664216ए), 01 फरवरी 2010

नायब सूबेदार रविन्द्र सिंह (जेसी-664182एक्स), 01 फरवरी 2010

नायब सूबेदार परम हंस यादव (जेसी-664181पी), 01 फरवरी 2010

नायब सूबेदार मोहन लाल भट्ट (जेसी-664217पी), 01 मार्च 2010

नायब सूबेदार वाघ संजय चंद्रभान (जेसी-664292एम), 01 मार्च 2010

#### सूबेदार (एसकेटी)

नायब सूबेदार कमलेश कुमार (जेसी-662857एन), 01 मार्च 2010

नायब सूबेदार जगदाले शिवाजी जगन्नाथ (जेसी-643285एच), 01 फरवरी 2010

नायब सूबेदार शशांक कुमार घोष (जेसी-663010डब्ल्यू), 01 फरवरी 2010

नायब सूबेदार कटारे साई बन्ना सरनप्पा (जेसी-643286एल), 01 फरवरी 2010

नायब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह (जेसी-663200एफ), 18 फरवरी 2010\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार देवनानी मनोहर प्रेम चंद (जेसी-663269एल), 02 मार्च 2010\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 नवम्बर 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार भुवाल सिंह (जेसी-662858एल), 01 मार्च 2010

नायब सूबेदार फते सिंह सुरा (जेसी-663046पी), 02 मार्च 2010\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 मार्च 2010 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार पंचु सिंह (जेसी-662913एफ), 01 मार्च 2010

नायब सूबेदार राज कुमार (जेसी-663287एन), 11 फरवरी 2010

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 फरवरी 2010 से दी जायेगी)

#### नायब सूबेदार (एमकेटी)

हवलदार धरमवीर सिंह (सं. 6388742के अब जेसी-667135एल), 01 फरवरी 2010\*

हवलदार मुरलीधरन के पी (सं. 6388739के अब जेसी 667136एन), 01 फरवरी 2010\*

हवलदार एस बिरेन सिंघा (सं. 6306623पी अब जेसी-667137डब्ल्यू), 25 फरवरी 2010\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2009 से दी जायेगी)

हवलदार विरेन्द्र पाल सिंह (सं. 6388780ए अब जेसी-667138डब्ल्यू), 02 फरवरी 2010\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 नवम्बर 2009 से दी जायेगी)

#### सूबेदार लिपिक जीडी/एसडी

नायब सूबेदार सुकदेव सिंह (जेसी-663671डब्ल्यू), 01 मार्च 2009\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 मार्च 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार जगदीश चन्द (जेसी-663753वाई), 01 जुलाई 2009\*

नायब सूबेदार जय कुमार सिंह (जेसी-663746एच), 07 जुलाई 2009\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों का प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 मार्च 2009 से दी जायेगी)

#### सूबेदार लिपिक : व्यक्तिगत सहायक

नायब सूबेदार हंस राज (जेसी-663757पी), 01 मई 2009\*

नायब सूबेदार अरूना कुमार जेना (जेसी-663756एम), 01 मई 2009\*

नायब सूबेदार शेर बहादुर (जेसी-663830एच), 01 मई 2009\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 मई 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार विश्नुदेव प्रसाद चौहान (जेसी-663831एल), 01 जुलाई 2009\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जायेगी)

#### तोपखाना अभिलेख

नायब सूबेदार (क्लर्क एसडी/एसकेटी) के पद में

रैंक, नाम, आर्मी नं. जेसी नं. तथा पदोन्नति की तिथि

हवलदार (क्लर्क) मृमय चक्रवर्ती (सं. 15105284ए अब जेसी-274411एक्स), 05 नवम्बर 2009/01 नवम्बर 2009\*

हवलदार (क्लर्क) अजीत सिंह (सं. 14393368एफ अब जेसी-274213एम), 18 दिसम्बर 2009/01 दिसम्बर 2009\*



हवलदार (एसकेटी) शम्भू सिंह (सं. 14395677एच अब जेसी-274268डब्ल्यू), 16 जनवरी 2010/01 दिसम्बर 2009\*

हवलदार (क्लर्क) एम मनी गुडन (सं. 14396602एक्स अब जेसी-274269वाई), 12 जनवरी 2010/01 जनवरी 2010\*

हवलदार (क्लर्क) सुकुमार प्रधान (सं. 15113834एम अब जेसी-274214पी), 13 जनवरी 2010/01 मार्च 2009\*

हवलदार (क्लर्क) जिआउल हक (सं. 14402504एफ अब जेसी-274212ए), 23 जनवरी 2010/01 जनवरी 2010\*

हवलदार (क्लर्क) नाथू राम (सं. 14401974पी अब जेसी-274270एन), 13 जनवरी 2010/01 अक्टूबर 2009\*

हवलदार (क्लर्क) विश्वजीत दत्ता (सं. 14402546एच अब जेसी-274215एक्स), 11 जनवरी 2010/01 अक्टूबर 2009\*

हवलदार (क्लर्क) देवेन्द्र सिंह मलिक (सं. 15105794एफ अब जेसी-274413एच), 18 जनवरी 2010/01 जनवरी 2010\*

हवलदार (क्लर्क) मिश्री लाल (सं. 15106972के अब जेसी-274216ए), 11 जनवरी 2010/01 नवम्बर 2009\*

हवलदार (क्लर्क) अशोक कुमार (सं. 14403006डब्ल्यू अब जेसी-274271डब्ल्यू), 15 जनवरी 2010/01 जनवरी 2010\*

हवलदार (क्लर्क) राजेन्द्र प्रसाद (सं. 14403012के अब जेसी-274272वाई), 11 जनवरी 2010/01 जनवरी 2010\*

हवलदार (क्लर्क) बी पान्डियन (सं. 15114533पी अब जेसी-274414एल), 15 जनवरी 2010/01 जनवरी 2010\*

हवलदार (क्लर्क) गोपाला कृष्णा सेठी एच (सं. 15114582एक्स अब जेसी-274217एच), 11 जनवरी 2010/01 जनवरी 2010\*

हवलदार (क्लर्क) गोपाला कृष्णा आरएस (सं. 14403033ए अब जेसी-274218एल), 12 जनवरी 2010/01 जनवरी 2010\*

हवलदार (क्लर्क) सदन कुमार विश्वास (सं. 14402537एफ अब जेसी-274273एफ), 11 जनवरी 2010/01 जनवरी 2010\*

हवलदार (क्लर्क) शिंदे दयानू ततोवा (सं. 15114714ए अब जेसी-274219एन), 11 जनवरी 2010/01 जनवरी 2010\*

हवलदार (एसकेटी) हरि नारायण सिंह यादव (सं. 15102746डब्ल्यू अब जेसी-274415एन), 18 जनवरी 2010/01 जनवरी 2010\*

हवलदार (एसकेटी) सजन के एस (सं. 14401758एफ अब जेसी-274274के), 12 जनवरी 2010/01 जनवरी 2010\*

हवलदार (एसकेटी) मोतेराम चंद्र सम्बाप्पा (सं. 14400846एल अब जेसी-274275एम), 13 जनवरी 2010/01 जनवरी 2010\*

हवलदार (एसकेटी) वीरेन्द्र सिंह (सं. 15113649वाई अब जेसी-274416डब्ल्यू), 12 जनवरी 2010/01 जनवरी 2010\*

हवलदार (एसकेटी) मनोज बनर्जी (सं. 15114021एच अब जेसी-274417वाई), 13 जनवरी 2010/01 जनवरी 2010\*

हवलदार (क्लर्क) सेलर नामदेव दयानू (सं. 15114715एच अब जेसी-274418एफ), 1 फरवरी 2010

हवलदार (क्लर्क) चवन प्रमोद बालचंद्रा (सं. 14403108एम अब जेसी-274419के), 1 फरवरी 2010

हवलदार (एसकेटी) मोलय दरी (सं. 15114015पी अब जेसी-274420वाई), 1 फरवरी 2010

हवलदार (एसकेटी) हनुमान सिंह (सं. 15114460एन अब जेसी-274421एफ), 1 फरवरी 2010

हवलदार (एसकेटी) रुचेन्द्र कुमार द्विवेदी (सं. 15114406ए अब जेसी-274505पी), 1 फरवरी 2010

हवलदार (एसकेटी) हरमेल सिंह (सं. 15114465एम अब जेसी-274422के), 02 फरवरी 2010/01 फरवरी 2010\*

हवलदार (एसकेटी) बलदेव राज (सं. 14400758पी अब जेसी-274423एम), 07 फरवरी 2010/01 फरवरी 2010\*

हवलदार (क्लर्क) पवार सतीश हनमंत (सं. 14403114ए अब जेसी-274506एक्स), 01 मार्च 2010

हवलदार (क्लर्क) वेदाज समभाजी मारुति (सं. 15114728ए अब जेसी-274507ए), 01 मार्च 2010

हवलदार (क्लर्क) दलबीर सिंह (सं. 15114805के अब जेसी-274508एच), 01 मार्च 2010

हवलदार (क्लर्क) विजय शर्मा (सं. 14403234वाई अब जेसी-274509एल), 01 मार्च 2010

हवलदार (क्लर्क) नारेन्द्र कुमार (सं. 14403243ए अब जेसी-274510ए), 01 मार्च 2010

हवलदार (क्लर्क) मधु आर (सं. 14403244एच अब जेसी-274511एच), 01 मार्च 2010

हवलदार (क्लर्क) धर्मेन्द्र सिंह (सं. 15114855पी अब जेसी-274512एल), 01 मार्च 2010

हवलदार (क्लर्क) मोहिन्द्र सिंह (सं. 15114871एम अब जेसी-274513एन), 01 मार्च 2010

हवलदार (क्लर्क) प्रीतम सिंह (सं. 15114891ए अब जेसी-274514डब्ल्यू), 01 मार्च 2010

हवलदार (क्लर्क) दया चंद यादव (सं. 15114981एफ अब जेसी-274515वाई), 04 मार्च 2010/01 मार्च 2010\*

हवलदार (क्लर्क) विनोद कुमार (सं. 15114982के अब जेसी-274516एफ), 01 मार्च 2010

हवलदार (एसकेटी) वासुदेव डीई (सं. 15113024के अब जेसी-274517के), 01 मार्च 2010

हवलदार (एसकेटी) गोपाला कृष्णन टी (सं. 14403026के अब जेसी-274518एम), 04 मार्च 2010/01 मार्च 2010 \*

हवलदार (एसकेटी) श्याम प्रसाद बचार (सं. 14401029वाई अब जेसी-274424पी), 02 मार्च 2010/01 मार्च 2010 \*

हवलदार (एसकेटी) अशोक कुमार मोहंती (सं. 15113569एफ अब जेसी-274519पी), 01 मार्च 2010

हवलदार (क्लर्क) कुम्बर लाल चंद गंगाराम (सं. 15114718डब्ल्यू अब जेसी-274276पी), 01 फरवरी 2010

हवलदार (क्लर्क) नंद कुमार मंडल (सं. 14402800एफ अब जेसी-274277एक्स), 21 जनवरी 2010/01 जनवरी 2010 \*

हवलदार (क्लर्क) मजबूल हसन (सं. 14403447एम अब जेसी-274520के), 01 मार्च 2010

हवलदार (क्लर्क) सुकुमार एस (सं. 15104553पी अब जेसी-274521एम), 23 फरवरी 2010/01 जनवरी 2010 \*

हवलदार (क्लर्क) बीआरबी चक्रवर्ती (सं. 15109015एल अब जेसी-274522पी), 10 फरवरी 2010/01 जनवरी 2010 \*

हवलदार (क्लर्क) राम नाथ (सं. 14403009के अब जेसी-274523एक्स), 14 फरवरी 2010/01 जनवरी 2010 \*

\*(ज्येष्ठता वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दी जायेगी)

नाथब सूबेदार के रैंक में

हवलदार मनोज कुमार (सं. 15151659एम अब जेसी-274185एल), 13 मई 2009/17 जून 2007 \*

हवलदार मुकेश सी (सं. 15133834एन अब जेसी-274186एन), 08 जुलाई 2009/22 जून 2009 \*

हवलदार बलवान सिंह (सं. 14418221वाई अब जेसी-274187डब्ल्यू), 09 जुलाई 2009/22 जून 2009 \*

हवलदार जोगिंदर पाउल (सं. 15111146पी अब जेसी-274188वाई), 12 अगस्त 2009/20 जुलाई 2009 \*

हवलदार पी सुब्बू राम (सं. 15118392एच अब जेसी-274189एफ), 13 अगस्त 2009/20 जुलाई 2009 \*

हवलदार शकील अहमद (सं. 15116591एक्स अब जेसी-274190डब्ल्यू), 10 अक्टूबर 2009/20 जुलाई 2009 \*

हवलदार जितेंद्र कुमार (सं. 15121120एम अब जेसी-274191वाई), 26 अक्टूबर 2009/20 जुलाई 2009 \*

हवलदार प्रकाश नाथ (सं. 15116430पी अब जेसी-274192एफ), 21 अक्टूबर 2009/20 जुलाई 2009 \*

हवलदार अरुण कुमार सिंह (सं. 15117676ए अब जेसी-274193के), 12 नवम्बर 2009/27 जुलाई 2009 \*

हवलदार मंडालपू गोपाला (सं. 15118252डब्ल्यू अब जेसी-274194एम), 05 अक्टूबर 2009/21 अगस्त 2009 \*

हवलदार नारायण चंद्र जाना (सं. 15125112एम अब जेसी-274195पी), 17 अक्टूबर 2009/21 अगस्त 2009 \*

हवलदार रमेश सिंह (सं. 15118990ए अब जेसी-274196एक्स), 18 नवम्बर 2009/01 अक्टूबर 2009 \*

हवलदार इंद्रजीत सिंह (सं. 15112785एच अब जेसी-274197ए), 07 दिसम्बर 2009/01 जून 2009 \*

हवलदार भीम सिंह (सं. 15110120एन अब जेसी-274198एच), 27 नवम्बर 2009/01 जून 2009 \*

हवलदार कप्तान सिंह (सं. 15108433एम अब जेसी-274199एल), 27 नवम्बर 2009/07 जून 2009 \*

हवलदार राजन वटक्केकरा (सं. 14391959के अब जेसी-274200पी), 18 जुलाई 2009/01 जुलाई 2009 \*

हवलदार बलवीर सिंह (सं. 15111840एफ अब जेसी-274201एक्स), 04 सितम्बर 2009/01 अगस्त 2009 \*

हवलदार राजेश पाल सिंह (सं. 15104119एच अब जेसी-274202ए), 02 अगस्त 2009/01 अगस्त 2009 \*

हवलदार प्रसथन वराप्रथ (सं. 14404833एल अब जेसी-274203एच), 01 अगस्त 2009

हवलदार बीरेंद्र बहादुर सिंह (सं. 14402179एफ अब जेसी-274204एल), 16 अक्टूबर 2009/01 सितम्बर 2009 \*

हवलदार संजय कुमार (सं. 15107978वाई अब जेसी-274205एन), 14 दिसम्बर 2009/01 सितम्बर 2009 \*

हवलदार पवित्रा कुमार पात्र (सं. 14414019एन अब जेसी-274206डब्ल्यू), 13 नवम्बर 2009/01 सितम्बर 2009 \*

हवलदार उमेश सिंह (सं. 15115689वाई अब जेसी-274207वाई), 03 नवम्बर 2009/05 सितम्बर 2009 \*

हवलदार नारायण राव यलगिद्दा (सं. 15124384ए अब जेसी-274208एफ), 16 नवम्बर 2009/01 अक्टूबर 2009 \*

हवलदार लखविंदर सिंह (सं. 15108883एल अब जेसी-274209के), 12 नवम्बर 2009/11 अक्टूबर 2009 \*

हवलदार पुरन सिंह (सं. 15106138एम अब जेसी-274210वाई), 04 नवम्बर 2009/21 अक्टूबर 2009 \*

हवलदार बोलिन गोर्गाई (सं. 15120047एम अब जेसी-274211एफ), 09 नवम्बर 2009/01 नवम्बर 2009 \*

हवलदार गेलिमी रेड्डी बी रेड्डी (सं. 15113891एन अब जेसी-274212के), 07 नवम्बर 2009/01 नवम्बर 2009 \*

हवलदार देवानंदन पी आर (सं. 15119739डब्ल्यू अब जेसी-274220एच), 02 दिसम्बर 2009/30 नवम्बर 2008 \*

हवलदार प्रेम सिंह (सं. 15105581एम अब जेसी-274221एल), 27 नवम्बर 2009/05 मार्च 2009 \*

हवलदार परगत सिंह (सं. 14390198एक्स अब जेसी-274222एन), 23 जून 2009/01 मई 2009 \*

हवलदार वुरिती सुरेश बाबू (सं. 14394024पी अब जेसी-274223डब्ल्यू), 03 दिसम्बर 2009/01 मई 2009 \*

हवलदार विजय शंकर राय (सं. 14388518एच अब जेसी-274111डब्ल्यू), 11 अप्रैल 2009/22 नवम्बर 2008 \*

हवलदार जोगिंदर सिंह (सं. 14409265पी अब जेसी-274112वाई), 13 अगस्त 2009/01 मई 2009 \*

हवलदार सुरेंद्र वीर सिंह (सं. 14398990वाई अब जेसी-274113एफ), 24 अक्टूबर 2009/18 मई 2009 \*

हवलदार रावींद्र नाथन के (सं. 15111007एल अब जेसी-274114के), 28 सितम्बर 2009/01 जुलाई 2009 \*

हवलदार खुर्शीद आलम (सं. 4265924के अब जेसी-274115एम), 21 अक्टूबर 2009/09 अगस्त 2009 \*

हवलदार करन सिंह (सं. 14399311एच अब जेसी-274116पी), 01 सितम्बर 2009

हवलदार समीर बिस्वास (सं. 15121629ए अब जेसी-274117एक्स), 26 अक्टूबर 2009/01 सितम्बर 2009 \*

हवलदार राम किसुन (सं. 15107034एक्स अब जेसी-274118ए), 20 अक्टूबर 2009/01 सितम्बर 2009 \*

हवलदार राम बक्स (सं. 13979107के अब जेसी-274119एच), 31 अक्टूबर 2009/01 सितम्बर 2009 \*

हवलदार सिबारामा महाखुद (सं. 14396044एफ अब जेसी-274120एक्स), 04 नवम्बर 2009/25 सितम्बर 2009 \*

हवलदार राज कुमार (सं. 15113766के अब जेसी-274121ए), 11 अक्टूबर 2009/01 अक्टूबर 2009 \*

हवलदार शिव राम (सं. 14492669एन अब जेसी-274122एच), 05 अक्टूबर 2009/01 अक्टूबर 2009 \*

हवलदार मुरलीधरन ए वी (सं. 14401985एफ अब जेसी-274123एल), 06 अक्टूबर 2009/01 अक्टूबर 2009 \*

हवलदार राम बाबू सिंह (सं. 15104657डब्ल्यू अब जेसी-274124एन), 08 अक्टूबर 2009/01 अक्टूबर 2009 \*

हवलदार प्रदीपन पी के (सं. 14409812वाई अब जेसी-274125डब्ल्यू), 11 नवम्बर 2009/01 अक्टूबर 2009 \*

हवलदार शेर सिंह कुल्हन (सं. 15110805एम अब जेसी-274126वाई), 01 नवम्बर 2009

हवलदार साहूकारी सत्यावेंकट श्री (सं. 14389548एम अब जेसी-274127एफ), 21 मार्च 2009/11 अक्टूबर 2008 \*

हवलदार मोहनन पिल्लई (सं. 14398469वाई अब जेसी-274128के), 05 मई 2009/01 फरवरी 2009 \*

हवलदार पाटील आनंदाराव ध्यानादेव (सं. 15122211के अब जेसी-274129एम), 28 अगस्त 2009/26 मई 2009 \*

हवलदार सतीश कुमार (सं. 14389724वाई अब जेसी-274130एफ), 03 सितम्बर 2009/05 जून 2009 \*

हवलदार बाबू राम (सं. 15103318के अब जेसी-274131के), 06 अक्टूबर 2009/07 अगस्त 2009 \*

हवलदार सुरेंद्र नाथ यादव (सं. 14410260एच अब जेसी-274132एम), 27 सितम्बर 2009/11 अगस्त 2009 \*

हवलदार जगतार सिंह (सं. 14391394के अब जेसी-274133पी), 18 सितम्बर 2009/01 सितम्बर 2009 \*

हवलदार दम्पिलीकासी रेड्डी (सं. 15119928ए अब जेसी-274134एक्स), 10 नवम्बर 2009/23 सितम्बर 2009 \*

हवलदार सुरिंदर कुमार (सं. 14388462एफ अब जेसी-274135ए), 11 नवम्बर 2009/01 अक्टूबर 2009 \*

हवलदार जी गनानाथिकम (सं. 15109927के अब जेसी-274136एच), 01 अक्टूबर 2009

हवलदार पवार गजेंद्र विलास (सं. 14403414एफ अब जेसी-274137एल), 06 अक्टूबर 2009/01 अक्टूबर 2009 \*

हवलदार अवनीश कुमार (सं. 15125149एन अब जेसी-274138एन), 01 अक्टूबर 2009

हवलदार सतेंद्र सिंह (सं. 15103330एल अब जेसी-274139डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2009

हवलदार गजेंद्र कुमार रावल (सं. 14389560एन अब जेसी-274140एल), 02 अक्टूबर 2009

हवलदार अशोक कुमार (सं. 15128152वाई अब जेसी-274141एम), 01 नवम्बर 2009

हवलदार सुतार एकानाथ सखाराम (सं. 14411580के अब जेसी-274142डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2009

हवलदार पाटिल विलास रघुनाथ (सं. 14395885एक्स अब जेसी-274071ए), 06 नवम्बर 2009/29 अप्रैल 2009 \*

हवलदार हरकमाल सिंह (सं. 14498814डब्ल्यू अब जेसी-274072एच), 05 अक्टूबर 2009/18 मई 2009 \*

हवलदार गनी रेड्डी आदि बाबू (सं. 15109640एम अब जेसी-274073एल), 08 सितम्बर 2009/15 जून 2009 \*

हवलदार विनोद कुमार (सं. 14399745एच अब जेसी-274074एन),  
01 सितम्बर 2009/01 अगस्त 2009\*

हवलदार उमा शंकर तिवारी (सं. 15116884एच अब जेसी-274075डब्ल्यू), 08 अक्टूबर 2009/24 अगस्त 2009\*

हवलदार राजेन्द्रन यादव (सं. 14390096एफ अब जेसी-274076वाई),  
17 सितम्बर 2009/25 अगस्त 2009\*

हवलदार के वेंकटेश्वरलू (सं. 15125509वाई अब जेसी-274077एफ),  
23 अक्टूबर 2009/01 सितम्बर 2009\*

हवलदार बलबीर सिंह (सं. 15104701पी अब जेसी-274078के),  
01 अक्टूबर 2009/01 सितम्बर 2009\*

हवलदार राजेंद्र प्रसाद मिश्रा (सं. 14388527के अब जेसी-274079एम),  
01 सितम्बर 2009

हवलदार कोराकंची शंकराय्या (सं. 15113888एन अब जेसी-274080एफ),  
10 अक्टूबर 2009/01 अक्टूबर 2009\*

हवलदार अमरजीत (सं. 14496567पी अब जेसी-274081के), 10 अक्टूबर  
2009/01 अक्टूबर 2009\*

हवलदार अनिरुध्द सिंह सिसोदिया (सं. 15116606पी अब जेसी-274082एम), 01 अक्टूबर 2009

हवलदार रामजी सिंह यादवा (सं. 14407926एल अब जेसी-274083पी), 05 अक्टूबर 2009/01 अक्टूबर 2009\*

हवलदार मुकेश (सं. 15112492एक्स अब जेसी-274084एक्स),  
02 नवम्बर 2009/12 अक्टूबर 2009\*

हवलदार कुलदीप सिंह (सं. 15107203एन अब जेसी-274085ए),  
05 नवम्बर 2009/20 अक्टूबर 2009\*

हवलदार विजयन एम पी (सं. 15114907ए अब जेसी-274086एच),  
01 नवम्बर 2009

हवलदार बलकार सिंह (सं. 15103121एन अब जेसी-274087एल),  
22 अप्रैल 2009/01 फरवरी 2009\*

हवलदार अशोक कुमार (सं. 14388704वाई अब जेसी-274088एन),  
20 अप्रैल 2009/01 अप्रैल 2009\*

हवलदार सुरेंद्र राय (सं. 15109139ए अब जेसी-274089डब्ल्यू),  
11 मई 2009/07 मई 2009\*

हवलदार हरी राम (सं. 15118565पी अब जेसी-274090एल), 07 नवम्बर  
2009/18 मई 2009\*

हवलदार गंगा शरन (सं. 15103664ए अब जेसी-274091एन),  
25 अगस्त 2009/01 जून 2009\*

हवलदार हरपाल सिंह (सं. 15112635एम अब जेसी-274092डब्ल्यू),  
16 अक्टूबर 2009/01 जून 2009\*

हवलदार धरम पाडल (सं. 15102548एल अब जेसी-274093वाई),  
29 अक्टूबर 2009/01 अगस्त 2009\*

हवलदार रोहितास सिंह (सं. 15108028डब्ल्यू अब जेसी-274094एफ),  
29 अक्टूबर 2009/18 सितम्बर 2009\*

हवलदार अमरजीत सिंह (सं. 14397359एक्स अब जेसी-274095के),  
27 अक्टूबर 2009/04 सितम्बर 2009\*

हवलदार देवराजन के के (सं. 14389857पी अब जेसी-274096एम),  
01 नवम्बर 2009/01 अक्टूबर 2009\*

हवलदार उदय सिंह चौहान (सं. 15117517एच अब जेसी-274097पी),  
05 नवम्बर 2009/01 अक्टूबर 2009\*

हवलदार राजेंद्र सिंह (सं. 15110876एन अब जेसी-274098एक्स),  
08 अक्टूबर 2009/01 अक्टूबर 2009\*

हवलदार जी जेराल्ड अरोकिया विलियम (सं. 15119643एन अब जेसी-274099ए), 05 नवम्बर 2009/05 अक्टूबर 2009\*

हवलदार जय प्रकाश (सं. 8033766एफ अब जेसी-274100के),  
06 नवम्बर 2009/01 नवम्बर 2009\*

हवलदार फाल सिंह (सं. 14392282डब्ल्यू अब जेसी-274101एम),  
01 नवम्बर 2009

हवलदार नरेश कुमार (सं. 14405427एक्स अब जेसी-274102पी),  
02 नवम्बर 2009/01 नवम्बर 2009\*

\*(ज्येष्ठता प्राप्त)

पायनियर कोर

नायब सूबेदार (जीडी)/क्लर्क (एसडी)

रैंक, नाम, आर्मी नम्बर अब जेसी नम्बर व पदोन्नति दिनांक

हवलदार (जीडी) दौलत राम (सं. 8032507एम अब जेसी-829473एच), 01 जुलाई 2009

हवलदार (जीडी) महेन्द्र प्रधान (सं. 8032526एक्स अब जेसी-829475एन), 01 अगस्त 2009

हवलदार (जीडी) भरत सिंह (सं. 8032129वाई अब जेसी-829476डब्ल्यू), 01 अगस्त 2009

हवलदार (जीडी) महावीर सिंह (सं. 8032527ए अब जेसी-829477वाई), 01 अगस्त 2009

हवलदार (जीडी) राम कुमार विश्वकर्मा (सं. 8032534डब्ल्यू अब जेसी-829478एफ), 14 सितम्बर 2009

हवलदार (जीडी) भगवान सिंह (सं. 8032559एच अब जेसी-829479के),  
16 सितम्बर 2009\*

हवलदार (जीडी) प्रेम चन्द (सं. 8031810एफ अब जेसी-829480वाई),  
14 सितम्बर 2009

हवलदार (जीडी) महेन्द्र सिंह (सं. 8032613एल अब जेसी-829481एफ),  
14 सितम्बर 2009

हवलदार (जीडी) भैरा राम (सं. 8030723एफ अब जेसी-829482के),  
14 सितम्बर 2009

हवलदार (जीडी) राधाकृष्णा पिल्लै एस (सं. 8030988एल अब जेसी-829483एम), 14 सितम्बर 2009

हवलदार (जीडी) सुरेन्द्र एन एम (सं. 8032619एम अब जेसी-829484पी), 14 सितम्बर 2009

हवलदार (जीडी) गोविन्द सिंह बिष्ट (सं. 8032630एल अब जेसी-829485एक्स), 14 सितम्बर 2009

हवलदार (जीडी) अलोइस ठेप्पो (सं. 8032318एच अब जेसी-829486ए),  
14 सितम्बर 2009

हवलदार (जीडी) बिजय कुमार जैसवाल (सं. 8032634एफ अब जेसी-829487एच), 15 सितम्बर 2009\*

हवलदार (जीडी) श्यामल कान्तीधर (सं. 8032109एल अब जेसी-829490एच), 01 नवम्बर 2009

हवलदार (जीडी) बहादुर राम (सं. 8032639ए अब जेसी-829491एल),  
05 नवम्बर 2009#

हवलदार (जीडी) संजय कुमार राय (सं. 8032646डब्ल्यू अब जेसी-829492एन), 02 नवम्बर 2009#

हवलदार (जीडी) विरेन्द्र सिंह (सं. 8032658एल अब जेसी-829494वाई),  
01 दिसम्बर 2009

हवलदार (जीडी) नगेन्द्र शर्मा (सं. 8032705एक्स अब जेसी-829495एफ), 01 जनवरी 2010

हवलदार (जीडी) भोला प्रसाद मंडल (सं. 8032261वाई अब जेसी-829496के), 03 जनवरी 2010%

हवलदार (जीडी) स्वामी अप्पू सतलिंगाया (सं. 8032732एफ अब जेसी-829498पी), 01 फरवरी 2010

हवलदार (क्लर्क) एसडी गौतमा तिवारी (सं. 8030868एम अब जेसी-829472ए), 01 जुलाई 2009

हवलदार (क्लर्क) एसडी हरीश चन्द्रा जोशी (सं. 8031109वाई अब जेसी-829474एल), 01 अगस्त 2009

हवलदार (क्लर्क) एसडी कृष्णपाल सिंह (सं. 8031139डब्ल्यू अब जेसी-829488एल), 01 नवम्बर 2009

हवलदार (क्लर्क) एसडी रवीन्द्रन नायर आर (सं. 8031183ए अब जेसी-829489एन), 01 नवम्बर 2009

हवलदार (क्लर्क) एसडी सुरेश कुमार (सं. 8031202ए अब जेसी-829493डब्ल्यू), 07 दिसम्बर 2009\$

हवलदार (क्लर्क) एसडी अस्ति कुमार दास (सं. 8033218के अब जेसी-829497एम), 01 फरवरी 2010

\*(वरिष्ठता 14 सितम्बर 2009 से वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना)

#(वरिष्ठता 01 नवम्बर 2009 से वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना)

%(वरिष्ठता 01 जनवरी 2010 से वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना)

\$(वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2009 से वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना)

कोर ऑफ सिग्नल्स

नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में

हवलदार उपेन्द्र कुमार सिंह (सं. 14249897वाई अब जेसी-376798वाई),  
11 सितम्बर 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2006 से दी जायेगी)

हवलदार राम निवास थकन (सं. 14263843एच अब जेसी-377835एन),  
01 जनवरी 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2006 से दी जायेगी)

हवलदार दीपक चन्द्र (सं. 14248014एक्स अब जेसी-378727डब्ल्यू),  
02 जनवरी 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2007 से दी जायेगी)

हवलदार ज्ञान सिंह (सं. 14248986एल अब जेसी-378369डब्ल्यू),  
01 जुलाई 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2007 से दी जायेगी)

हवलदार शिव शंकर सिंह (सं. 14243486के अब जेसी-377496वाई),  
01 अगस्त 2007

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 जुलाई 2007 से दी जायेगी)

हवलदार पूरन चन्द (सं. 14261396एल अब जेसी-377539एच),  
01 सितम्बर 2007

हवलदार राजपाल सिंह (सं. 14246680के अब जेसी-377607एल),  
24 मार्च 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2007 से दी जायेगी)

हवलदार जितेन्द्र बहादुर सिंह (सं. 15689729एम अब जेसी-378031एल), 01 अप्रैल 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 अक्टूबर 2007 से दी जायेगी)

हवलदार जी सत्या राजू (सं. 15671537एम अब जेसी-378314एम),  
01 जून 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 21 अक्तूबर 2007 से दी जायेगी)

हवलदार विजय बहादुर यादव (सं. 14262453एन अब जेसी-  
378370एल), 01 जुलाई 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी)

हवलदार राम नरेश (सं. 14255969एन अब जेसी-379194एल),  
01 सितम्बर 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 मई 2008 से दी जायेगी)

हवलदार प्रदीप कुमार यादव (सं. 14266211एच अब जेसी-  
379274एच), 01 नवम्बर 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जून 2008 से दी जायेगी)

हवलदार रमेश चन्द्र (सं. 14262992के अब जेसी-378814के),  
01 मार्च 2009

हवलदार रंजीत सिंह चंदेल (सं. 14268275एम अब जेसी-  
379009एम), 04 मई 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2009 से दी जायेगी)

हवलदार दिनेश कुमार चौबे (सं. 15350101पी अब जेसी-  
378934एच), 01 अप्रैल 2009

हवलदार हरि लाल यादव (सं. 14261241डब्ल्यू अब जेसी-  
378953एन), 01 जून 2009

हवलदार बाला सुब्रमण्यम जी (सं. 14261516वाई अब जेसी-  
379195एन), 01 सितम्बर 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जून 2009 से दी जायेगी)

हवलदार शिव शंकर सिंह (सं. 15352671के अब जेसी-378976पी),  
26 जुलाई 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जायेगी)

हवलदार अशोक कुमार (सं. 15352868ए अब जेसी-378977एक्स),  
01 जुलाई 2009

हवलदार प्रमोद कुमार यादव (सं. 15353258ए अब जेसी-378978ए),  
01 जुलाई 2009

हवलदार लिलु राम (सं. 15353327एल अब जेसी-378979एच),  
01 जुलाई 2009

हवलदार जगदीश गिरी गोस्वामी (सं. 15353428वाई अब जेसी-  
378980एक्स), 01 जुलाई 2009

हवलदार मौलानी मौला ए बी (सं. 15353419एक्स अब जेसी-  
378981ए), 01 जुलाई 2009

हवलदार पी जॉन केनेडी (सं. 15353938ए अब जेसी-378982एच),  
01 जुलाई 2009

हवलदार जोश के के (सं. 15353998पी अब जेसी-378983एल),  
01 जुलाई 2009

हवलदार शिव पूजन मिश्रा (सं. 15351516डब्ल्यू अब जेसी-  
378984एन), 01 जुलाई 2009

हवलदार रिसल सिंह (सं. 15352415पी अब जेसी-378985डब्ल्यू),  
01 जुलाई 2009

हवलदार जुगेन्द्र सिंह (सं. 15354022एक्स अब जेसी-378986वाई),  
01 जुलाई 2009

हवलदार राधे श्याम ठाकुर (सं. 15354141एन अब जेसी-  
378987एफ), 05 जुलाई 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जायेगी)

हवलदार अशिष्ट कांती दास (सं. 15354138एन अब जेसी-  
378988के), 01 जुलाई 2009

हवलदार राजेश कुमार पी वी (सं. 15353822के अब जेसी-  
379136एफ), 02 सितम्बर 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जायेगी)

हवलदार उत्तम कुमार गैर (सं. 15353955ए अब जेसी-379137के),  
02 सितम्बर 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जायेगी)

हवलदार जी राजेन्द्र लक्ष्मण (सं. 15354313एक्स अब जेसी-  
379063ए), 01 अगस्त 2009

हवलदार जगदीश सिंह (सं. 15354689वाई अब जेसी-379064एच),  
01 अगस्त 2009

हवलदार बाबू टी (सं. 15354800एक्स अब जेसी-379065एल),  
01 अगस्त 2009

हवलदार प्रमोद कुमार सिंह (सं. 15353779एन अब जेसी-  
379066एन), 01 अगस्त 2009

हवलदार शेर मोहम्मद (सं. 15354761के अब जेसी-379067डब्ल्यू),  
01 अगस्त 2009

हवलदार सजल कुमार देब (सं. 15355014एल अब जेसी-  
379068वाई), 01 अगस्त 2009

- हवलदार बाबू लाल यादव (सं. 15350393एच अब जेसी-379069एफ), 01 अगस्त 2009
- हवलदार कुंहुनि एम (सं. 15355539पी अब जेसी-379070डब्ल्यू), 01 अगस्त 2009
- हवलदार जी हरि चन्द्र बी (सं. 15354253एन अब जेसी-379071वाई), 01 अगस्त 2009
- हवलदार थिम्मप्पा नायक एम (सं. 15352685के अब जेसी-379073के), 01 अगस्त 2009
- हवलदार निर्भय सिंह संघ (सं. 15355207एल अब जेसी-379074एम), 01 अगस्त 2009
- हवलदार एस एस चौहान (सं. 15355217पी अब जेसी-379075पी), 01 अगस्त 2009
- हवलदार राजेन्द्र सिंह सजवान (सं. 15355586एम अब जेसी-379076एक्स), 01 अगस्त 2009
- हवलदार जतिन्द्र सिंह (सं. 15355596डब्ल्यू अब जेसी-379077ए), 01 अगस्त 2009
- हवलदार कराले रमेश आर (सं. 15355745वाई अब जेसी-379078एच), 01 अगस्त 2009
- हवलदार जितेन्द्र सिंघा (सं. 15355952एल अब जेसी-379125पी), 01 अगस्त 2009
- हवलदार कृष्णन जी (सं. 15350461एल अब जेसी-379331वाई), 01 दिसम्बर 2009
- (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 29 अगस्त 2009 से दी जायेगी)
- हवलदार मेहर सिंह चंदेल (सं. 15356104वाई अब जेसी-379126एक्स), 01 सितम्बर 2009
- हवलदार राया गौडा पाटिल (सं. 15356089पी अब जेसी-379127ए), 01 सितम्बर 2009
- हवलदार सोमनाथ बेहरा (सं. 15356094ए अब जेसी-379128एच), 01 सितम्बर 2009
- हवलदार बी रविन्द्रन (सं. 15356232डब्ल्यू अब जेसी-379129एल), 01 सितम्बर 2009
- हवलदार रोशन लाल (सं. 15356154के अब जेसी-379130ए), 01 सितम्बर 2009
- हवलदार यूनुस खान (सं. 15386742एम अब जेसी-379131एच), 02 सितम्बर 2009
- हवलदार शेखर एम (सं. 14253806एफ अब जेसी-379132एल), 02 सितम्बर 2009
- हवलदार श्याम सुन्दर (सं. 14253724वाई अब जेसी-379133एन), 02 सितम्बर 2009
- हवलदार वहतुले विलास डब्ल्यू (सं. 14269889एफ अब जेसी-379134डब्ल्यू), 02 सितम्बर 2009
- हवलदार एस चन्द्रा राजपूत (सं. 15351576एल अब जेसी-379135वाई), 02 सितम्बर 2009
- हवलदार राजेश्वर (सं. 15356156पी अब जेसी-379138एम), 02 सितम्बर 2009
- हवलदार डोला मनमध राव (सं. 15356171के अब जेसी-379139पी), 02 सितम्बर 2009
- हवलदार वेकटा राव ईसाई (सं. 15356170एफ अब जेसी-379140के), 02 सितम्बर 2009
- हवलदार रमोश चंद (सं. 15356395के अब जेसी-379141एम), 02 सितम्बर 2009
- हवलदार जोशी चन्द्रा शेखर (सं. 15356518एल अब जेसी-379142पी), 02 सितम्बर 2009
- हवलदार दिनेश कुमार सिंह (सं. 15356512के अब जेसी-379143एक्स), 02 सितम्बर 2009
- हवलदार अनिल कुमार उपाध्याय (सं. 15351416एल अब जेसी-379196डब्ल्यू), 02 सितम्बर 2009
- हवलदार नेरन्द्र कुमार (सं. 15356487डब्ल्यू अब जेसी-379215डब्ल्यू), 02 सितम्बर 2009
- हवलदार बी राजेन्द्र गनपत (सं. 15355080एन अब जेसी-379197वाई), 15 सितम्बर 2009
- हवलदार सुरेश प्रसाद (सं. 14259205एम अब जेसी-379198एफ), 15 सितम्बर 2009
- हवलदार अनिल कुमार (सं. 15353222एफ अब जेसी-379349पी), 02 दिसम्बर 2009
- (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 सितम्बर 2009 से दी जायेगी)
- हवलदार राजू जगन नाथ (सं. 14252327एन अब जेसी-379199के), 15 सितम्बर 2009
- हवलदार डी जयासीलन (सं. 15351160एन अब जेसी-379200एन), 15 सितम्बर 2009
- हवलदार बैजनाथ कुमार (सं. 15350340के अब जेसी-379201डब्ल्यू), 15 सितम्बर 2009
- हवलदार अशाक बरूआ (सं. 15356313डब्ल्यू अब जेसी-379202वाई), 15 सितम्बर 2009
- हवलदार एन धनकोटि (सं. 15351897एच अब जेसी-379203एफ), 22 सितम्बर 2009
- (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 सितम्बर 2009 से दी जायेगी)

- हवलदार छोटे लाल (सं. 15352452एच अब जेसी-379204के),  
15 सितम्बर 2009
- हवलदार डी सधन (सं. 15351736ए अब जेसी-379205एम),  
15 सितम्बर 2009
- हवलदार रघुनाथन बी (सं. 15352766के अब जेसी-379206पी),  
15 सितम्बर 2009
- हवलदार विजय सिंह (सं. 15353151एल अब जेसी-379207एक्स),  
05 अक्टूबर 2009
- (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 15 सितम्बर 2009 से दी जायेगी)
- हवलदार राम कुमार गुप्ता (सं. 15353103एल अब जेसी-379208ए),  
15 सितम्बर 2009
- हवलदार हरि कृष्णा गौडा (सं. 15353306पी अब जेसी-379209एच),  
15 सितम्बर 2009
- हवलदार नरसिंहा साहु (सं. 15353352के अब जेसी-379210एक्स),  
15 सितम्बर 2009
- हवलदार राजेन्द्र कुमार एस (सं. 15353355एक्स अब जेसी-  
379211ए), 09 अक्टूबर 2009
- (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 15 सितम्बर 2009 से दी जायेगी)
- हवलदार पाटिल मारुति डी (सं. 15355180वाई अब जेसी-  
379216वाई), 15 सितम्बर 2009
- हवलदार दीवान सिंह (सं. 15353835एफ अब जेसी-379227एल),  
01 अक्टूबर 2009
- हवलदार शिव कुमार पाल (सं. 15353903के अब जेसी-  
379228एन), 01 अक्टूबर 2009
- हवलदार अहसान अहमद (सं. 15354127एफ अब जेसी-  
379229डब्ल्यू), 05 अक्टूबर 2009
- (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जायेगी)
- हवलदार शंकर लाल मीणा (सं. 15354062वाई अब जेसी-  
379230एल), 01 अक्टूबर 2009
- हवलदार राजेन्द्र कुमार (सं. 14269350एक्स अब जेसी-379231एन),  
01 अक्टूबर 2009
- हवलदार एम चौहान (सं. 15351644एन अब जेसी-379232डब्ल्यू),  
01 अक्टूबर 2009
- हवलदार सुरेश कुमार चंदेल (सं. 15353836के अब जेसी-  
379233वाई), 01 अक्टूबर 2009
- हवलदार भोजाराजा दण्डासेना (सं. 15355903एच अब जेसी-  
379234एफ), 01 अक्टूबर 2009
- हवलदार परमजीत सिंह (सं. 15355071पी अब जेसी-379235के),  
01 अक्टूबर 2009
- हवलदार एम के नायर पी आर (सं. 15355685पी अब जेसी-  
379236एम), 01 अक्टूबर 2009
- हवलदार शिव कुमार झा (सं. 14262284एक्स अब जेसी-  
379237पी), 18 अक्टूबर 2009
- (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जायेगी)
- हवलदार सुरेन्द्र सिंह (सं. 14256241एम अब जेसी-379238एक्स),  
07 अक्टूबर 2009
- (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जायेगी)
- हवलदार शिव सिंह (सं. 14267429एफ अब जेसी-379239ए),  
01 अक्टूबर 2009
- हवलदार कामता सिंह (सं. 15355841एन अब जेसी-379240पी),  
01 अक्टूबर 2009
- हवलदार तिलक सी एच तालुकदार (सं. 14267443एनअब  
जेसी-379241एक्स), 01 अक्टूबर 2009
- हवलदार अरविंदहकशान के (सं. 15353915वाई अब जेसी-  
379242ए), 01 अक्टूबर 2009
- हवलदार उत्तम कुमार पांडे (सं. 15356412वाई अब जेसी-  
379243एच), 01 अक्टूबर 2009
- हवलदार राधा कृष्णा बिसोई (सं. 15353496एम अब जेसी-  
379245एन), 01 अक्टूबर 2009
- हवलदार अनिल कुमार के एस (सं. 15352944एफ अब जेसी-  
379246डब्ल्यू), 13 अक्टूबर 2009
- (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जायेगी)
- हवलदार एम अली शेख (सं. 14265375एम अब जेसी-379247वाई),  
01 अक्टूबर 2009
- हवलदार नेत्रानन्दा महानता (सं. 14269688एच अब जेसी-  
379248एफ), 01 अक्टूबर 2009
- हवलदार शोवाराम नायम (सं. 15355884एच अब जेसी-379249के),  
01 अक्टूबर 2009
- हवलदार खोट हरिदास डी राम (सं. 15355956एफ अब जेसी-  
379250वाई), 01 अक्टूबर 2009
- हवलदार बिनोद कुमार जे (सं. 15352726एच अब जेसी-  
379275एल), 01 नवम्बर 2009
- हवलदार लाल सिंह (सं. 15354206डब्ल्यू अब जेसी-379276एन),  
01 नवम्बर 2009
- हवलदार बिरेंद्र सिंह नेगी (सं. 15355546एल अब जेसी-  
379278एफ), 01 नवम्बर 2009



हवलदार मोहम्मद आजाद (सं. 14269668पी अब जेसी-379279एफ), 01 नवम्बर 2009

हवलदार रमेशन टी (सं. 14269854एल अब जेसी-379280डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2009

हवलदार साहुकरू अनादा राव (सं. 15350291एम अब जेसी-379281वाई), 01 नवम्बर 2009

हवलदार ओम प्रकाश (सं. 15350696एक्स अब जेसी-379283के), 01 नवम्बर 2009

हवलदार जी पी कुशवाहा (सं. 15351254एल अब जेसी-379284एम), 01 नवम्बर 2009

हवलदार वी कुमार चौधरी (सं. 15351396एच अब जेसी-379285पी), 01 नवम्बर 2009

हवलदार माने मारूति अपाया (सं. 15353451एम अब जेसी-379286एक्स), 01 नवम्बर 2009

हवलदार हरिश कुमार पी (सं. 15352684एफ अब जेसी-379287ए), 01 नवम्बर 2009

हवलदार धुलाशीधरण आर (सं. 15352715डब्ल्यू अब जेसी-379288एच), 01 नवम्बर 2009

हवलदार पाटिल रविन्द्र पी (सं. 15354369के अब जेसी-379289एल), 01 नवम्बर 2009

हवलदार अशोक के आर प्रधान (सं. 15354825के अब जेसी-379290ए), 01 नवम्बर 2009

हवलदार पाटिल चिंतामन एस (सं. 15350323के अब जेसी-379291एच), 01 नवम्बर 2009

हवलदार राम सिंह धुर्वे (सं. 15355274डब्ल्यू अब जेसी-379292एल), 01 नवम्बर 2009

हवलदार उमा शंकर (सं. 14255386एल अब जेसी-379294डब्ल्यू), 16 नवम्बर 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2009 से दी जायेगी)

हवलदार राम मेहर (सं. 15352852पी अब जेसी-379295वाई), 01 नवम्बर 2009

हवलदार शेव नारायण बिन (सं. 15353530एफ अब जेसी-379296एफ), 01 नवम्बर 2009

हवलदार सुखदेव सिंह (सं. 15353862एल अब जेसी-379297के), 01 नवम्बर 2009

हवलदार जया प्रकाश के (सं. 15350103ए अब जेसी-379298एम), 01 नवम्बर 2009

हवलदार सी जयाराज (सं. 14268763पी अब जेसी-379299पी), 01 नवम्बर 2009

हवलदार सुरेश चन्द्र (सं. 15354125डब्ल्यू अब जेसी-379300वाई), 01 नवम्बर 2009

हवलदार अली अकबर (सं. 14260004ए अब जेसी-379301एफ), 01 नवम्बर 2009

हवलदार मनोज कुमार (सं. 15350732एक्स अब जेसी-379302के), 01 नवम्बर 2009

हवलदार बी श्रीनिवास (सं. 15351925के अब जेसी-379303एम), 01 नवम्बर 2009

हवलदार कुंज बिहारी सिंह (सं. 15356385ए अब जेसी-379304पी), 01 नवम्बर 2009

हवलदार भिर्गु नाथ सिंह के (सं. 15351646वाई अब जेसी-379306ए), 01 नवम्बर 2009

हवलदार जोगेन्द्र सिंह (सं. 15355418एन अब जेसी-379332एफ), 01 दिसम्बर 2009

हवलदार बिष्णुपाद मोहंता (सं. 15353592एफ अब जेसी-379333के), 01 दिसम्बर 2009

हवलदार नभाजीवन सोनोवाल (सं. 15356565एच अब जेसी-379334एम), 01 दिसम्बर 2009

हवलदार राधा कृष्णा पानीग्राही (सं. 15356600ए अब जेसी-379335पी), 01 दिसम्बर 2009

हवलदार साधना कुमार ए (सं. 15356893डब्ल्यू अब जेसी-379336एक्स), 01 दिसम्बर 2009

हवलदार सुरेन्द्र पाल (सं. 15356940एच अब जेसी-379337ए), 01 दिसम्बर 2009

हवलदार लक्ष्मण सिंह नेगी (सं. 15356995एम अब जेसी-379338एच), 01 दिसम्बर 2009

हवलदार समशेर सिंह (सं. 15356998ए अब जेसी-379339एल), 01 दिसम्बर 2009

हवलदार महेन्द्र सिंह (सं. 15357004ए अब जेसी-379340ए), 14 दिसम्बर 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2009 से दी जायेगी)

हवलदार अरविन्द कुमार (सं. 15357077एम अब जेसी-379341एच), 01 दिसम्बर 2009

हवलदार ब्रज मोहन सिंह (सं. 14255857एन अब जेसी-379342एल), 01 दिसम्बर 2009

हवलदार हरि नारायण सिंह (सं. 14255693एच अब जेसी-379343एन), 01 दिसम्बर 2009

हवलदार तेजपाल (सं. 15353833डब्ल्यू अब जेसी-379350के), 02 दिसम्बर 2009

हवलदार जॉन मेथ्यू (सं. 14261977एच अब जेसी-379351एम),  
02 दिसम्बर 2009

हवलदार राम रोहतास (सं. 15357507एल अब जेसी-379354ए),  
02 दिसम्बर 2009

सेना वायु रक्षा कोर

नायब सूबेदार के पद में

हवलदार कुलवंत सिंह (सं. 14382424पी अब जेसी-300696पी),  
03 नवम्बर 2008/30 अक्टूबर 2008 \*

हवलदार जोगिंदर सिंह (सं. 14388491डब्ल्यू अब जेसी-  
300697एक्स), 01 नवम्बर 2008

हवलदार सुनील कुमार (सं. 14388291ए अब जेसी-300698ए),  
01 नवम्बर 2008

(बीएचएम) शुभाष चंद (सं. 14389164एक्स अब जेसी-  
300699एच), 20 नवम्बर 2008/01 नवम्बर 2008 \*

हवलदार तारा चंद (सं. 14395720वाई अब जेसी-300700एम),  
01 नवम्बर 2008

(बीएचएम) महम्मद शरीफ बेग (सं. 14395303एम अब जेसी-  
300701पी), 01 नवम्बर 2008

हवलदार सरवन कुमार (सं. 14384812एल अब जेसी-300702एक्स),  
15 नवम्बर 2008/01 नवम्बर 2008 \*

हवलदार अल्बर्ट लीमा (सं. 14396146एक्स अब जेसी-300703ए),  
14 नवम्बर 2008/01 नवम्बर 2008 \*

(आरएचएम) ममन सिंह शेखावत (सं. 15765994वाई अब  
जेसी-300704एच), 09 नवम्बर 2008/01 नवम्बर 2008 \*

(बीएचएम) प्रभात चंद (सं. 14381715एच अब जेसी-300705एल),  
05 सितम्बर 2008/01 अगस्त 2008 \*

हवलदार पी प्रकाश (सं. 14396001एम अब जेसी-300706एन),  
11 अक्टूबर 2008/01 अगस्त 2008 \*

हवलदार सत पाल (सं. 14388058एम अब जेसी-300707डब्ल्यू),  
04 सितम्बर 2008/21 अगस्त 2008 \*

(बीएचएम) आर माधप्पन (सं. 14400010एन अब जेसी-  
300708वाई), 08 अक्टूबर 2008/25 अगस्त 2008 \*

(बीएचएम) श्याम दुलार (सं. 14383758डब्ल्यू अब जेसी-  
300709एफ), 03 अक्टूबर 2008/01 सितम्बर 2008 \*

हवलदार धन्ना राम माली (सं. 14385019एच अब जेसी-  
300710डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2008

(बीएचएम) राधा कृष्ण कूरुप (सं. 14385052ए अब जेसी-  
300711वाई), 01 अक्टूबर 2008/05 सितम्बर 2008 \*

हवलदार अशोक कुमार तिवारी (सं. 14499878एन अब जेसी-  
300712एफ), 01 अक्टूबर 2008

(बीएचएम) जय पाल चंद (सं. 14388049एल अब जेसी-300713के),  
03 अक्टूबर 2008/01 अक्टूबर 2008 \*

(बीएचएम) राम शरन (सं. 14386389पी अब जेसी-300714एम),  
06 अक्टूबर 2008/01 अक्टूबर 2008 \*

(बीएचएम) कृष्णा राय (सं. 14379149पी अब जेसी-300715पी),  
01 अक्टूबर 2008

(बीएचएम) रमेश प्रसाद विश्वाकरन (सं. 14383652के अब  
जेसी-300716एक्स), 03 अक्टूबर 2008/01 अक्टूबर 2008 \*

हवलदार महादेव कुजूर (सं. 14383714वाई अब जेसी-300717ए),  
06 अक्टूबर 2008/01 अक्टूबर 2008 \*

हवलदार नामदेव भाजंत्री (सं. 14383820एक्स अब जेसी-300718एच),  
05 नवम्बर 2008/26 अक्टूबर 2008 \*

(बीएचएम) श्री भगवान (सं. 14393202ए अब जेसी-300719एल),  
14 नवम्बर 2008/01 नवम्बर 2008 \*

हवलदार बालशेर सिंह (सं. 14388831एन अब जेसी-300720ए),  
05 नवम्बर 2008/01 नवम्बर 2008 \*

(बीएचएम) सुरेश सिंह (सं. 14385191के अब जेसी-300721एच),  
12 नवम्बर 2008/01 नवम्बर 2008 \*

हवलदार राजवीर सिंह (सं. 14386297एच अब जेसी-300722एल),  
01 नवम्बर 2008

हवलदार टी एम जया राम (सं. 14402126एच अब जेसी-300723एन),  
01 नवम्बर 2008

हवलदार संसार सिंह (सं. 14498777एन अब जेसी-300724डब्ल्यू),  
24 नवम्बर 2008

हवलदार हरबीर सिंह (सं. 14381708एम अब जेसी-300725एन),  
11 दिसम्बर 2008/01 दिसम्बर 2008 \*

हवलदार अभय सिंह (सं. 14386584एम अब जेसी-300726एफ),  
05 दिसम्बर 2008/01 दिसम्बर 2008 \*

(आरएचएम) राजेंद्र कुमार (सं. 14394379ए अब जेसी-300727के),  
05 जनवरी 2009/27 दिसम्बर 2008 \*

हवलदार मलेक महमद केयूम दादूम मियाँ (सं. 15105200एफ अब  
जेसी-300728एम), 14 जनवरी 2009/01 जनवरी 2009 \*

(बीएचएम) पार्थन एस (सं. 14383728वाई अब जेसी-300729पी),  
03 अक्टूबर 2008/10 अगस्त 2008 \*

हवलदार नाहर सिंह (सं. 13978373डब्ल्यू अब जेसी-300730के),  
21 अक्टूबर 2008/01 अक्टूबर 2008 \*

हवलदार रामेश के (सं. 14387568एफ अब जेसी-300731एम),  
29 अक्टूबर 2008/14 अक्टूबर 2008 \*

(बीएचएम) राम पाल (सं. 14391555एफ अब जेसी-300732पी),  
01 दिसम्बर 2008/01 नवम्बर 2008 \*

हवलदार अब्राहम पी के (सं. 14395990एन अब जेसी-300733एक्स),  
09 दिसम्बर 2008/01 नवम्बर 2008 \*

हवलदार श्री किशन सिंह (सं. 14400314एल अब जेसी-300734ए),  
03 नवम्बर 2008/01 नवम्बर 2008 \*

सेना सेवा कोर (पूर्ति)

राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

नायब सूबेदार : व्यक्तिगत सहायक

हवलदार रवि कुमार आर (सं. 6926472पी अब जेसी-665840एल),  
01 मई 2009 \*

हवलदार जगन्नाथ नायक (सं. 4488992एम अब जेसी-665841एन),  
01 मई 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 01 मई 2009 से दी जाएगी)

हवलदार शंकर यादव (सं. 15360473एन अब जेसी-665903एच),  
01 जुलाई 2009

हवलदार राम सिंह (सं. 14589701एफ अब जेसी-665904एल),  
01 जुलाई 2009

हवलदार राम निवास सिंह तोमर (सं. 14594353पी अब जेसी-  
665924आई), 01 जुलाई 2009

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जाएगी)

हवलदार रजनी कांता मिश्रा (सं. 6382752एक्स अब जेसी-  
665842डब्ल्यू), 01 मई 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 01 मई 2009 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार लिपिक : (जीडी/एसडी)

हवलदार पूर्ण चंद्रकर (सं. 6381288एम अब जेसी-665844एफ),  
09 मार्च 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 10 जनवरी 2009 से दी जाएगी)

हवलदार रामा चन्द्रन ए (सं. 6383668के अब जेसी-665925एफ),  
26 जून 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 01 जनवरी 2007 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार (एसडी)

हवलदार अजय कुमार डी (सं. 6382544एच अब जेसी-667120एच),  
09 जनवरी 2010 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जाएगी)

हवलदार अजय सिंह (सं. 6382135पी अब जेसी-667121एल),  
17 दिसम्बर 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2009 से दी जाएगी)

हवलदार बिपेंद्र डबराल (सं. 6382118पी अब जेसी-667124वाई),  
01 फरवरी 2010 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाएगी)

हवलदार हरी कुमार बी (सं. 6389434डब्ल्यू अब जेसी-667122एन),  
01 जनवरी 2010

हवलदार राजेंद्र कुमार (सं. 6476728ए अब जेसी-667123डब्ल्यू),  
05 जनवरी 2010 \*

हवलदार जैन के बी (सं. 6382522के अब जेसी-667139एफ),  
06 जनवरी 2010 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार (पी ए)

हवलदार भंवर लाल पलानिया (सं. 14593222एक्स अब जेसी-  
667114पी), 04 जनवरी 2010 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2009 से दी जाएगी)

हवलदार के सम्पत कुमार (सं. 6386023एम अब जेसी-667113एम),  
23 दिसम्बर 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2009 से दी जाएगी)

हवलदार आर चंद्रा कुमार (सं. 9418877एल अब जेसी-  
667115एक्स), 09 जनवरी 2010 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाएगी)

हवलदार बेबी जोसफ (सं. 14601640के अब जेसी-667117एच),  
01 फरवरी 2010

हवलदार अनूप कुमार गौड (सं. 4183266डब्ल्यू अब जेसी-  
667118एल), 01 फरवरी 2010

हवलदार एम ई बिजू (सं. 6930289के अब जेसी-667119एन),  
01 फरवरी 2010

हवलदार राकेश कुमार सिवहरे (सं. 8031997वाई अब जेसी-  
667116ए), 01 फरवरी 2010

हवलदार राज पाल सिंह जाम्वाल (सं. 9923455एम अब जेसी-  
667140डब्ल्यू), 01 मार्च 2010

हवलदार तारेकेश्वर सिंह (सं. 2989919एक्स अब जेसी-667141वाई),  
02 मार्च 2010

#### सूबेदार (म्युजिशियन)

नायब सूबेदार सुधीर कुमार गौतम (जेसी 470043ए), 07 जनवरी  
2010\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता  
01 अप्रैल 2009 से दी जाएगी)

#### नायब सूबेदार (एसडी)

हवलदार चाक्को पाप्पी (सं. 6382538पी अब जेसी-666042के),  
21 अक्टूबर 2009\*

हवलदार जय जीव जॉर्ज (सं. 6382547डब्ल्यू अब जेसी-667014के),  
22 अक्टूबर 2009\*

हवलदार थोमसन टी पी (सं. 6382564डब्ल्यू अब जेसी-667015एम),  
22 अक्टूबर 2009\*

हवलदार नांदीगम कामेश्वर राव (सं. 6382635एम अब जेसी-  
667018पी), 24 अक्टूबर 2009\*

हवलदार मुकुल आनंद राव (सं. 6382636पी अब जेसी-  
667017एक्स), 23 अक्टूबर 2009\*

हवलदार पवार यशवंत माधव राव (सं. 6382656एच अब जेसी-  
667018ए), 23 अक्टूबर 2009

हवलदार सतपाल (सं. 6382715के अब जेसी-667019एच),  
28 अक्टूबर 2009\*

हवलदार विश्वजीत मण्डल (सं. 6382811वाई अब जेसी-  
667020एक्स), 23 अक्टूबर 2009\*

हवलदार भंवर लाल साद (सं. 6382868एन अब जेसी-667021ए),  
31 अक्टूबर 2009\*

हवलदार तारजीन छेत्री (सं. 6383041के अब जेसी-667022एच),  
24 अक्टूबर 2009\*

हवलदार सुरेश चंद्र (सं. 6382890वाई अब जेसी-667023एल),  
31 अक्टूबर 2009\*

हवलदार सनप दिनकर महाडु (सं. 6379994पी अब जेसी-  
667024एन), 30 अक्टूबर 2009\*

हवलदार श्रीदास चंद्र शाह (सं. 13895681एक्स अब जेसी-  
667025डब्ल्यू), 23 अक्टूबर 2009\*

हवलदार गुल्ली पल्ली पाकीरो नायडू (सं. 6382458एक्स अब  
जेसी-667026वाई), 21 अक्टूबर 2009\*

हवलदार उत्पल चौधरी (सं. 6382479एन अब जेसी-666039के),  
21 अक्टूबर 2009\*

हवलदार खुशी राम (सं. 13887654वाई अब जेसी-667027एफ),  
29 अक्टूबर 2009\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जाएगी)

हवलदार पैगन विलास चंद्र राम (सं. 6382098एम अब  
जेसी-667028के), 29 अक्टूबर 2009\*

हवलदार शरत चंद्र पानी (सं. 6382359पी अब जेसी-667029एम),  
21 अक्टूबर 2009\*

हवलदार संजय कुमार (सं. 6382021के अब जेसी-667030एफ),  
23 अक्टूबर 2009\*

हवलदार राम कुमार (सं. 6389162एफ अब जेसी-667031के),  
26 अक्टूबर 2009\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 अगस्त 2009 से दी जायेगी)

हवलदार रन पाल (सं. 6389164एम अब जेसी-667032एम),  
23 अक्टूबर 2009

हवलदार टी वीराना गौडे (सं. 6389175वाई अब जेसी-666040वाई),  
21 अक्टूबर 2009\*

हवलदार राधा कृष्णन आर (सं. 6389180के अब जेसी-666043एम),  
21 अक्टूबर 2009\*

हवलदार राजेन्द्र सिंह (सं. 6389174डब्ल्यू अब जेसी-667033पी),  
29 अक्टूबर 2009\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 अगस्त 2009 से दी जायेगी)

हवलदार राधा कृष्णन एस (सं. 6389187एन अब जेसी-667034एक्स),  
22 अक्टूबर 2009

हवलदार अरून कुमार (सं. 6389194के अब जेसी-667035ए),  
05 नवम्बर 2009\*

हवलदार जगरूप सिंह (सं. 6389200एम अब जेसी-667036वाई),  
23 अक्टूबर 2009\*

हवलदार कुलदीप कुमार शर्मा (सं. 6389201पी अब जेसी-667055एम),  
26 अक्टूबर 2009\*

हवलदार गोपी चंद (सं. 6389210डब्ल्यू अब जेसी-666044पी),  
22 अक्टूबर 2009\*

हवलदार जय करन (सं. 6389225वाई अब जेसी-667038एन),  
02 नवम्बर 2009 \*

हवलदार निर्मल सिंह (सं. 6389268एन अब जेसी-667039डब्ल्यू),  
23 अक्टूबर 2009 \*

हवलदार मदन लाल शर्मा (सं. 6389269डब्ल्यू अब जेसी-667040एल),  
28 अक्टूबर 2009 \*

हवलदार अजिथ (सं. 6389151पी अब जेसी-667041एन), 24 अक्टूबर  
2009 \*

हवलदार संध्या त्रित (सं. 6389235एच अब जेसी-667042डब्ल्यू),  
26 अक्टूबर 2009 \*

हवलदार चिकदोलि विजय आपन (सं. 6381154एन अब  
जेसी-667043वाई), 02 नवम्बर 2009 \*

हवलदार चंद्रा पाल (सं. 6382116के अब जेसी-667044डब्ल्यू),  
24 अक्टूबर 2009 \*

हवलदार ओमवीर सिंह राना (सं. 6381948वाई अब जेसी-667041एफ),  
21 अक्टूबर 2009 \*

हवलदार सिसिर कुमार भांजा (सं. 6382377एक्स अब जेसी-667046एम),  
09 नवम्बर 2009 \*

हवलदार दीपक समदेर (सं. 6382616एफ अब जेसी-667047पी),  
29 अक्टूबर 2009 \*

हवलदार मनिकंदन ये (सं. 6382578डब्ल्यू अब जेसी-667048एक्स),  
23 अक्टूबर 2009 \*

हवलदार जी रवि (सं. 6382626एल अब जेसी-667049ए), 23 अक्टूबर  
2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 सितम्बर 2009 से दी जायेगी)

हवलदार रिषि नाथ यादव (सं. 6382906वाई अब जेसी-667050पी),  
24 अक्टूबर 2009 \*

हवलदार सुकांता कुमार साहु (सं. 6382496एम अब जेसी-667051एक्स),  
30 अक्टूबर 2009 \*

हवलदार चन्द्रभान सिंह (सं. 6389205एल अब जेसी-667037एल),  
29 अक्टूबर 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 सितम्बर 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार (पी ए)

हवलदार वेनुगोपाला पिल्लै जे (सं. 14390737एच अब  
जेसी-666045एक्स), 20 अक्टूबर 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 20 जून 2009 से दी जायेगी)

हवलदार वेनुगोपाला पिल्लै जे (सं. 15361909ए अब  
जेसी-667052ए), 01 सितम्बर 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 सितम्बर 2009 से दी जायेगी)

हवलदार अभे राम (सं. 6381992एच अब जेसी-667053एच),  
07 नवम्बर 2009 \*

हवलदार संतोश कुमार पी के (सं. 4469544एम अब  
जेसी-667054एल), 09 नवम्बर 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार (एस डी)

हवलदार टी वी सनयासी राव (सं. 6382633एफ अब जेसी-665962पी),  
05 जनवरी 2010 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जायेगी)

हवलदार कमल प्रसाद (सं. 6381108वाई अब जेसी-665963एक्स),  
01 दिसम्बर 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 सितम्बर 2009 से दी जायेगी)

हवलदार नरिंदर पाल (सं. 6389198ए अब जेसी-665967एन),  
04 जनवरी 2010 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 सितम्बर 2009 से दी जायेगी)

हवलदार त्रिलोचन मिश्रा (सं. 6389219एल अब जेसी-665970एन),  
08 जनवरी 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 सितम्बर 2009 से दी जायेगी)

हवलदार अब्दुल राशिद (सं. 6389222एल अब जेसी-665968डब्ल्यू),  
05 जनवरी 2010 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 सितम्बर 2009 से दी जायेगी)

हवलदार अनिल कुमार (सं. 6389226एफ अब जेसी-665964ए),  
16 दिसम्बर 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 सितम्बर 2009 से दी जायेगी)

हवलदार शिश राम (सं. 6389232पी अब जेसी-665969वाई),  
06 जनवरी 2010 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 सितम्बर 2009 से दी जायेगी)

हवलदार प्रदीप कुमार प्रधान (सं. 6389265ए अब जेसी-665966एल),  
01 जनवरी 2010\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 सितम्बर 2009 से दी जायेगी)

हवलदार हीरा सिंह (सं. 6389272डब्ल्यू अब जेसी-665965एच),  
30 दिसम्बर 2009\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 सितम्बर 2009 से दी जायेगी)

हवलदार राजेश कुमार (सं. 6381275पी अब जेसी-665974के),  
01 जनवरी 2010\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जायेगी)

हवलदार राम दास (सं. 6381858एक्स अब जेसी-665975एम),  
02 जनवरी 2010\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जायेगी)

हवलदार मनोमोहन के (सं. 6382031एन अब जेसी-665972वाई),  
24 दिसम्बर 2009\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जायेगी)

हवलदार प्रफुल्ल कुमार बर्ती (सं. 6382512ए अब जेसी-665973एफ),  
30 दिसम्बर 2009\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जायेगी)

हवलदार शेषदेव पटनायक (सं. 6388981वाई अब जेसी-665971डब्ल्यू),  
15 दिसम्बर 2009\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जायेगी)

हवलदार बिस्मू चरन स्वैन (सं. 6389274एफ अब जेसी-665976पी),  
16 दिसम्बर 2009\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जायेगी)

हवलदार प्रोसुन कांती दास (सं. 6381314एच अब जेसी-665979एच),  
01 जनवरी 2010

हवलदार कौशिक कुमार नाथ (सं. 6381318वाई अब जेसी-665985डब्ल्यू),  
13 जनवरी 2010\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जायेगी)

हवलदार शिशुपाल सिंह (सं. 6381335वाई अब जेसी-665980एक्स),  
01 जनवरी 2010

हवलदार हरदीप सिंह (सं. 6381339पी अब जेसी-665981ए),  
04 जनवरी 2010\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जायेगी)

हवलदार प्रमोद चंद्र (सं. 6381349वाई अब जेसी-665978ए),  
01 जनवरी 2010

हवलदार नेपाल सिंह (सं. 6382137ए अब जेसी-665984एन),  
06 जनवरी 2010\*

हवलदार गुप्ता राय (सं. 6382682के अब जेसी-665982एच),  
04 जनवरी 2010\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जायेगी)

हवलदार फरिजुद्दीन बर्भुइया (सं. 6382720पी अब जेसी-665983एल),  
06 जनवरी 2010\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जायेगी)

हवलदार सधीसन कुमबकरा (सं. 6389479डब्ल्यू अब  
जेसी-665977एक्स), 01 जनवरी 2010

हवलदार सुरेंद्र कुमार (सं. 6388192एम अब जेसी-665746एफ),  
03 जनवरी 2010\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जायेगी)

हवलदार धंधुक्या मनसुखलाल भीखा भाई (सं. 6382188एन अब  
जेसी-665719एक्स), 26 दिसम्बर 2008\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 नवम्बर 2008 से दी जायेगी)

हवलदार विजेंद्र कुमार वर्मा (सं. 6382136एक्स अब जेसी-665776वाई),  
17 जनवरी 2009\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 08 नवम्बर 2008 से दी जायेगी)

हवलदार ईंद्र पाल सिंह (सं. 6381336एफ अब जेसी-665704पी),  
01 जनवरी 2009

हवलदार बाबु लाल पाटीदार (सं. 6382222एच अब जेसी-665705एक्स),  
01 जनवरी 2009

हवलदार राम देव वर्मा (सं. 6382272एन अब जेसी-665706ए),  
01 जनवरी 2009

हवलदार छोटे लाल (सं. 6382283ए अब जेसी-665747के), 01 जनवरी  
2009

हवलदार बहादुर सिंह (सं. 6381860पी अब जेसी-665828के),  
01 अप्रैल 2009\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 नवम्बर 2008 से दी जायेगी)

हवलदार अंधकार राजेंद्र शंकर राव (सं. 6382351एच अब  
जेसी-665829एम), 01 अप्रैल 2009\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 फरवरी 2010 से दी जायेगी)

हवलदार हरी कृष्ण मोहंती (सं. 6382513एच अब जेसी-665830एफ),  
01 अप्रैल 2009

हवलदार बिजय कुमार नायक (सं. 6382518एफ अब जेसी-  
665831के), 01 अप्रैल 2009

हवलदार संतोष के जे (सं. 6382584के अब जेसी-665837एल),  
01 अप्रैल 2009

हवलदार संत कुमार राय (सं. 6382613एन अब जेसी-665832एम),  
01 अप्रैल 2009

हवलदार लक्ष्मन सिंह (सं. 6382614डब्ल्यू अब जेसी-665833पी),  
01 अप्रैल 2009

हवलदार कृष्ण चंद्र चौध (सं. 6382675एन अब जेसी-665835ए),  
01 अप्रैल 2009

हवलदार करुण किशोर बैरागी (सं. 6382677वाई अब जेसी-665836एच),  
01 अप्रैल 2009

हवलदार अमृत्यु कुमार मिश्रा (सं. 6381127के अब जेसी-665889एफ),  
01 अगस्त 2009

हवलदार तपन सरकार (सं. 6381269एफ अब जेसी-665890डब्ल्यू),  
01 सितम्बर 2008

हवलदार विनय कुमार (सं. 6381882एन अब जेसी-665885एल),  
01 अक्टूबर 2008

हवलदार गोपिनाथन टी एम (सं. 6385044डब्ल्यू अब जेसी-  
665944एम), 27 जुलाई 2009\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 02 मई 2009 से दी जायेगी)

हवलदार उदयन जी (सं. 6389183एक्स अब जेसी-665927एम),  
18 जुलाई 2009\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 02 मई 2009 से दी जायेगी)

हवलदार विलास हनुमंत यादव (सं. 6382038एक्स अब जेसी-  
665901एक्स), 07 मई 2009\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 10 जनवरी 2009 से दी जायेगी)

हवलदार सूरत शिवजी रत्नप्पा (सं. 6382091एच अब जेसी-  
665900पी), 07 मई 2009\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 10 जनवरी 2009 से दी जायेगी)

हवलदार उपानंद खमरू (सं. 6382332एक्स अब जेसी-665902ए),  
19 मई 2009\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 मार्च 2009 से दी जायेगी)

हवलदार मथुर कलीता (सं. 6382412पी अब जेसी-665817एक्स),  
02 मार्च 2009\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 मार्च 2009 से दी जायेगी)

हवलदार श्याम सुंदर हती (सं. 6382671एक्स अब जेसी-665834एक्स),  
01 अप्रैल 2009\*

नायब सूबेदार (पी ए)

हवलदार भगवन पंडा (सं. 13753093एन अब जेसी-665957के),  
29 दिसम्बर 2009\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2009 से दी जायेगी)

हवलदार सतीश चंद्रा (सं. 15359605के अब जेसी-665958एम),  
29 दिसम्बर 2009\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2009 से दी जायेगी)

हवलदार मनोज कुमार पनीग्राही (सं. 13618208एच अब जेसी-  
665960के), 01 जनवरी 2010

हवलदार बरुंदेब बंदोपाध्या (सं. 13752351डब्ल्यू अब जेसी-  
665959पी), 01 जनवरी 2010

हवलदार तेमभुर्निकर मानिक (सं. 2594254एच अब जेसी-  
665961एम), 01 जनवरी 2010

हवलदार नरेश कुमार (सं. 15362757डब्ल्यू अब जेसी-665945पी),  
01 अगस्त 2009

हवलदार रविंद्र नाथ यादव (सं. 2481751वाई अब जेसी-  
665946एक्स), 01 अगस्त 2009

हवलदार काशिद कृष्णा मुरलीधर (सं. 2592002एक्स अब  
जेसी-665948एच), 01 अगस्त 2009

हवलदार हरीश चंद्र गुर्जर (सं. 2886124के अब जेसी-665947ए),  
01 अगस्त 2009

नायब सूबेदार (एसडी)

हवलदार एम सैयद कामिल (सं. 6381557एन अब जेसी-  
667056डब्ल्यू), 05 नवम्बर 2009\*

हवलदार राम पाल सिंह (सं. 6382895एक्स अब जेसी-667057वाई),  
21 नवम्बर 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जायेगी)

हवलदार नारायणन पी के (सं. 6389170ए अब जेसी-667058एफ),  
30 अक्टूबर 2009 \*

हवलदार जसवंत सिंह (सं. 6389185एच अब जेसी-667059के),  
31 अक्टूबर 2009 \*

हवलदार मुनेंद्र सिंह (सं. 6382134एम अब जेसी-667060वाई),  
31 अक्टूबर 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 अगस्त 2009 से दी जायेगी)

हवलदार सुरेश कुमार बी (सं. 6382582वाई अब जेसी-667062के),  
27 नवम्बर 2009 \*

हवलदार श्याम बिहारी सिंह (सं. 6382100वाई अब जेसी-668027एन),  
06 नवम्बर 2009 \*

हवलदार पूरन चंद्र साहू (सं. 6389221एच अब जेसी-668035एम),  
15 दिसम्बर 2009 \*

हवलदार ऋषिपाल सिंह (सं. 6382270एच अब जेसी-668043एल),  
06 दिसम्बर 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 सितम्बर 2009 से दी जायेगी)

हवलदार संसारे गनपत गोविंद राव (सं. 6381307एम अब  
जेसी-667061एफ), 28 नवम्बर 2009 \*

हवलदार गुरुमुख सिंह (सं. 6382278पी अब जेसी-667063एम),  
27 नवम्बर 2009 \*

हवलदार टि दाउद खान कसम खान (सं. 6381478वाई अब जेसी-  
668028डब्ल्यू), 05 दिसम्बर 2009 \*

हवलदार शिवाजी बी (सं. 6382625एच अब जेसी-668029वाई),  
05 दिसम्बर 2009 \*

हवलदार संतोष डे (सं. 6382603एक्स अब जेसी-668044एन),  
16 दिसम्बर 2009 \*

हवलदार गोपाल नाग (सं. 6388988एच अब जेसी-668045डब्ल्यू),  
17 दिसम्बर 2009 \*

हवलदार इदाते सूर्या भान भाउ राव (सं. 6381308पी अब जेसी-  
668045वाई), 17 दिसम्बर 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जायेगी)

हवलदार सतिंद्रन नायर एस (सं. 6382536के अब जेसी-  
668047वाई), 04 दिसम्बर 2009 \*

हवलदार बालाचंद्रन एन पी (सं. 6382535एफ अब जेसी-  
668048के), 09 दिसम्बर 2009 \*

हवलदार दिलीप कुमार मंडल (सं. 6379880के अब जेसी-  
668030एन), 04 दिसम्बर 2009 \*

हवलदार रघु आर (सं. 6382534वाई अब जेसी-668031डब्ल्यू),  
01 दिसम्बर 2009 \*

हवलदार संतोष कुमार पी (सं. 6382585एम अब जेसी-668032वाई),  
04 दिसम्बर 2009 \*

हवलदार महाबीर प्रसाद रनवा (सं. 6381933डब्ल्यू अब जेसी-  
668033एफ), 01 दिसम्बर 2009 \*

हवलदार पी भुवनेश्वरा राव (सं. 6382642एच अब जेसी-  
668034के), 01 दिसम्बर 2009 \*

हवलदार सीता राम (सं. 6381941पी अब जेसी-668036पी),  
02 दिसम्बर 2009 \*

हवलदार प्रदीप कुमार मंडल (सं. 6382810डब्ल्यू अब जेसी-  
668038ए), 16 दिसम्बर 2009 \*

हवलदार अरविंद कुमार (सं. 6476512वाई अब जेसी-668040एक्स),  
16 दिसम्बर 2009 \*

हवलदार पोलकी आशोक कुमार (सं. 6388980डब्ल्यू अब  
जेसी-668050एफ), 21 दिसम्बर 2009 \*

हवलदार मुकुट अलि (सं. 6382219एच अब जेसी-668051के),  
23 दिसम्बर 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जायेगी)

हवलदार जगत सिंह (सं. 6381928एल अब जेसी-667064पी),  
01 दिसम्बर 2009

हवलदार सुखविंदर सिंह (सं. 6380643एम अब जेसी-668025एच),  
03 दिसम्बर 2009 \*

हवलदार संतोष कुमार दास (सं. 6382607ए अब जेसी-668026एल),  
03 दिसम्बर 2009 \*

हवलदार हिरन मोय बिसवास (सं. 6382679के अब जेसी-  
668037एक्स), 11 दिसम्बर 2009 \*

हवलदार जय नारायण (सं. 6382052एन अब जेसी-668039एच),  
16 दिसम्बर 2009 \*

हवलदार सागर वसंत धोंडिबा (सं. 6380300पी अब जेसी-  
668049एम), 16 दिसम्बर 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2009 से दी जायेगी)



हवलदार छवी लाल (सं. 6382294एम अब जेसी-667065एक्स),  
01 दिसम्बर 2009\*

हवलदार के प्रकाश बबन राव (सं. 6382294एन अब जेसी-  
667065एक्स), 16 दिसम्बर 2009\*

हवलदार सुदर्शन एस (सं. 6387169एम अब जेसी-668042एच),  
15 दिसम्बर 2009\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 07 नवम्बर 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार (पी ए)

हवलदार कदावर्धी पापा राव (सं. 13897250के अब जेसी-  
667066ए), 09 नवम्बर 2009\*

हवलदार भिसे संजय पटलू (सं. 6382027एल अब जेसी-  
668052एम), 22 दिसम्बर 2009\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जायेगी)

हवलदार बिंदागे मोतीलाल गुनावंत (सं. 14593669पी अब जेसी-  
668053पी), 22 दिसम्बर 2009\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2009 से दी जायेगी)

कोर ऑफ सिगनल्स

नायब सूबेदार (वाई ऑफ एस) के रैंक में

हवलदार प्रेम पाल सिंह (सं. 15391896एच अब जेसी-379020एल),  
01 जुलाई 2009

हवलदार मनोज कुमार सिंह (सं. 15382159ए अब जेसी-  
379157एक्स), 01 सितम्बर 2009\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जायेगी)

हवलदार तरुण हलदर (सं. 15383757के अब जेसी-379158ए),  
01 सितम्बर 2009\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जायेगी)

हवलदार श्री बालमुकुंदा गौतम (सं. 15390430डब्ल्यू अब जेसी-  
379159एच), 01 सितम्बर 2009\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जायेगी)

हवलदार एस नारायण पूनिया (सं. 15387803एल अब जेसी-  
379160एक्स), 01 सितम्बर 2009\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जायेगी)

हवलदार सुनील (सं. 15665244एल अब जेसी-379161ए),  
01 सितम्बर 2009\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार (एफ ऑफ एस) के रैंक में

हवलदार कुमार के (सं. 15394786वाई अब जेसी-379169एम),  
01 सितम्बर 2009\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जायेगी)

हवलदार मुरुगन के (सं. 15662689एम अब जेसी-379170एफ),  
01 सितम्बर 2009\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जायेगी)

हवलदार चिमन लाल (सं. 15380330पी अब जेसी-379171के),  
01 सितम्बर 2009\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जायेगी)

हवलदार नागाराज नायक (सं. 15397638वाई अब जेसी-379173पी),  
01 सितम्बर 2009\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जायेगी)

हवलदार गुप्ता शिवहरि एस पी (सं. 15385417ए अब जेसी-  
379176एच), 01 सितम्बर 2009\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जायेगी)

हवलदार जय प्रकाश यादव (सं. 15380772एन अब जेसी-  
379177एल), 01 सितम्बर 2009\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जायेगी)

हवलदार गुराप्पा पूजा आर (सं. 15397488एन अब जेसी-  
379178एन), 01 सितम्बर 2009\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार (ओ एस एस) के रैंक में

हवलदार शेषनाथ सिंह (सं. 15355375के अब जेसी-379319एक्स),  
01 दिसम्बर 2009\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 21 जुलाई 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार (क्लर्क एसडी) के रैंक में

हवलदार लक्षि नाथ पेगु (सं. 14268260के अब जेसी-378819एच),  
01 फरवरी 2008

हवलदार कुलामणी साहु (सं. 14258559एच अब जेसी-378920एच),  
01 मई 2009\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 मार्च 2008 से दी जायेगी)

हवलदार ओम प्रकाश (सं. 14255880एफ अब जेसी-378637पी),  
01 दिसम्बर 2008\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जून 2008 से दी जायेगी)

हवलदार वेद प्रकाश साहु (सं. 15359540एफ अब जेसी-  
379191एक्स), 19 सितम्बर 2009\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 15 सितम्बर 2009 से दी जायेगी)

हवलदार गिरजा शंकर शुक्ला (सं. 15359618एफ अब जेसी-  
379226एच), 01 अक्टूबर 2009

हवलदार विमलेश सिंह (सं. 14253695पी अब जेसी-379262एन),  
01 नवम्बर 2009

हवलदार बिनोद कुमार सिंह (सं. 15359873एन अब जेसी-  
379263डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2009

हवलदार राजीवन के (सं. 15359596एन अब जेसी-379264वाई),  
09 नवम्बर 2009\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2009 से दी जायेगी)

हवलदार सुरजीत सिंह (सं. 15359148एफ अब जेसी-379266के),  
01 नवम्बर 2009

हवलदार हरि कुमार पी (सं. 15361597पी अब जेसी-379324एच),  
01 दिसम्बर 2009

हवलदार शिव स्वरूप द्विवेदी (सं. 15361922के अब जेसी-  
379325एल), 01 दिसम्बर 2009

हवलदार अजय कुमार (सं. 15361930एच अब जेसी-379326एन),  
01 दिसम्बर 2009

नायब सूबेदार (ओ पी साइफर) के रैंक में

हवलदार पी कृष्णन (सं. 15358391एम अब जेसी-379182डब्ल्यू),  
01 सितम्बर 2009

हवलदार चन्द्रा सेन सिंह (सं. 15364303एफ अब जेसी-  
379183वाई), 15 सितम्बर 2009

हवलदार गोपाल सिंह खत्री (सं. 15360297पी अब जेसी-  
379184एफ), 15 सितम्बर 2009

हवलदार आजि पी (सं. 14269540के अब जेसी-379185के),  
15 सितम्बर 2009

हवलदार अखिलेश कुमार (सं. 15364099एन अब जेसी-  
379186एम), 15 सितम्बर 2009

हवलदार बाप्पदित्य हलदार (सं. 15358665एम अब  
जेसी-379217एफ), 05 अक्टूबर 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जायेगी)

हवलदार सानादि सुभाष बुरन (सं. 15360903एम अब जेसी-  
379218के), 01 अक्टूबर 2009

हवलदार विजय कुमार गुप्ता (सं. 15360249एफ अब जेसी-  
379219एम), 01 अक्टूबर 2009

हवलदार एम डी जलालुद्दीन (सं. 15360619डब्ल्यू अब  
जेसी-379220एफ), 01 अक्टूबर 2009

हवलदार भवानी गौतम (सं. 15361025एन अब जेसी-379221के),  
01 अक्टूबर 2009

हवलदार उन्नी आर (सं. 15367156पी अब जेसी-379253एम),  
01 नवम्बर 2009

हवलदार कृष्ण कुमार (सं. 15367440एल अब जेसी-379254पी),  
03 नवम्बर 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2009 से दी जायेगी)

हवलदार रजनी कांता परहि (सं. 15358891के अब जेसी-379256ए),  
01 नवम्बर 2009

हवलदार तुलुक राज प्रधान (सं. 15364762ए अब जेसी-  
379257एच), 01 नवम्बर 2009

हवलदार धूप सिंह (सं. 15357088वाई अब जेसी-379258एल),  
01 नवम्बर 2009

हवलदार ज्ञानेश्वर प्रसाद (सं. 15355372डब्ल्यू अब जेसी-  
379259एन), 01 नवम्बर 2009

हवलदार रवि दत्ता (सं. 15365545डब्ल्यू अब जेसी-379260एच),  
01 नवम्बर 2009

हवलदार राम चन्द्रा (सं. 15358593एन अब जेसी-379261एल),  
01 नवम्बर 2009

नायब सूबेदार (एसकेटी) के रैंक में

हवलदार अरुण कुमार सिंह (सं. 14262961के अब जेसी-  
379124एम), 01 सितम्बर 2009

हवलदार शाहिद अंसारी (सं. 14262400पी अब जेसी-379193एच),  
15 सितम्बर 2009

हवलदार सत्यावीर सिंह (सं. 14259750डब्ल्यू अब जेसी-  
379327डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2009

हवलदार मलाय कुमार मंडल (सं. 14254626एल अब जेसी-379328वाई), 01 दिसम्बर 2009

हवलदार राजपाल सिंह (सं. 14261797ए अब जेसी-379329एफ), 01 दिसम्बर 2009

हवलदार अमित कुमार गुप्ता (सं. 14262691ए अब जेसी-379330डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2009

हवलदार बी सी मोहंती (सं. 14267717एन अब जेसी-379476वाई), 01 जनवरी 2010

ए वी बागुर  
अवर सचिव

वायु सेना

सं. 440, दिनांक 12 जुलाई 2010--माननीय राष्ट्रपति महोदया निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

भारतीय वायु सेना

स्क्वा. लीडर से विंग कमांडर के मूल रैंक पर

ए ई (एम) शाखा

ए एल हनवते (23931), एस एस सुद्धी, 26 अप्रैल 2009 से प्रभावी।

ए ई (एल) शाखा

ए के चौधरी (23933), 26 अप्रैल 2009 से प्रभावी।

संभारिकी शाखा

भागवत (20625), 16 जून 2008 से प्रभावी, (नोशनल सिनियरिटी दिनांक 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी)।

एन विजय कुमार  
विंग कमांडर  
संयुक्त निदेशक  
कार्मिक अफसर 3(डी)

रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग  
रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन

सं. 441, दिनांक 12 जुलाई 2010--राष्ट्रपति, सहर्ष रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन के निम्नलिखित अधिकारियों की पदोन्नति करते हैं :--

कार्यकारी एयर वाइस मार्शल से स्थायी एयर वाइस मार्शल

रैंक तथा नाम, मूल रैंक प्रदान किए जाने की तारीख

एवीएम एन डी शर्मा (14361) ए ई (एल), 23 अप्रैल 2009

कार्यकारी एयर कोमोडोर से स्थायी कोमोडोर

रैंक तथा नाम, मूल रैंक प्रदान किए जाने की तारीख

एयर कोमोडोर वाई राधाकृष्णा (16544) ए ई (एम), 17 अगस्त 2009

एन मारियप्पन  
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक)  
कृते महानिदेशक अनुसंधान एवं विकास

थल सेना शाखा

सं. 442, दिनांक 12 जुलाई 2010--राष्ट्रपति, भारत के राजपत्र में 17 जनवरी 2009 को प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना खण्ड-1, भाग-4, शीर्षक-नियमित सेना/स्थाई कमीशन व उप शीर्षक विंग कमाण्डर ग्रुप कैप्टन के रैंक में सहर्ष निम्नलिखित संशोधन करते हैं :--

के स्थान पर :

गिरीश चन्द्रा (एमआर-06290वाई) (एएफ-18050), 07 जुलाई 2008 को वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 27 दिसम्बर 2008 से दी जाती है।

पढ़ा जाए :

गिरीश चन्द्रा (एमआर-06290वाई) (एएफ-18050), 07 जुलाई 2008 को वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 27 दिसम्बर 2007 से दी जाती है।

यश पांडे  
ब्रिगे  
उप महानिदेशक स से चि से (मा सं)

## MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 21st August 2010

No. 436, dated 09 Jul 2010—The President is pleased to make the following promotions/appointments:—

To be appointed as following :—

No. 14450444 Mrs A John, SPS  
School of Arty, Devlali wef 01 Feb 2010.

A V BAGUR  
Under Secy

## ARMY BRANCH

No. 437, dated 9th Jul 2010—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY  
PERMANENT COMMISSION  
(ARMY MEDICAL CORPS)

GP CAPT (& Equivalent) to be Air CMDE (& Equivalent)

R K Bhattacharjee (MR-04051L) (15854)—24-09-09 with notional seniority without effect on pay & pensions from 22-09-09.

C K Ranjan (MR-04162H) (16015)—05-01-10 with notional seniority without effect on pay & pensions from 03-01-10.

YASH PANDE  
Brig  
Dy DGAFMS (HR)

## ARMY BRANCH

No. 438, dated 9th Jul 2010—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY  
PERMANENT COMMISSION

Lt Cols to be Sub Col (By Time Scale)

IC No, Rank, Name, Arm, Date of Subs Rank  
IC-40203M Lt Col Rajesh Datta, Inf, 19 Dec 2007  
IC-41149W Lt Col YY Shaikh, Inf, 18 Jun 2009  
IC-41756P Lt Col SJ Karade, Arty, 17 Dec 2009  
IC-41793H Lt Col MK Pai, Arty, 17 Dec 2009  
IC-41815W Lt Col HK Dubey, AEC, 17 Dec 2009  
IC-43643L Lt Col Kamendra Singh, Engrs, 18 Dec 2009  
IC-45016X Lt Col MM Uniyal, Inf, 26 Apr 2009

TK DAS  
Dy Dir  
MS 8A

## ARMY BRANCH

No. 439, dated 09 Jul 2010—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY  
ARMY SERVICE CORPS  
(MECHANICAL TRANSPORT/SUPPLY)

To be Sub Major (PA)

Sub Mohana Kumar AK (JC-642311M), 01 Feb 10

To be Sub Major (SKT)

Sub Tarlok Singh (JC-641379F), 05 Dec 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Dec 2009 without effect on pay and allowances)

To be Sub Major (MT)

Sub Kawar Singh (JC-662718K), 01 Jan 10

Sub Man Singh (JC-662757H), 01 Feb 10

Sub Raj Kishore (JC-662775L), 02 Feb 10\*

Sub Lakshmi Kanta Banerjee (JC-662751F), 01 Feb 10

\*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Feb 2010 without effect on pay and allowances)

Sub Shyam Lal (JC-662739A), 01 Feb 10

Sub Prem Singh (JC-662691X), 02 Dec 09\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Dec 2009 without effect on pay and allowances)

To be Sub Major/Subedar (RT)

Sub Phool Chandra Sharma (JC-144221F), 01 Jul 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Jul 2009 without effect on pay and allowances)

Sub Krishna Gopal (JC-140504L), 01 Aug 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Aug 2009 without effect on pay and allowances)

Sub Ram Pujan Pandey (JC-140502A), 24 Aug 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Aug 2009 without effect on pay and allowances)

Sub Ram Bhuwan Prasad Mishra (JC-133180M), 24 Aug 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Jan 2009 without effect on pay and allowances)

To be Sub (MT/SPL)

Naib Sub Raksh Pal Singh (JC-6654408X), 11 Jul 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Naib Sub Raj Kumar Singh (JC-661415H), 06 Apr 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2009 without effect on pay and allowances)

Naib Sub Bagra Ram Bishnoi (JC-664413H), 16 Jul 2009\*

Naib Sub Narayan Mishra (JC-664414L), 14 Jul 2009\*

Naib Sub JT Narayan (JC-664426A), 22 Jul 2009\*

Naib Sub Umeda Ram (JC-664424P), 15 Jul 2009\*

Naib Sub Lalan Singh (JC-664420Y), 12 Jul 2009\*

Naib Sub Sushil Kumar Chaubey (JC-664398Y), 13 Jul 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Naib Sub Harsh Vardhan (JC-664132M), 14 Jul 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2009 without effect on pay and allowances)

Naib Sub Bahadur Singh (JC-664425X), 11 Jul 2009\*

Naib Sub Kamla Kant Mishra (JC-664418F), 11 Jul 2009\*

Naib Sub Shish Ram Yadav (JC-664390M), 11 Jul 2009\*

Naib Sub Niranjana Biswas (JC-664409A), 13 Jul 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Naib Sub Hari Sankar (JC-663997M), 11 Jul 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Naib Sub Sudhir Kumar Shrestha (JC-664161F), 11 Jul 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 02 Dec 2008 without effect on pay and allowances)

Naib Sub Mahabir Prasad Patel (JC-664399F), 16 Jul 2009\*

Naib Sub Vijaya Krishan (JC-664395L), 03 Aug 2009\*

Naib Sub Ram Kishore Singh (JC-664341K), 18 Aug 2009\*

Naib Sub Poovaiah KC (JC-664337F), 25 Aug 2009\*

Naib Sub Damodar Thakur (JC-664364L), 17 Aug 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Naib Sub Baij Nath (JC-664929L), 17 Aug 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 24 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Naib Sub Ram Chandra Sah (JC-664327X), 18 Aug 2009\*

Naib Sub Vijai Kumar (JC-664346H), 17 Aug 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Naib Sub Hari Singh (JC-664326P), 18 Aug 2009\*

Naib Sub Rudal Prasad Yadav (JC-664429N), 20 Aug 2009\*

Naib Sub Hemraj Singh (JC-664434Y), 20 Aug 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Naib Sub Anjani Kumar Tiwari (JC-664928H), 19 Aug 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 24 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Naib Sub Tiralangi Simha Chalam (JC-664374P), 19 Aug 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2009 without effect on pay and allowances)

Naib Sub Ganpat Singh (JC-664328A), 19 Aug 2009\*

Naib Sub Jai Prakash Singh (JC-664430H), 22 Aug 2009\*

Naib Sub Bhupendra Giri (JC-664416W), 19 Aug 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Naib Sub Laish Ram Tomba Singh (JC-663582X), 19 Aug 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 02 Dec 2008 without effect on pay and allowances)

Naib Sub Lakshmi Kanta Sinha (JC-664405K), 19 Aug 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Naib Sub Nand Kishore (JC-664203H), 19 Aug 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2008 without effect on pay and allowances)

Naib Sub Akiwate Subhash Pandit (JC-664538A), 19 Aug 2009\*

Naib Sub Kedar Singh (JC-664384Y), 18 Aug 2009\*

Naib Sub Manibhadra Jena (JC-664406M), 25 Aug 2009\*

Naib Sub Pancham Singh (JC-664543L), 19 Aug 2009\*

Naib Sub Lakhan Lal (JC-664444H), 15 Aug 2009\*

Naib Sub Adalat Prasad Singh (JC-664336Y), 14 Aug 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Naib Sub Ashok Kumar Dubey (JC-664393A), 18 Aug 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2009 without effect on pay and allowances)

Naib Sub Lallan Pandey (JC-664581F), 15 Aug 2009\*

Naib Sub Ram Iqbal Singh (JC-664368F), 19 Aug 2009\*

Naib Sub Uma Shankar Singh (JC-664403Y), 17 Aug 2009\*

Naib Sub Fransis Jevier Bakhla (JC-664335W), 15 Aug 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Naib Sub Prasad Chandran Nair K (JC-664329H), 18 Aug 2009\*

Naib Sub Kedar Nath Choudhary (JC-664397W), 18 Aug 2009\*

Naib Sub Bali Ram (JC-664404F), 18 Aug 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Naib Sub Subrata Datta (JC-664507A), 18 Aug 2009\*

Naib Sub Shiv Pal (JC-664373M), 18 Aug 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2009 without effect on pay and allowances)

Naib Sub Devata Deen (JC-663870K), 17 Aug 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 02 Dec 2008 without effect on pay and allowances)

Naib Sub Sareeswar Lenka (JC-664450W), 15 Aug 2009\*

Naib Sub Kedar Singh (JC-664378L), 10 Aug 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2009 without effect on pay and allowances)

Naib Sub Gulab Chand (JC-664291K), 12 Aug 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2008 without effect on pay and allowances)

Naib Sub Ram Dev Jat (JC-664435F), 12 Aug 2009\*

Naib Sub Surendra Kumar Mishra (JC-664441P), 12 Aug 2009\*

Naib Sub Radhika RN Goswami (JC-664410P), 11 Aug 2009\*

Naib Sub Birendar Singh (JC-664339M), 09 Aug 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Naib Sub Dinesh Prasad Sah (JC-664375X), 15 Aug 2009\*

Naib Sub Nand Lal (JC-664370Y), 12 Aug 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2009 without effect on pay and allowances)

Naib Sub Ratnesh Singh (JC-664428L), 19 Aug 2009\*

Naib Sub Vijaya Kumar S (JC-664407P), 18 Aug 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Naib Sub Raj Karan Patel (JC-663313L), 18 Aug 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 02 Dec 2008 without effect on pay and allowances)

Naib Sub Hari Ram (JC-664449F), 18 Aug 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2009 without effect on pay and allowances)

Naib Sub Jeevandhar Narasai (JC-664459L), 19 Aug 2009\*

Naib Sub Binod Bihari Sethi (JC-664540X), 21 Aug 2009\*

Naib Sub Jawahar Sah (JC-664473X), 25 Aug 2009\*

Naib Sub Ramesh Singh (JC-664477N), 25 Aug 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2009 without effect on pay and allowances)

Naib Sub Shubhesh Kumar Thakur (JC-664431L), 11 Aug 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Naib Sub Tej Bahadur (JC-664201X), 22 Aug 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 02 Dec 2008 without effect on pay and allowances)

Naib Sub Ishwar Sharan (JC-664419K), 29 Aug 2009\*

Naib Sub Dhannu Sah (JC-664439X), 19 Aug 2009\*

Naib Sub Gyan Prakash (JC-664446N), 22 Aug 2009\*

Naib Sub Luna Ram Jat (JC-664333L), 19 Aug 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Naib Sub Ram Nath Singh (JC-664371F), 19 Aug 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2009 without effect on pay and allowances)

Naib Sub Sudarshan Prasad (JC-664367Y), 21 Aug 2009\*

Naib Sub Bipin Bihari Muduli (JC-664583M), 23 Aug 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Naib Sub Satyapal Singh Chauhan (JC-6636831), 27 Aug 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 02 Dec 2008 without effect on pay and allowances)

Naib Sub Satyavir Singh (JC-664388P), 17 Aug 2009\*

Naib Sub Lachit Chandra Das (JC-664389X), 28 Aug 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2009 without effect on pay and allowances)

Naib Sub Umendran V V (JC-664401N), 25 Aug 2009\*

Naib Sub Birendra Chandra Basumatary (JC-664402W), 24 Aug 2009\*

Naib Sub Devendra (JC-664412A), 17 Aug 2009\*

Naib Sub Muralidhar Sahoo (JC-664541A), 25 Aug 2009\*

Naib Sub Ganesh Chandar (JC-664542H), 01 Sep 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Naib Sub Kabi Charan Barad (JC-664422K), 17 Aug 2009\*

Naib Sub Nimase Shivaji Baburao (JC-664580Y), 01 Sep 2009\*

Naib Sub Chandra Dhwaja Rajkumar (JC-664582K), 18 Aug 2009\*

Naib Sub Raj Mani Prasad (JC-664433W), 25 Aug 2009\*

Naib Sub Manak Ram (JC-664436K), 29 Aug 2009\*

Naib Sub Radesh Prasad Dewedi (JC-664586A), 07 Sep 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Naib Sub Yadav Aoudumbar Nana Saheb (JC-664363H), 25 Aug 2009\*

Naib Sub Dinesh Prasad Singh (JC-664324K), 29 Aug 2009\*

Naib Sub Wakeel Kumar Singh (JC-664334N), 18 Aug 2009\*

Naib Sub Dalbir Singh (JC-664590H), 18 Aug 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Naib Sub Rohtash (JC-664369K), 31 Aug 2009\*

Naib Sub Shiv Pujan Singh (JC-664609W), 31 Aug 2009\*

Naib Sub Bhubaneswar Nath (JC-664466F), 17 Sep 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2009 without effect on pay and allowances)

Naib Sub Prakash Chand (JC-664423M), 25 Aug 2009\*

Naib Sub Nur Uddin Choudhary (JC-664432N), 25 Aug 2009\*

Naib Sub Mohamad Anwar Khan (JC-664585X), 28 Aug 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Naib Sub Gopal Prasad Thakur (JC-664453K), 26 Aug 2009\*

Naib Sub Radha Ballav (JC-664454M), 29 Aug 2009\*

Naib Sub Laxmi Dhar Samanta Raya (JC-664468M), 27 Aug 2009\*

Naib Sub Ramesh Chander (JC-664457A), 03 Sep 2009\*

Naib Sub Ramesh Kumar (JC-664461H), 03 Sep 2009\*

Naib Sub Ganesh Choudhary (JC-664591L), 25 Aug 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2009 without effect on pay and allowances)

Naib Sub Shankar Maidaragi (JC-664394H), 18 Aug 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2009 without effect on pay and allowances)

Naib Sub Vijay Kumar Tiwari (JC-664338K), 18 Aug 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Naib Sub Ram Kirpal (JC-664417Y), 17 Aug 2009\*

Naib Sub Sukh Pal (JC-664321W), 05 Sep 2009\*

Naib Sub Ravindra Nath Gautam (JC-664322Y), 22 Sep 2009\*

Naib Sub Gyanendra Mall (JC-664442X), 28 Aug 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Naib Sub Raghu Bir Singh (JC-664460A), 22 Aug 2009\*

Naib Sub Shiv Lal Baroodia (JC-664508H), 27 Aug 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2009 without effect on pay and allowances)

Naib Sub Ramesh Yadav (JC-664411X), 11 Sep 2009\*

Naib Sub Jai Kishor Tiwari (JC-66445L), 12 Sep 2009\*

Naib Sub Dhokal Ram Meghwal (JC-664345A), 16 Sep 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Naib Sub Ram Murti Singh Yadav (JC-664472P), 16 Sep 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2009 without effect on pay and allowances)

Naib Sub Shambhu Chaudhary (JC-664396N), 14 Sep 2009\*

Naib Sub Bhore Singh Kushwaha (JC-664332H), 18 Sep 2009\*

Naib Sub Saseendran B (JC-664342M), 14 Sep 2009\*

Naib Sub Rishal Singh (JC-664366W), 14 Sep 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Girija Prasad Patel (JC-664652X), 17 Sep 2009\*

Nb Sub Anant Ram (JC-664452F), 12 Sep 2009\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Jitendra Singh (JC-664323F), 15 Sep 2009\*

Nb Sub Santhosh Kumar (JC-664331A), 17 Sep 2009\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Mangli Charan Dash (JC-664456X), 16 Sep 2009\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Bandi Sreenivasa Reddy (JC-664474A), 15 Sep 2009\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2009 without effect on pay and allowances)

- Nb Sub Vijay Kumar (JC-664589N), 08 Aug 2009\*
- Nb Sub Munim Kumar Ram (JC-664588L), 07 Sep 2009\*
- Nb Sub Hari Singh (JC-664437M), 16 Sep 2009\*
- Nb Sub Padmeswar Gogoi (JC-664584P), 28 Sep 2009\*
- Nb Sub Suw Prasad Saw (JC-664347L), 24 Sep 2009\*
- \*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)
- Nb Sub Keshar Singh (JC-664467K), 13 Sep 2009\*
- \*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2009 without effect on pay and allowances)
- Nb Sub Nar Singh Narayan Dubey (JC-664475H), 16 Sep 2009\*
- \*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2009 without effect on pay and allowances)
- Nb Sub Lallan Ram (JC-664447W), 19 Sep 2009\*
- \*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)
- Nb Sub Gopal Ji Choudhary (JC-664653A), 07 Oct 2009\*
- \*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2009 without effect on pay and allowances)
- Nb Sub Kamal Mandal (JC-664930A), 30 Sep 2009\*
- \*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 02 Dec 2008 without effect on pay and allowances)
- Nb Sub Hari Bansh Prasad (JC-664400L), 30 Sep 2009\*
- Nb Sub Ravi Shankar Ram (JC-664344X), 29 Sep 2009\*
- \*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)
- Nb Sub Shaik Peer Ahammad (JC-664469P), 03 Oct 2009\*
- Nb Sub Karam Bir Singh (JC-664462L), 01 Oct 2009\*
- \*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2009 without effect on pay and allowances)
- Nb Sub Jawahar Prasad (JC-664440M), 15 Oct 2009\*
- \*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)
- Nb Sub Parsu Ram Singh (JC-664372K), 20 Oct 2009\*
- \*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2009 without effect on pay and allowances)
- Nb Sub Chandra Deo Yadava (JC-664455P), 14 Oct 2009\*
- Nb Sub Brij Nandan Prasad (JC-665048Y), 08 Oct 2009\*
- Nb Sub Narain Lal Regar (JC-664677K), 24 Oct 2009\*
- Nb Sub Gopal Singh (JC-664678M), 16 Oct 2009\*
- Nb Sub Pravakar Bal (JC-664611N), 18 Oct 2009\*
- Nb Sub Praveen Singh (JC-664654H), 19 Oct 2009\*
- Nb Sub Amir Chand Singh (JC-664612W), 15 Oct 2009\*
- Nb Sub Satyendra Kumar Tiwari (JC-664613Y), 21 Oct 2009\*
- Nb Sub Sudhir Kumar Singh (JC-664614F), 16 Oct 2009\*
- \*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2009 without effect on pay and allowances)
- Nb Sub Pratap Singh (JC-664617P), 26 Oct 2009\*
- Nb Sub Ganpat Singh (JC-664619A), 19 Oct 2009\*
- Nb Sub Girja Shankar Sharma (JC-664620P), 12 Oct 2009\*
- Nb Sub Byomkesh Pradhan (JC-664622A), 16 Oct 2009\*
- Nb Sub Ram Dulare (JC-664625N), 13 Oct 2009\*
- Nb Sub Binod Kumar (JC-664659F), 14 Oct 2009\*
- Nb Sub Lila Ram Yadav (JC-664627Y), 13 Oct 2009\*
- Nb Sub Devanand Namdeo Rao (JC-664621X), 13 Oct 2009\*
- Nb Sub Shri Rang Vitthal Ghode (JC-664632K), 14 Oct 2009\*
- Nb Sub Pravin Pathak (JC-664633M), 13 Oct 2009\*
- \*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2009 without effect on pay and allowances)
- Nb Sub Shive Bhajan (JC-664634P), 13 Oct 2009\*
- Nb Sub Krushna Chandra Sahu (JC-664635X), 27 Oct 2009\*
- Nb Sub Ravindra Nath Chouhan (JC-664637H), 13 Oct 2009\*
- \*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)
- Nb Sub Mahendra Upadhyay (JC-665116F), 26 Oct 2009\*
- \*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2009 without effect on pay and allowances)
- Nb Sub Nimba Ram Dheru (JC-664630Y), 06 Nov 2009\*
- \*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2009 without effect on pay and allowances)
- Nb Sub Suresh Chandra (JC-664642N), 09 Nov 2009\*
- \*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2009 without effect on pay and allowances)
- Nb Sub Kaushal Kishore Yadav (JC-664451Y), 27 Oct 2009\*
- \*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2009 without effect on pay and allowances)
- Nb Sub Chhedhari Rai (JC-664592N), 02 Nov 2009\*
- Nb Sub Kailash Kumar (JC-664593W), 01 Nov 2009\*
- \*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2009 without effect on pay and allowances)



Nb Sub Bholanath Maurya (JC-664638L), 04 Nov 2009\*  
 \*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Arun Kumar Singh (JC-664679P), 01 Nov 2009\*

Nb Sub Sailendranath Ghosh (JC-664668H), 04 Nov 2009\*

Nb Sub Akhil Chandra Ghosh (JC-664672L), 04 Nov 2009\*

Nb Sub Babu Lal (JC-664680K), 03 Nov 2009\*

Nb Sub Ram Pal (JC-664681M), 01 Nov 2009\*

Nb Sub Ram Mohan (JC-664682P), 03 Nov 2009\*

Nb Sub Borra Vena Venkaeswara (JC-664683X), 03 Nov 2009\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Shiv Shanker Shah Gupta (JC-664470K), 26 Oct 2009\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Arun Kumar (JC-664365N), 27 Aug 2009\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Rajen Chandra Dutta (JC-664662F), 03 Nov 2009\*

Nb Sub Ramesh (JC-664675Y), 02 Nov 2009\*

Nb Sub Mahendra Singh (JC-664931H), 05 Nov 2009\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2009 without effect on pay and allowances)

To be Nb Sub (MT/Spl)

Hav Suresh Chandra (No. 13898062P now JC-665896X), 15 Apr 2009\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Mukhtyar Singh (No. 13895932W now JC-665892F), 17 Apr 2009\*

Hav Shivanand Yalamar K K (No. 13894985H now JC-665894M), 27 May 2009\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Suresh Kumar Singh (No. 13894739X now JC-665898H), 10 Apr 2009\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Ashivini Kumar (No. 13896122A now JC-665911F), 27 May 2009\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Vijay Singh (No. 13898318M now JC-665910Y), 28 May 2009\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 07 Mar 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Ajab Singh (No. 13895950Y now JC-665907Y), 27 May 2009\*

Hav Madan (No. 15351082F now JC-665909K), 30 May 2009\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Khot Vilas Sauba (No. 13887793H now JC-665906W), 25 May 2009\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 21 Feb 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Swapan Kumar Pal (No. 13898112P now JC-665913M), 28 May 2009\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Kishore Kumar Parmarkar (No. 13898110K now JC-665908F), 03 Jun 2009\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Shiv Shankar Prasad (No. 13898182N now JC-665912K), 06 Jun 2009\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Ram Prasad (No. 13897554F now JC-665914P), 15 Jun 2009\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 21 Feb 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Nok Ram Dara (No. 13898161X now JC-665917H), 09 Jun 2009\*

Hav Bala Chandran R (No. 13896252H now JC-665920H), 09 Jun 2009\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Anil Kumar Majumdar (No. 15355918L now JC-665915X), 15 Jun 2009\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 21 Feb 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Gopal Chandra Das (No. 13898225X now JC-665923W), 12 Jun 2009\*

Hav Bhim Narayan Yadav (No. 13896207W now JC-665919N), 08 Jun 2009\*

Hav Ajaya Kumar Sharma (No. 13896457X now JC-665921L), 08 Jun 2009\*

Hav Satya Narayan (No. 13898358N now JC-665918L), 09 Jun 2009\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Jaibir Singh (No. 13896191W now JC-665750K), 25 Apr 2009\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Mole Muttanna Ningappa (No. 15357276A now JC-665941Y), 08 Jul 2009\*

Hav Nagendra Nath Singh (No. 13897712L now JC-665943K), 07 Jul 2009\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Lalita Patro (No. 13891519H now JC-665926K), 07 Jul 2009\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 18 Apr 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Hameed (No. 13898190M now JC-665936N), 06 Jul 2009\*

Hav Upendra Ray (No. 13896106H now JC-665932X), 08 Jul 2009\*

Hav Vijay Shankar (No. 15351908K now JC-665939F), 07 Jul 2009\*

Hav Satyendra Pathak (No. 13896082K now JC-665935L), 06 Jul 2009\*

Hav Shiv Nandan Yadav (No. 13897291N now JC-665928P), 07 Jul 2009\*

Hav Om Prakash Tiwari (No. 13898079H now JC-665929X), 10 Jul 2009\*

Hav Rohitaswa Yadav (No. 13897552W now JC-665937W), 08 Jul 2009\*

Hav Gur Singh (No. 13896254N now JC-665934H), 09 Jul 2009\*

Hav Ch Chinnasubbaiah (No. 13898124K now JC-665942F), 09 Jul 2009\*

Hav Ballappa KN (No. 13896470F now JC-665940W), 11 Jul 2009\*

Hav Azad Sah (No. 13897768X now JC-665938Y), 07 Jul 2009\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Hav M M Bhai Ganda (No. 13896268N now JC-665922N), 10 Jul 2009\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Ashok Kumar Das (No. 13896273Y now JC-665930M), 03 Jul 2009\*

Hav Depak Kumar Jodder (No. 13896283H now JC-665933A), 08 Jul 2009\*

Hav Rajendra Prasad (No. 15359308W now JC-665931P), 09 Jul 2009\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Kishan Rao Piparde (No. 13896185H now JC-665916A), 12 Jun 2009\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Gusain Singh Mer (No. 13896278X now JC-665988K), 10 Jul 2009\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Nahar Singh Jat (No. 13895193P now JC-665989M), 30 Jul 2009\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Suresh Prasad (No. 13895946W now JC-665990F), 21 Aug 2009\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 18 Apr 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Manoj Kumar Singh (No. 13898220Y now JC-665991K), 18 Aug 2009\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 23 Jul 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Gayani Ray (No. 15359312Y now JC-665992M), 25 Aug 2009\*

Hav Ashok Kumar Singh (No. 13887699Y now JC-665993P), 18 Aug 2009\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Kirpal Singh (No. 13895904K now JC-665994X), 18 Aug 2009\*

Hav Surendra Singh (No. 13898241P now JC-665995A), 19 Aug 2009\*

Hav Ajay Kumar (No. 13896289K now JC-665996H), 18 Aug 2009\*

Hav Anar Singh (No. 13896463L now JC-665997L), 22 Aug 2009\*

Hav Prafull Chandra Shukla (No. 13896239Y now JC-665998N), 19 Aug 2009\*

Hav Ashok Kumar (No. 13896311K now JC-665999W), 19 Aug 2009\*

Hav Madan Pal Singh (No. 13895746A now JC-666000X), 18 Aug 2009\*

Hav Ghan Shyam Singh (No. 13894557K now JC-666001A), 19 Aug 2009\*

Hav Birender Singh (No. 15359401X now JC-666002H), 20 Aug 2009\*

Hav Ram Ratan Singh Upreti (No. 13896318N now JC-666003L), 18 Aug 2009\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Ashok Singh (No. 13895352F now JC-666004N), 27 Aug 2009\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Ide Bhima Laxman (No. 13896234A now JC-666005W), 04 Sep 2009\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Swapan Kumar Mandal (No. 13896284L now JC-666006Y), 01 Sep 2009\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Ram Dhyan Singh (No. 13898275H now JC-666007F), 05 Sep 2009\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Jitendra Kumar Tiwari (No. 13896388M now JC-666018N), 18 Sep 2009\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Satpaul Singh (No. 13896422F now JC-666019W), 16 Sep 2009\*

Hav Singatala B Gurvi Reddy (No. 15359416A now JC-666020L), 07 Sep 2009\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Bhagwati Prasad Joshi (No. 13898128A now JC-666021M), 05 Sep 2009\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 04 Jul 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Shyam Narain Prasad (No. 13896215P now JC-666022W), 16 Sep 2009\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Bhlola Roy (No. 13896257M now JC-666023Y), 14 Sep 2009\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Jaivir Singh (No. 13895730P now JC-666024F), 05 Sep 2009\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 04 Jul 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Ikrammuddin (No. 13896187N now JC-666025K), 23 Sep 2009\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Pancha Nand Rai (No. 13898277N now JC-666026M), 25 Sep 2009\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Ram Bilas Yadava (No. 13896384W now JC-666027P), 19 Sep 2009\*

Hav Lallan Prasad Maurya (No. 15359494X now JC-666028X), 22 Sep 2009\*

Hav Ashok Kumar Yogi (No. 13896403W now JC-666029A), 22 Sep 2009\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Subhash Kumar Pandey (No. 13898581X now JC-666030P), 23 Sep 2009\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 11 May 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Prithvi Raj (No. 15357468X now JC-666031X), 23 Sep 2009\*

Hav Shobh Nath (No. 13896109W now JC-666032A), 22 Sep 2009\*

Hav Suresh Chand Sharma (No. 13896379L now JC-666033H), 23 Sep 2009\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Nand Kishore Rai (No. 13898406H now JC-666034L), 23 Sep 2009\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Bhagwat Prasad (No. 4558585X now JC-665987F), 23 Dec 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 23 Dec 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Om Prakash Pandey (No. 13896421Y now JC-666046A), 21 Aug 2009\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Chhabi Ram Sinha (No. 15351812F now JC-666047H), 23 Sep 2009\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 04 Jul 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Anand Prakash (No. 13896213K now JC-666048L), 19 Aug 2009\*

Hav Surmukh Singh (No. 13896417W now JC-666049N), 23 Sep 2009\*

Hav Nishan Singh (No. 13896465W now JC-666050H), 29 Sep 2009\*

Hav Shaji Lal AK (No. 15359331K now JC-666051L), 29 Sep 2009\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Sunkari Venkateswarlu (No. 13898524W now JC-666052N), 29 Sep 2009\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Rampal (No. 13898522L now JC-666053W), 29 Sep 2009\*

Hav Om Prakash Singh (No. 13898334K now JC-666054Y), 14 Sep 2009\*

Hav Uma Shankar (No. 13896375P now JC-666055F), 9 Sep 2009\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Rakesh Kumar (No. 13898363Y now JC-666056K), 9 Sep 2009\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Ramesh Chand Yadav (No. 13896377A now JC-666057M), 25 Sep 2009\*

Hav Jagdish Prasad Ahirwar (No. 13896425P now JC-666058P), 26 Sep 2009\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Kedar Nath Tiwary (No. 15359500A now JC-666059X), 23 Sep 2009\*

Hav Swarna Venkateswarlu (No. 13898523N now JC-666060M), 22 Sep 2009\*

Hav Rekha Ram Jat (No. 15359582N now JC-666061P), 16 Sep 2009\*

Hav Sita Ram Prasad (No. 13898385X now JC-666062X), 18 Oct 2009\*

Hav Ajit Kumar Nath (No. 15359546H now JC-666063A), 11 Oct 2009\*

Hav Jai Prakash (No. 13896400H now JC-666064H), 10 Sep 2009\*

Hav Mehera Chhota Bhai Jena (No. 13898391L now JC-666065L), 07 Oct 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Shyam Sunder Choubey (No. 13896324F now JC-666066N), 06 Oct 2009\*

Hav Ardhandhu Kumar DE (No. 13897190A now JC-666067W), 07 Oct 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Radhey Shyam Mishra (No. 15359493P now JC-666068Y), 08 Oct 2009\*

Hav Ram Pratap Nager (No. 13898221F now JC-666069F), 17 Oct 2009\*

Hav Thakur Din Verma (No. 13896312M now JC-666070W), 07 Oct 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Surender Singh (No. 13898374L now JC-666071Y), 07 Oct 2009\*

Hav Mohar Singh (No. 13898375N now JC-666072F), 08 Oct 2009\*

Hav Ajay Kumar (No. 13898384P now JC-666073K), 09 Oct 2009\*

Hav Suresh KB (No. 13896427A now JC-666074M), 09 Oct 2009\*

Hav M Madava Rao (No. 13898416M now JC-666075P), 14 Oct 2009\*

Hav Suresh Kumar B (No. 13896444A now JC-666076X), 08 Oct 2009\*

Hav Manoranjan Prasad Singh (No. 13898462F now JC-666077A), 06 Oct 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Dalbir (No. 13895845H now JC-666078H), 26 Oct 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Brijesh Kumar Singh (No. 13898274A now JC-666079L), 16 Oct 2009\*

Hav Ram Shai Gurjar (No. 13898331W now JC-666080A), 16 Oct 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Bhanwar Lal (No. 15359584Y now JC-666081H), 21 Oct 2009\*

Hav Jata Shankar Sah (No. 13898533X now JC-666082L), 16 Oct 2009\*

Hav Lalit Mohan Makholiya (No. 15359731W now JC-666083N), 15 Oct 2009\*

Hav Rajbir (No. 13898450M now JC-666084W), 18 Oct 2009\*

Hav Anand Kumar (No. 13898453A now JC-666085Y), 15 Oct 2009\*

Hav Prem Singh (No. 13898458Y now JC-666086F), 15 Oct 2009\*

Hav Jaibir (No. 13896475A now JC-666087K), 13 Oct 2009\*

Hav Som Raj (No. 13896633K now JC-666088M), 20 Oct 2009\*

Hav Anil Kumar KP (No. 15359724A now JC-666089P), 16 Oct 2009\*

Hav Vijay Pal Singh (No. 13898472L now JC-666090K),  
18 Oct 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep  
2009 without effect on pay and allowances)

Hav Mohmad Illias Khan (No. 13898244H now JC-  
666091M), 19 Oct 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May  
2009 without effect on pay and allowances)

Hav Susanta Mandal (No. 13896282A now JC-666092P),  
15 Oct 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug  
2009 without effect on pay and allowances)

Hav Prem Chand Singh (No. 13898443W now JC-  
666093X), 26 Oct 2009\*

Hav Bhupendera Narayan Sahi (No. 13898456N now JC-  
666094A), 16 Oct 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 04 Jul  
2009 without effect on pay and allowances)

Hav Sambhu Sah (No. 13896359X now JC-667006L),  
06 Oct 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug  
2009 without effect on pay and allowances)

Hav N Thamizharasu (No. 13898465P now JC-667007N),  
30 Oct 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep  
2009 without effect on pay and allowances)

Hav Lala Ram (No. 13898153Y now JC-667008W), 31 Oct  
2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar  
2009 without effect on pay and allowances)

Hav Ashok Kumar Ojha (No. 13891261A now JC-  
667009Y), 07 Nov 2009\*

Hav Baljit Singh (No. 15356839H now JC-667010N),  
03 Nov 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 22 Aug  
2009 without effect on pay and allowances)

Hav Munna Prasad (No. 13898506N now JC-667011W),  
08 Nov 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov  
2009 without effect on pay and allowances)

Hav Ambiga Pathy (No. 13895908A now JC-667012Y),  
08 Nov 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 22 Aug  
2009 without effect on pay and allowances)

Hav Sugriv Singh (No. 13898312L now JC-667013F),  
11 Nov 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov  
2009 without effect on pay and allowances)

#### To be Subedar Major (Religious Teacher)

Sub Diwakar Shukla (JC-140505N), 24 Sep 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Aug  
2009 without effect on pay and allowances)

Sub Shitla Prasad Shukla (JC-144220Y), 01 Aug 2009

Sub Ram Bihari Dwivedi (JC-140503H), 20 Jan 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 11 Sep  
2009 without effect on pay and allowances)

#### To be Subedar ((Religious Teacher)

Nb Sub Krishna Kant Singh (JC-661416L), 25 Sep 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2009  
without effect on pay and allowances)

Nb Sub Balmiki Tiwari (JC-661419Y), 07 Nov 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2009  
without effect on pay and allowances)

Nb Sub Ved Prakash (JC-661572P), 01 Feb 2010\*

Nb Sub Ashok Kumar Thakur (JC-661573X), 18 Feb 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2010  
without effect on pay and allowances)

Nb Sub Dharendra Kumar (JC-724288W), 02 Mar 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2010  
without effect on pay and allowances)

#### To be Naib Subedar (Religious Teacher)

Naik Rajesh Kumar Mishra (No. 15128914F now JC-  
666035N), 15 Nov 2008

Cfn Kapil Muni Pandey (No. 14658325M now JC-  
666036W), 15 Nov 2008

Recruit Shrendra Kumar Pandey (No. 665488M now JC-  
665488M), 15 Nov 2008

Recruit Suresh Kumar Upadhyay (No. 665489P now JC-  
665489P), 15 Nov 2008

Cfn Umesh Mani Tiwari (No. 14654427L now JC-  
665986Y), 14 Nov 2009

Sepoy Mohan Dwivedi (No. 13987800H now JC-668073H),  
14 Nov 2009

Recruit Md Abul Kalam (No. 666037Y now JC-666037Y),  
14 Nov 2009

Recruit Rishi Kant Shukla (No. 666038F now JC-666038F),  
30 Jan 2010

Sepoy Kamakhya Narayan (No. 13991605H now JC-  
667109K), 30 Jan 2010

SPR Lachhman Singh (No. 15566562M now JC-667110Y),  
30 Jan 2010

## REGIMENT OF ARTILLERY

To be Substantive Subedar Major (GD)

Sub Ram Awadh Singh (JC-261756A), 22 May 2009/01 Mar 2009\*

Sub Lakhwinder Singh (JC-261482A), 14 Nov 2009/01 Mar 2009\*

Sub Chandra Prakash (JC-262032P), 22 Aug 2009/01 Mar 2009\*

Sub Sheo Kumar Tiwari (JC-263443A), 01 Aug 2009

Sub Basant Singh (JC-263675Y), 29 Sep 2009/01 Sep 2009\*

Sub Katara Babasaheb Pandurang (JC-263022X), 30 Oct 2009/01 Oct 2009\*

Sub Deb Singh Bhandari (JC-260949N), 28 Oct 2009/01 Oct 2009\*

Sub Sukhwinder Singh (JC-262989N), 10 Oct 2009/01 Oct 2009\*

Sub Jagbir Singh (JC-262123Y), 02 Oct 2009/01 Oct 2009\*

Sub Prodip Chetia (JC-261431M), 01 Nov 2009

Sub Sumer Singh Rajput (JC-262473L), 08 Aug 2009/01 Jul 2009\*

Sub Darshan Kumar (JC-262908H), 08 Oct 2009/01 Oct 2009\*

Sub Jagphul (JC-265321P), 04 Nov 2009/01 Oct 2009\*

Sub Narendra Kumar (JC-263198H), 03 Dec 2009/01 Dec 2009\*

Sub Harbhajan Singh (JC-264898F), 04 Sep 2009/01 Sep 2009\*

Sub Rana Pratap Singh (JC-264951H), 12 Oct 2009/01 Oct 2009\*

Sub Deba Prasad Halder (JC-263698A), 02 Dec 2009/01 Dec 2009\*

Sub Arvind Kumar (JC-264102F), 04 Dec 2009/01 Dec 2009\*

Sub Ramesh Chand (JC-263483F), 03 Oct 2009/01 Oct 2009\*

Sub Yugal Kishore (JC-262683L), 01 Nov 2009

Sub Sree Kumar KG (JC-263762M), 28 Oct 2009/01 Oct 2009\*

Sub Shiv Prasad Yadav (JC-265400K), 14 Nov 2009/01 Oct 2009\*

Sub Rameshwar Dayal (JC-263341K), 20 Aug 2009/01 Jul 2009\*

Sub Hakim Singh (JC-260714F), 21 Dec 2009/01 Dec 2009\*

Sub Sri Prasad Mohanta (JC-261994M), 24 Dec 2009/01 Dec 2009\*

Sub Paramjit Singh (JC-265351M), 03 Dec 2009/01 Dec 2009\*

Sub Lal Bahadur (JC-263439X), 03 Aug 2009/01 Jul 2009\*

Sub Krishan Kumar Tripathi (JC-260970W), 02 Dec 2009/01 Dec 2009\*

Sub Namo Narayan Pandey (JC-261265K), 04 Jan 2010/01 Dec 2009\*

Sub Taware Balasaheb Baburao (JC-262748N), 12 Dec 2009/01 Oct 2009\*

Sub Raj Kumar (JC-264400X), 05 Aug 2009/01 Aug 2009\*

Sub Subhas Chander (JC-264651F), 01 Oct 2009

Sub Mohinder Kumar (JC-261170K), 01 Nov 2009

Sub Francis Kujur (JC-263498K), 01 Sep 2009

Sub Niras Jha (JC-262300N), 30 Oct 2009/01 Oct 2009\*

Sub Balwinder Singh (JC-264052F), 01 Feb 2010/01 Nov 2009\*

Sub T Reddeppa Reddy (JC-262505H), 08 Feb 2010/01 Feb 2010\*

Sub Jang Bahadur Singh Bakshi (JC-263535M), 21 Dec 2009/01 Dec 2009\*

Sub PC Bigendra (JC-263618X), 16 Feb 2010/01 Feb 2010\*

Sub Gupat Singh (JC-261982X), 04 Jul 2009/01 Jun 2009\*

Sub Balbir Singh (JC-262026F), 12 Feb 2010/01 Jan 2010\*

To be Substantive Subedar Major (AIG)

Sub Gyanendra Kumar Tiwari (JC-257758N), 26 Oct 2009/01 Oct 2009\*

To be Substantive Subedar (AIG)

Nb Sub Parampal Singh (JC-268984L), 06 Jul 2009/01 Dec 2008\*

Nb Sub Manoj Kumar (JC-269453A), 01 Aug 2009

Nb Sub Pritam Singh (JC-268306L), 26 Oct 2009/27 Jul 2009\*

Nb Sub Jagne Ram Govind Ramji (JC-269945Y), 01 Aug 2009

Nb Sub Sham Kumar (JC-269455L), 01 May 2009

Nb Sub Patel Hitesh Kumar K (JC-269451P), 02 Jul 2009/01 Jul 2009\*

Nb Sub Harvinder Singh (JC-269950K), 04 Jan 2010/01 Jan 2010\*

Nb Sub Arvind Kumar (JC-270076F), 04 Jan 2009/01 Jan 2010\*

Nb Sub Nitya Nand Dubey (JC-268308W), 01 Jan 2010

Nb Sub Kota Sambasiva Rao (JC-262581P), 04 Jan 2010/01 Jan 2010\*

Nb Sub V Prasanna Kumar (JC-270421K), 20 Jan 2010/01 Jan 2010\*

Nb Sub Rajesh O (JC-269942L), 01 Jan 2010

Nb Sub Desraj (JC-270075Y), 11 Jan 2010/01 Dec 2009\*

Nb Sub Ramdhan (JC-270078M), 01 Feb 2010

Nb Sub Shaji Antony (JC-266507L), 09 Jan 2010/01 Oct 2008\*

Nb Sub Surendra Singh (JC-269947K), 09 Jan 2010/01 Jan 2010\*

Nb Sub Pardeep Kumar (JC-270420F), 12 Jan 2010/01 Jan 2010\*

To be Substantive Subedar (Musician)

Nb Sub MD Bodroddoza (JC-268827Y), 27 Jan 2010/01 Jan 2010\*

Nb Sub Multan Singh (JC-271469K), 27 Jan 2010/01 Jan 2010\*

(Gtd seniority wef)

To be Substantive Subedar Major (RT)

Sub Ram Achal Pandey (JC-142714K), 01 Jan 2009

Sub Vijay Prasad Kimothi (JC-142723L), 01 Feb 2009

Sub Prem Ballabh Pant (JC-142731K), 02 Feb 2009/01 Feb 2009\*

Sub Bal Mukund Dwivedi (JC-142724N), 02 Apr 2009/01 Mar 2009\*

Sub Rakesh Prasad Dwivedi (JC-142725W), 01 Apr 2009/01 Mar 2009\*

Sub Naveen Chandra Pant (JC-137667N), 01 Jul 2009/01 Aug 2008\*

Sub Satya Narayan Sharma (JC-149767L), 18 Jul 2009/01 Nov 2008\*

To be Substantive Subedar (RT)

Nb Sub Lal Mani Shukla (JC-260466W), 01 Dec 2008

Nb Sub Shibeshwar Kumar (JC-260465N), 21 Feb 2009/01 Feb 2009\*

Nb Sub Hari Prakash Mishra (JC-260556X), 09 Apr 2009/01 Mar 2009\*

Nb Sub Rajeev Kant Jha (JC-260553K), 13 Apr 2009/01 Apr 2009\*

Nb Sub Kaushlendra Saran Mishra (JC-260555P), 08 Jun 2009/01 Jun 2009\*

Nb Sub Devi Dayal Pandey (JC-260554M), 01 Jul 2009

Nb Sub Santokh Singh (JC-260557A), 04 Aug 2009/01 Aug 2009\*

To be Substantive Naib Subedar (RT)

Denesh Chander Tripathi (JC-270275P), 08 Sep 2007

Yad Ram Sharma (JC-270276X), 08 Sep 2007

Dalwinder Singh (JC-270274M), 08 Sep 2007

Prem Singh (JC-270277A), 08 Sep 2007

Krishna Shankar Dwivedi (JC-270522X), 01 Dec 2007

Rajinder Pal Singh (JC-270523A), 01 Dec 2007

Ravi Kumar (JC-270524H), 01 Dec 2007

Harish Kumar Upadhyay (JC-271028N), 20 Mar 2008

Gaya Prasad Sharma (JC-271528L), 06 Sep 2008

Ashutosh Kumar Tiwari (JC-271529N), 06 Sep 2008

Mathura Prasad (JC-271530H), 06 Sep 2008

Ajay Kumar Dubey (JC-271531L), 06 Sep 2008

Ashvini Kumar (JC-271532N), 06 Sep 2008

Lal Mani (JC-271760W), 15 Nov 2008

Amboj Kumar Rai (JC-271761Y), 15 Nov 2008

(Gtd seniority wef)

To be Substantive Subedar (GD)

Nb Sub Subhash Krishnarao Shirke (JC-270499P), 20 Oct 2009/20 Aug 2009\*

Nb Sub V John Kennedy (JC-270504P), 05 Nov 2009/20 Aug 2009\*

Nb Sub Pikkili Subbarayudu (JC-270533K), 14 Oct 2009/20 Aug 2009\*

Nb Sub Harjinder Singh (JC-271522K), 03 Nov 2009/15 Aug 2009\*

Nb Sub Tilak Raj (JC-260822Y), 01 Nov 2009/21 Aug 2009\*

Nb Sub Diwan Singh (JC-271395A), 25 Oct 2009/20 Aug 2009\*

Nb Sub Madhukar Nanu Khambe (JC-270884Y), 01 Oct 2009/20 Aug 2009\*

Nb Sub Ranjit Singh Rathore (JC-270508L), 06 Oct 2009/20 Aug 2009\*

Nb Sub Prem Kumar T (JC-270300H), 11 Nov 2009/20 Aug 2009\*

Nb Sub Khalil Ahmed Khan (JC-261306W), 15 Oct 2009/15 Aug 2009\*

Nb Sub Prasanta Kr Hazarika (JC-270664P), 29 Sep 2009/15 Aug 2009\*

Nb Sub Ramesh Singh (JC-271032W), 28 Oct 2009/01 Oct 2009\*

Nb Sub Kewal Singh (JC-270789M), 23 Sep 2009/01 Aug 2009\*

Nb Sub Anil Kumar KP (JC-270474H), 20 Oct 2009/01 Aug 2009\*

Nb Sub Maddineni Sreenivasa Rao (JC-270867Y), 20 Oct 2009/01 Aug 2009\*

Nb Sub Thirth Nath Yadav (JC-271582Y), 22 Oct 2009/01 Aug 2009\*

Nb Sub Gurmukh Singh (JC-271379H), 01 Aug 2009

Nb Sub Shaik Ahmad Vali (JC-271612L), 01 Nov 2009/01 Aug 2009\*

Nb Sub Radhe Shyam Maurya (JC-271238N), 21 Sep 2009/01 Aug 2009\*

Nb Sub Vijendar Singh (JC-270941P), 26 Oct 2009/08 Aug 2009\*

Nb Sub Dhanpati (JC-270891P), 26 Oct 2009/08 Aug 2009\*

Nb Sub Bipul Chandra Nath (JC-271160N), 29 Sep 2009/10 Aug 2009\*

Nb Sub Ravendra Singh (JC-270698H), 31 Oct 2009/28 Aug 2009\*

Nb Sub Suram Singh (JC-271050Y), 25 Oct 2009/21 Aug 2009\*

Nb Sub Shashi Bhushan Sharma (JC-271969P), 25 Oct 2009/21 Aug 2009\*

Nb Sub Gurbhej Singh (JC-271630N), 01 Nov 2009/22 Aug 2009\*

Nb Sub Gopinath VK (JC-270760K), 27 Nov 2009/24 Aug 2009\*

Nb Sub Jaswant Singh Jat (JC-269128A), 09 Oct 2009/25 Aug 2009\*

Nb Sub KM Vickaraman (JC-270013Y), 09 Nov 2009/25 Aug 2009\*

Nb Sub Gurmeet Singh (JC-270429W), 11 Oct 2009/25 Aug 2009\*

Nb Sub Umed Singh (JC-270641N), 09 Oct 2009/25 Aug 2009\*

Nb Sub Rajendra Singh (JC-271410K), 05 Oct 2009/25 Aug 2009\*

Nb Sub Dayalan S (JC-271624A), 03 Nov 2009/25 Aug 2009\*

Nb Sub Man Singh (JC-270816L), 18 Oct 2009/27 Aug 2009\*

Nb Sub Triloki Prasad Mishra (JC-270791K), 31 Oct 2009/25 Aug 2009\*

Nb Sub Ramesh Chander (JC-269377Y), 03 Nov 2009/30 Aug 2009\*

Nb Sub M Athinarayanan (JC-270990X), 23 Oct 2009/31 Aug 2009\*

Nb Sub Bhanwar Singh (JC-271052K), 06 Nov 2009/31 Aug 2009\*

Nb Sub Smail Raj (JC-271421W), 30 Oct 2009/31 Aug 2009\*

Nb Sub Kedar Singh (JC-271769L), 10 Oct 2009/31 Aug 2009\*

Nb Sub Madan Singh Rathore (JC-271459A), 06 Nov 2009/31 Aug 2009\*

Nb Sub Balwinder Singh (JC-269992W), 09 Dec 2009/01 Sep 2009\*

Nb Sub Jai Prakash Rai (JC-270164X), 29 Oct 2009/18 Sep 2009\*

Nb Sub Kulwant Singh (JC-266386P), 29 Oct 2009/01 Oct 2009\*

Nb Sub Jarnail Singh (JC-268815K), 08 Sep 2009/01 Aug 2009\*

Nb Sub Vikram Singh Shahi (JC-270959L), 24 Sep 2009/19 Aug 2009\*

Nb Sub Patel Anil Kumar Arjun Bhai (JC-269994F), 30 Apr 2009/01 Mar 2009\*

Nb Sub Shiv Prakash (JC-269370P), 01 Apr 2009

Nb Sub Channapanda T Uttappa (JC-264351A), 15 Aug 2009/01 Apr 2009\*

Nb Sub Pritam Singh (JC-270575W), 16 Oct 2009/01 Oct 2009\*

Nb Sub Bishumbher Nath Mishra (JC-267070P), 04 Oct 2009/01 Oct 2009\*

Nb Sub Randhir Singh (JC-267174W), 01 Oct 2009

Nb Sub Mohinder Singh (JC-269686F), 30 Nov 2009/01 Oct 2009\*

Nb Sub Jasbir Singh (JC-269691M), 07 Oct 2009/01 Oct 2009\*

Nb Sub Sisir Kumar Nayak (JC-271252A), 01 Oct 2009

Nb Sub G Rama Moorthy (JC-270892X), 10 Nov 2009/01 Oct 2009\*

Nb Sub Jagdev Singh (JC-270455X), 01 Oct 2009

Nb Sub Ompal Singh (JC-270589W), 01 Oct 2009

Nb Sub Ajaib Singh (JC-271034F), 01 Oct 2009

Nb Sub Ganesh Singh Dhouni (JC-271307Y), 01 Oct 2009

Nb Sub Hari Singh (JC-264902A), 01 Nov 2009/05 Oct 2009\*

Nb Sub V Senthil Kumaran (JC-270492L), 05 Nov 2009/05 Oct 2009\*

Nb Sub AHM Kamal Pasha (JC-270922K), 09 Oct 2009/20 Aug 2009\*

Nb Sub Ramesh Kumar (JC-271342F), 26 Sep 2009/20 Aug 2009\*

Nb Sub Mohan Lal (JC-269752Y), 01 Dec 2009/13 Nov 2009\*

Nb Sub Bhanwar Lal (JC-270503M), 03 Nov 2009/15 Aug 2009\*

Nb Sub Rajesh Kumar Shukala (JC-271234X), 26 Sep 2009/19 Aug 2009\*

Nb Sub Radhakrishnan PN (JC-270209M), 02 Nov 2009/19 Aug 2009\*

Nb Sub Saranam Srinivasa Rao (JC-271061L), 14 Oct 2009/20 Aug 2009\*



Nb Sub N Viswanathan (JC-269620L), 16 Nov 2009/  
01 Oct 2009\*

Nb Sub Ramesh Kumar (JC-269898M), 21 Oct 2009/  
01 Oct 2009\*

Nb Sub Kailash Chander Singh (JC-269549H), 13 Nov  
2009/01 Oct 2009\*

Nb Sub Ginni Rama Rao (JC-270781A), 04 Dec 2009/  
01 Sep 2009\*

Nb Sub Salinder Pal (JC-270599A), 16 oct 2009/01 Sep  
2009\*

Nb Sub Abrind Kumar Singh (JC-270580F), 12 Nov 2009/  
23 Sep 2009\*

Nb Sub Karan Singh Yadav (JC-271059N), 13 Nov 2009/  
01 Sep 2009\*

Nb Sub Samser Bahadur Singh (JC-270636H), 10 Nov  
2009/01 Sep 2009\*

Nb Sub Rajbir Singh (JC-270549P), 10 Dec 2009/01 Sep  
2009\*

Nb Sub Chander Shekar Biradar (JC-270402Y), 07 Jan  
2010/03 Dec 2010\*

Nb Sub Bhawani Singh Rathore (JC-271329X), 01 Jan  
2010/01 Dec 2009\*

Nb Sub Vijay Kumar Singh (JC-270288M), 14 Dec 2009/  
01 Dec 2009\*

Nb Sub Bahadur Singh (JC-269579A), 14 Jan 2010/  
01 Dec 2009\*

Nb Sub Sukhdev Singh (JC-269375N), 31 Dec 2009/  
01 Dec 2009\*

Nb Sub Radhakrishnan S (JC-269561K), 26 Dec 2009/  
01 Dec 2009\*

Nb Sub Harish Chandra Joshi (JC-267317L), 19 Dec 2009/  
01 Dec 2009\*

Nb Sub Sree Kumar R (JC-271550W), 29 Dec 2009/  
13 Nov 2009\*

Nb Sub Amar Nath Singh Yadava (JC-271271L), 02 Jan  
2010/30 Nov 2009\*

Nb Sub Krishan Pal (JC-270278H), 26 Dec 2009/29 Nov  
2009\*

Nb Sub Ram Chandra Singh (JC-269503A), 07 Dec 2009/  
23 Nov 2009\*

Nb Sub Anirudhan B (JC-270604A), 03 Jan 2010/13 Nov  
2009\*

Nb Sub Surjeewan Singh (JC-270159M), 14 Dec 2009/  
13 Nov 2009\*

Nb Sub Raj Kumar (JC-270567X), 22 Jan 2010/18 Sep  
2009\*

Nb Sub Surjit Singh (JC-270792M), 15 Nov 2009/01 Aug  
2009\*

Nb Sub Surender Singh (JC-271242W), 12 Oct 2009/  
01 Aug 2009\*

Nb Sub Joginder Singh (JC-271225W), 15 Nov 2009/  
01 Aug 2009\*

Nb Sub Ram Swaroop Jat (JC-271001W), 20 Jan 2010/  
15 Aug 2009\*

Nb Sub Madan Ram (JC-270494W), 25 Jan 2010/19 Aug  
2009\*

Nb Sub Basappa Kajagar (JC-270830X), 14 Oct 2009/  
24 Aug 2009\*

Nb Sub Vinod Kumar (JC-270758M), 24 Oct 2009/25 Aug  
2009\*

Nb Sub Arjun Singh (JC-269221F), 08 Sep 2009/15 Jun  
2009\*

Nb Sub Udaivir Singh (JC-269614X), 01 Feb 2009

Nb Sub Maniyan M (JC-271491P), 28 Nov 2009/01 Aug  
2009\*

Nb Sub Jay Prakash (JC-270460H), 30 Sep 2009/01 Aug  
2009\*

Nb Sub Jawahir Shah (JC-270401W), 01 Jul 2009

Nb Sub Meva Lal (JC-266467P), 20 Jul 2009/05 Jun 2009\*

Nb Sub Gurpal Singh (JC-269586W), 05 Mar 2009/01 Mar  
2009\*

Nb Sub Balwinder Singh (JC-268337L), 18 Feb 2010/  
01 Feb 2009\*

Nb Sub Seenan T (JC-269831N), 07 Dec 2008/28 Aug  
2008\*

Nb Sub Kale Shivaji Digambar (JC-269655F), 01 Sep 2008

Nb Sub Jarman Singh (JC-269413Y), 18 Oct 2008/18 Aug  
2008\*

Nb Sub Soman A (JC-268924W), 02 Oct 2008/20 Aug  
2008\*

Nb Sub Jagdish Prasad Yadav (JC-263503L), 23 Nov  
2009/01 Aug 2009\*

Nb Sub Som Datt (JC-270577F), 23 Nov 2009/01 Aug  
2009\*

Nb Sub Krishna Singh (JC-269929F), 01 Dec 2009

Nb Sub Ajai C (JC-270435k), 11 Dec 2009/04 Nov 2009\*

Nb Sub Sankaran PC (JC-271362P), 10 Dec 2009/01 Nov  
2009\*

Nb Sub Ram Manohar Sahu (JC-270747A), 16 Nov 2009/  
01 Nov 2009\*

Nb Sub Kundan Singh (JC-271668X), 02 Dec 2009/  
01 Nov 2009\*

Nb Sub Digar Singh (JC-271232M), 04 Dec 2009/01 Nov  
2009\*

Nb Sub Jitram Olaon (JC-270932N), 25 Nov 2009/01 Nov 2009\*

Nb Sub Sachchidanand Thakur (JC-271496N), 17 Nov 2009/01 Nov 2009\*

Nb Sub Lakhan Singh (JC-270174F), 18 Nov 2009/01 Nov 2009\*

Nb Sub Ram Prakash (JC-270145M), 25 Nov 2009/01 Nov 2009\*

Nb Sub Ramesh Prasad (JC-269810X), 24 Nov 2009/01 Nov 2009\*

Nb Sub Aram Singh (JC-269769M), 01 Nov 2009

Nb Sub Trilok Singh Sagar (JC-269959Y), 16 Nov 2009/01 Nov 2009\*

Nb Sub Munna Lal (JC-270464Y), 16 Nov 2009/31 Aug 2009\*

Nb Sub Guljhari Lal (JC-270548M), 26 Nov 2009/31 Aug 2009\*

Nb Sub K Ramesh Reddy (JC-271147K), 10 Nov 2009/31 Aug 2009\*

Nb Sub Raj Kumar (JC-271030L), 16 Nov 2009/31 Aug 2009\*

Nb Sub Bihari Singh (JC-271065F), 20 Nov 2009/31 Aug 2009\*

Nb Sub R Govinda Rajan (JC-270910M), 29 Nov 2009/31 Aug 2009\*

Nb Sub Nalawade Sanjay Nana (JC-269125M), 15 Feb 2010/22 Aug 2009\*

Nb Sub Aswini Kr Nath (JC-270750A), 15 Feb 2010/22 Aug 2009\*

Nb Sub Brijesha Kumar Yadav (JC-271039A), 15 Feb 2010/22 Aug 2009\*

Nb Sub Dharambir Singh (JC-271480H), 19 Feb 2010/01 Jan 2010\*

Nb Sub K Muralidharan (JC-266163X), 05 Mar 2010/01 Jan 2010\*

Nb Sub Naresh Kumar (JC-270931L), 25 Dec 2009/01 Aug 2009\*

Nb Sub Raghvendra Yadav (JC-271064Y), 21 Dec 2009/01 Aug 2009\*

Nb Sub Ram Kumar (JC-271772L), 18 Jan 2010/02 Oct 2009\*

Nb Sub Sucha Singh (JC-269640Y), 01 Oct 2009

Nb Sub C Gopi (JC-268490F), 15 May 2009/01 May 2009\*

Nb Sub Dayal Singh Rawat (JC-270702A), 05 Oct 2009/01 Oct 2009\*

Nb Sub Jagdev Singh (JC-268646N), 28 Dec 2009/01 Aug 2009\*

Nb Sub Jagat Narain Singh (JC-270138W), 01 May 2009

Nb Sub K Radhakrishnan (JC-270404K), 01 Apr 2009

Nb Sub Madan Lal (JC-270302N), 07 Dec 2009/13 Aug 2009\*

Nb Sub Dashrath Pandurang Khot (JC-271631W), 07 Dec 2009/01 Aug 2009\*

Nb Sub Ram Phal (JC-271623X), 03 Dec 2009/01 Aug 2009\*

Nb Sub Shaikh Shikandar Yasin (JC-271484Y), 03 Dec 2009/01 Aug 2009\*

Nb Sub Nand Lal (JC-271565Y), 15 Nov 2009/01 Aug 2009\*

Nb Sub Vinoj PJ (JC-270493N), 13 Nov 2009/01 Aug 2009\*

Nb Sub Chhotu Ram (JC-270568A), 10 Dec 2009/01 Aug 2009\*

Nb Sub Rohit Borah (JC-269317K), 01 Dec 2009/01 Aug 2009\*

Nb Sub Albert Ravi (JC-270463W), 07 Nov 2009/18 Aug 2009\*

Nb Sub Sunil Kumar Kandiyil (JC-271464L), 07 Nov 2009/18 Aug 2009\*

Nb Sub Kuncham Tulsidas (JC-270532F), 28 Dec 2009/20 Aug 2009\*

Nb Sub Amar Kumar Singha (JC-270552P), 24 Nov 2009/20 Aug 2009\*

Nb Sub Surendran P (JC-270988A), 07 Nov 2009/18 Aug 2009\*

Nb Sub V Sivanesa Sankar (JC-271554M), 05 Dec 2009/18 Aug 2009\*

Nb Sub Madhusoodanan Nair G (JC-270553X), 22 Nov 2009/18 Aug 2009\*

Nb Sub Anandan M (JC-270739F), 04 Dec 2009/18 Aug 2009\*

Nb Sub Tejpal Singh (JC-271547W), 02 Dec 2009/20 Aug 2009\*

Nb Sub Jagir Singh (JC-271207N), 12 Nov 2009/25 Aug 2009\*

Nb Sub Kulbir Singh (JC-269533X), 02 Mar 2009/31 Aug 2008\*

Nb Sub Anil Kumar Yadav (JC-270685L), 07 Oct 2009/23 Aug 2009\*

Nb Sub Shashi Bhushan Kumar (JC-271170X), 23 Nov 2009/11 Oct 2009\*

Nb Sub Ganeshi Lal (JC-269026K), 12 Nov 2009/11 Oct 2009\*

Nb Sub Sardar Singh Parmar (JC-270772Y), 09 Nov 2009/10 Oct 2009\*

Nb Sub Dynesghwar Sonawane (JC-269313N), 12 Nov 2009/10 Oct 2009\*

Nb Sub Ghansham Sharma (JC-271328P), 02 Dec 2009/01 Oct 2009\*

Nb Sub Purshottam Ram (JC-271053M), 11 Nov 2009/01 Oct 2009\*

Nb Sub Iqbal Singh (JC-271304L), 27 Nov 2009/01 Oct 2009\*

Nb Sub Mahabir Singh (JC-270699L), 27 Nov 2009/01 Oct 2009\*

Nb Sub Rajasekharan Nair (JC-271013L), 30 Nov 2009/01 Oct 2009\*

Nb Sub Victor Periera (JC-270595K), 01 Feb 2009/01 Oct 2009\*

Nb Sub Gagare Bhaguji Amruta (JC-270439A), 11 Nov 2009/01 Oct 2009\*

Nb Sub Ghanmare Suresh Natthu (JC-270773F), 23 Nov 2009/01 Oct 2009\*

Nb Sub Joginder Singh (JC-270392A), 17 Nov 2009/01 Oct 2009\*

Nb Sub Sanjeev Gurang (JC-269598L), 16 Nov 2009/01 Oct 2009\*

Nb Sub Rati Ram (JC-269735Y), 15 Mar 2010/01 Jan 2010\*

Nb Sub Subhash Chand (JC-271549F), 01 Dec 2009

Nb Sub Shishupal Singh (JC-270997F), 07 Dec 2009/01 Dec 2009\*

Nb Sub Durga Lal Dadwadia (JC-270476N), 01 Dec 2009

Nb Sub Nafe Singh (JC-270339P), 01 Dec 2009

Nb Sub Shedage Tukaram Gangaram (JC-268222X), 01 Dec 2009

Nb Sub Mitthan Singh (JC-270135H), 16 Dec 2009/13 Nov 2009\*

Nb Sub Manjit Singh (JC-269656K), 01 Jan 2010/13 Nov 2009\*

Nb Sub Ramjeet Singh Yadav (JC-271037P), 01 Oct 2009/11 Aug 2009\*

Nb Sub Pinki Yadav (JC-271364A), 03 Mar 2010/01 Jan 2010\*

Nb Sub Bramhananda Jena (JC-268523F), 11 Mar 2010/01 Jan 2009\*

Nb Sub Ramakant Singh (JC-267106H), 02 Dec 2009/10 May 2009\*

Nb Sub Dashrath Keru Khondge (JC-270064M), 04 Dec 2009/01 Aug 2009\*

Nb Sub Surinder Mohan (JC-270897W), 27 Nov 2009/14 Aug 2009\*

Nb Sub Nannaware Balu (JC-270147X), 27 Feb 2009/13 Nov 2009\*

Nb Sub Yash Pal (JC-271427X), 02 Mar 2010/03 Dec 2009\*

Nb Sub Bansant Singh (JC-271194F), 11 Mar 2010/01 Jan 2010\*

Nb Sub Puran Singh (JC-268623M), 01 Mar 2010/01 Jan 2010\*

Nb Sub Anand Kumar PK (JC-271551Y), 29 Dec 2009/07 Aug 2009\*

Nb Sub Dilbag Singh (JC-268161L), 31 Dec 2009/09 Aug 2009\*

Nb Sub Banwari Lal (JC-270482F), 05 Jan 2010/31 Aug 2009\*

Nb Sub Hanamant Sanasidda (JC-271131Y), 22 Jan 2010/31 Aug 2009\*

Nb Sub Amarjit Singh (JC-270821W), 21 Jan 2009/12 Sep 2009\*

Nb Sub Suresh Chand (JC-271011A), 17 Feb 2010/01 Nov 2009\*

Nb Sub Sasidharan P (JC-267172L), 01 Jan 2010/13 Nov 2009\*

Nb Sub Om Parkash (JC-268630H), 11 Jan 2010/13 Nov 2009\*

Nb Sub Mahender Singh (JC-269664H), 12 Jan 2009/13 Nov 2009\*

Nb Sub Elumalai A (JC-270056N), 02 Jan 2010/13 Nov 2009\*

Nb Sub Mahendra Prasad Singh (JC-270581K), 20 Oct 2009/29 Aug 2009\*

Nb Sub Ramachandran PV (JC-270631K), 01 Dec 2009/18 Aug 2009\*

Nb Sub Babban Prasad (JC-270863H), 23 Nov 2009/26 Aug 2009\*

Nb Sub Krishan Chand (JC-267543H), 01 Dec 2009/28 Aug 2009\*

Nb Sub Gurdip Singh (JC-269642K), 18 Nov 2009/28 Dec 2009\*

Nb Sub Satyendra Prasad Choudhary (JC-270673W), 23 Nov 2009/29 Aug 2009\*

Nb Sub Vijay Singh (JC-270381N), 05 Nov 2009/30 Aug 2009\*

Nb Sub Harbans Singh (JC-268358F), 26 Nov 2009/31 Aug 2009\*

Nb Sub Jogodand Balajee Dattu (JC-269558K), 26 Nov 2009/31 Aug 2009\*

Nb Sub Ram Prasad Gujar (JC-269361N), 26 Nov 2009/31 Aug 2009\*

Nb Sub Ram Bahadur Srisht (JC-270542L), 12 Feb 2010/31 Aug 2009\*

Nb Sub Shiv Shanker (JC-270585A), 14 Nov 2009/31 Aug 2009\*

\*(Gtd Seniority wef)

#### ARMY SERVICE CORPS (SUPPLY)

The President is pleased to make the following promotions :—

##### To be Subedar : Clk (SD)

Nb Sub Rama Chandra Barik (JC-663532M), 23 Oct 2009\*

Nb Sub Sri Prasad Yadav (JC-663638Y), 23 Oct 2009\*

Nb Sub Tapa Simuhadri Reddy (JC-663527F), 22 Oct 2009\*

\*(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2009 without effect on pay and allces)

Nb Sub Kailash Chandra Khattel (JC-663139K), 26 Oct 2009\*

Nb Sub Dinesh Kumar Kashyap (JC-663138F), 26 Oct 2009\*

Nb Sub Biswa Mohan Sahu (JC-663063P), 29 Oct 2009\*

Nb Sub Arun Kumar Sahu (JC-663088F), 21 Oct 2009\*

Nb Sub Unni Krishnan Nair B (JC-663219F), 21 Oct 2009\*

Nb Sub Dilip Kumar Biswal (JC-663273P), 21 Oct 2009\*

\*(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2009 without effect on pay and allces)

Nb Sub Lakshman Singh Kharayat (JC-663743P), 19 Aug 2009\*

Nb Sub Rajeshwar (JC-663817Y), 26 Jul 2009\*

\*(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2009 without effect on pay and allces)

Nb Sub Gutha Narayana (JC-663464K), 30 Oct 2009\*

\*(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2009 without effect on pay and allces)

##### To be Subedar : Personal Asstt

Nb Sub Akshya Kumar (JC-664707W), 13 Aug 2009\*

\*(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 04 Dec 2009 without effect on pay and allces)

Nb Sub Umesh Singh (JC-663892H), 12 Aug 2009\*

Nb Sub Mahesh Chand Yadav (JC-663894N), 12 Aug 2009\*

Nb Sub Ramesh Chandra Yadav (JC-663893L), 12 Aug 2009\*

Nb Sub Net Ram Bairagi (JC-663820Y), 13 Aug 2009\*

\*(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2009 without effect on pay and allces)

Nb Sub Bijoy Kumar Roy (JC-663895W), 01 Sep 2009

Nb Sub Madan Lal (JC-663896Y), 01 Oct 2009

Nb Sub Hari Kumar AM (JC-663977Y), 01 Oct 2009

Nb Sub Romesh Chand (JC-663974L), 01 Oct 2009

Nb Sub Suresh Kumar (JC-663403M), 19 Nov 2009\*

Nb Sub Roop Lal (JC-663322M), 12 Nov 2009\*

\*(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2009 without effect on pay and allces)

Nb Sub Jaswant Singh (JC-663664A), 31 Oct 2009\*

Nb Sub Jai Bhagwan (JC-663642F), 05 Nov 2009\*

Nb Sub Krushna Chandra Sinku (JC-663730X), 13 Nov 2009\*

\*(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2009 without effect on pay and allces)

Nb Sub Vidya Sagar (JC-663886P), 06 Nov 2009\*

Nb Sub Harendra Singh Rawat (JC-664565K), 11 Nov 2009\*

Nb Sub Inder Singh (JC-663890X), 16 Nov 2009\*

Nb Sub Hemant Kumar Mishra (JC-663891A), 20 Nov 2009\*

\*(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allces)

Nb Sub Manoranjan Mohanty (JC-663971X), 17 Nov 2009\*

Nb Sub Prakasan NK (JC-663933F), 19 Nov 2009\*

Nb Sub Chuna Ram Thalor (JC-663970P), 17 Nov 2009\*

\*(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2009 without effect on pay and allces)

Nb Sub Radhey Shyam (JC-663140Y), 30 Oct 2009\*

Nb Sub Ashok Kumar (JC-663274X), 01 Jan 2010\*

\*(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2009 without effect on pay and allces)

Nb Sub Shashi Bhushan Jha (JC-663469H), 16 Nov 2009\*

\*(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2009 without effect on pay and allces)

Nb Sub Naresh Chand (JC-663724K), 23 Oct 2009\*

Nb Sub M Manoharan (JC-663726P), 30 Oct 2009\*

Nb Sub Shrut Singh Tomar (JC-663727X), 26 Oct 2009\*

Nb Sub Chander Mohan (JC-663729H), 26 Oct 2009\*

Nb Sub Ashok Prasad Khankriyal (JC-663731A), 23 Oct 2009\*

\*(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2009 without effect on pay and allces)

Nb Sub Kulwant Singh (JC-663931W), 04 Nov 2009\*

\*(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allces)

Nb Sub Ram Prakash Yadav (JC-663880N), 19 Nov 2009\*

Nb Sub Vijay Singh (JC-664012N), 09 Nov 2009\*

Nb Sub Ajith Kumar MB (JC-663972A), 19 Nov 2009\*

Nb Sub Prem Singh (JC-663969A), 20 Nov 2009\*

Nb Sub Laxman Prasad (JC-663881W), 26 Dec 2009\*

Nb Sub Gurbachan Singh (JC-663921M), 04 Jan 2010\*

\*(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2009 without effect on pay and allces)

Nb Sub Dharam Pal (JC-664078K), 01 Dec 2009\*

Nb Sub K Veera Raju (JC-664079M), 01 Dec 2009\*

Nb Sub Vijay Kumar Upadhyay (JC-664067X), 01 Dec 2009\*

Nb Sub Rajveer Singh (JC-664104A), 01 Dec 2009\*

Nb Sub Akhilesh Kumar Singh (JC-664208F), 01 Dec 2009\*

Nb Sub Rakesh Chand (JC-664077F), 01 Dec 2009\*

Nb Sub Jai Prakash Singh (JC-664080F), 01 Dec 2009\*

Nb Sub Joginder Singh Reen (JC-664068A), 01 Dec 2009\*

Nb Sub Ramesh Kumar Pandey (JC-664644Y), 01 Dec 2009\*

Nb Sub Ashok Kumar Giri (JC-664063F), 01 Dec 2009\*

Nb Sub Tukun Kumar Raut (JC-664014Y), 01 Dec 2009\*

Nb Sub Surjit Singh (JC-664066P), 01 Dec 2009\*

Nb Sub Thankachen KV (JC-664046F), 01 Dec 2009\*

Nb Sub Satendra Pal Singh (JC-664032F), 01 Dec 2009\*

Nb Sub Sube Singh (JC-664495W), 01 Dec 2009\*

Nb Sub Preman P (JC-664047K), 14 Dec 2009\*

Nb Sub Jile Ram (JC-664040A), 01 Dec 2009\*

Nb Sub Bhramarabar Sahoo (JC-664039L), 01 Dec 2009\*

Nb Sub Prabhjeet Singh (JC-664036X), 29 Dec 2009\*

\*(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2009 without effect on pay and allces)

Nb Sub Shridhar Rai (JC-664193K), 31 Mar 2009\*

\*(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2010 without effect on pay and allces)

Nb Sub Brijnandan Singh (JC-664220H), 31 Mar 2010\*

Nb Sub Ashok Kumar Singh (JC-664316L), 31 Mar 2010\*

\*(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2010 without effect on pay and allces)

To be Subedar : Personal Assistant

Nb Sub Rambir Singh (JC-664042H), 08 Dec 2009\*

Nb Sub Surinder Kumar Sharma (JC-664044W), 10 Nov 2009\*

\*(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2009 without effect on pay and allces)

Nb Sub Ratnakara Sahu (JC-664072H), 01 Dec 2009

Nb Sub Sham Sher Singh (JC-664070X), 01 Dec 2009

Nb Sub Satyapal Singh (JC-664043N), 01 Dec 2009

Nb Sub Mahendra Singh Chauhan (JC-664071A), 01 Dec 2009

Nb Sub Arun Kumar Mishra (JC-664074N), 01 Dec 2009

Nb Sub Indrapal Kushwaha (JC-664075W), 01 Dec 2009

Nb Sub Harjit Singh (JC-664178P), 01 Jan 2010

Nb Sub Suresha M (JC-664155N), 01 Jan 2010

Nb Sub Raj Kumar (JC-664133P), 01 Jan 2010

Nb Sub Amarnath (JC-664216A), 01 Feb 2010

Nb Sub Ravindra Singh (JC-664182X), 01 Feb 2010

Nb Sub Parm Hans Yadav (JC-664181P), 01 Feb 2010

Nb Sub Mohan Lal Bhatt (JC-664217H), 01 Mar 2010

Nb Sub Wagh Sanjay Chandrabhan (JC-664292M), 01 Mar 2010

To be Nb Sub SKT

Nb Sub Kamlesh Kumar (JC-662857N), 01 Mar 2010

Nb Sub Jagadle Shivaji Jagannath (JC-643285H), 01 Feb 2010

Nb Sub Shashank Kumar Ghosh (JC-663010W), 01 Feb 2010

Nb Sub Katore Sai Banna Sharanappa (JC-643286L), 01 Feb 2010

Nb Sub Surendra Singh (JC-643200F), 18 Feb 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2009 without effect on pay & allces)

Nb Sub Devnani Manohar Prem Chand (JC-643269L), 02 Mar 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2009 without effect on pay & allces)

Nb Sub Bhuwal Singh (JC-662858L), 01 Mar 2010

Nb Sub Fateh Singh Sura (JC-663046P), 02 Mar 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2009 without effect on pay & allces)

Nb Sub Panchu Singh (JC-662913F), 01 Mar 2010

Nb Sub Raj Kumar (JC-643287N), 11 Feb 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2010 without effect on pay & allces)

To be Naib Subedar SKT

Hav Dharamvir Singh (No. 6388742K now JC-667135L), 01 Feb 2010\*

Hav Maraleedharan K P (No. 6388739K now JC-667136N), 01 Feb 2010\*

Hav S Biren Singha (No. 6386623P now JC-667137W), 25 Jan 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2009 without effect on pay & allces)

Hav Virendra Pal Singh (No. 6388780A now JC-667138Y), 02 Feb 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2009 without effect on pay & allces)

To be Sub Clk (GD/SD)

Nb Sub Sukdev Singh (JC-663671W), 01 Mar 2009\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2009 without effect on pay & allces)

Nb Sub Jagdish Chand (JC-663753Y), 01 Jul 2009

Nb Sub Jai Kumar Singh (JC-663746H), 07 Jul 2009

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2009 without effect on pay & allces)

To be Sub Personal Assistant

Nb Sub Hans Raj (JC-663757P), 01 May 2009\*

Nb Sub Aruna Kumar Jena (JC-663756M), 01 May 2009\*

Nb Sub Sher Bahadur (JC-663830H), 01 May 2009

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 May 2009 without effect on pay & allces)

Nb Sub Vishnudeo Prasad Chauhan (JC-663831L), 01 Jul 2009\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2009 without effect on pay & allces)

#### REGIMENT OF ARTILLERY

The President is pleased to make the following promotion:-

To be Nb Sub (Clk SD & SKsT)

Rank, Name, Army No. & JC No., Date of promotion

Hav (Clk) Mrinmay Chakraborty (No. 15105284A now JC-274411X), 05 Nov 2009/01 Nov 2009\*

Hav (SKT) Ajit Singh (No. 14393368F now JC-274213M), 18 Dec 2009/01 Dec 2009\*

Hav (SKT) Swyambhu Singh (No. 14395677H now JC-274268W), 16 Jan 2010/01 Dec 2009\*

Hav (Clk) M Mani Gudan (No. 14396602X now JC-274269Y), 12 Jan 2010/01 Jan 2010\*

Hav (Clk) Sukumar Pradhan (No. 15113834M now JC-274214P), 13 Jan 2010/01 Mar 2009\*

Hav (Clk) Jialu Hoque (No. 14402504F now JC-274412A), 23 Jan 2010/01 Jan 2010\*

Hav (Clk) Nathu Ram (No. 14401974P now JC-274270N), 13 Jan 2010/01 Oct 2009\*

Hav (Clk) Biswajit Dutta (No. 14402546H now JC-274215X), 11 Jan 2010/01 Oct 2009\*

Hav (Clk) Devendra Singh Malik (No. 15105794F now JC-274413H), 18 Jan 2010/01 Jan 2010\*

Hav (Clk) Mishri Lal (No. 15108972K now JC-274216A), 11 Jan 2010/01 Nov 2009\*

Hav (Clk) Ashok Kumar (No. 14403006W now JC-274271W), 15 Jan 2010/01 Jan 2010\*

Hav (Clk) Rajendra Prasad (No. 14403012K now JC-274272Y), 11 Jan 2010/01 Jan 2010\*

Hav (Clk) V Pandian (No. 15114533P now JC-274414L), 15 Jan 2010/01 Jan 2010\*

Hav (Clk) Gopala Krishna Shetty H (No. 15114582X now JC-274217H), 11 Jan 2010/01 Jan 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay & allces)

Hav (Clk) Gopala Krishna R S (No. 14403033A now JC-274218L), 12 Jan 2010/01 Jan 2010\*

Hav (Clk) Sadan Kumar Biswas (No. 14402537F now JC-274273F), 11 Jan 2010/01 Jan 2010\*

Hav (Clk) Shinde Dnyanu Tatoba (No. 15114714A now JC-274219N), 11 Jan 2010/01 Jan 2010\*

Hav (SKT) Hari Narayan Singh Yadava (No. 15102746W now JC-274415N), 18 Jan 2010/01 Jan 2010\*

Hav (SKT) Sajjan K S (No. 14401758F now JC-274274K), 12 Jan 2010/01 Jan 2010\*

Hav (SKT) Moteram Chandra Sambappa (No. 14400846L now JC-274275M), 13 Jan 2010/01 Jan 2010\*

Hav (SKT) Virender Singh (No. 15113649Y now JC-274416W), 12 Jan 2010/01 Jan 2010\*

Hav (SKT) Manoj Banerjee (No. 15114021H now JC-274417Y), 13 Jan 2010/01 Jan 2010\*

Hav (Clk) Shelar Namdev Dnyanu (No. 15114715H now JC-274418F), 01 Feb 2010

Hav (Clk) Chavan Pramod Bhalchandra (No. 14403108M now JC-274419K), 01 Feb 2010

Hav (SKT) Moloy Dari (No. 15114015P now JC-274420Y), 01 Feb 2010

Hav (SKT) Hanuman Singh (No. 15114460N now JC-274421F), 01 Feb 2010

Hav (SKT) Ruchendra Kumar Dwivedi (No. 15114406A now JC-274505P), 01 Feb 2010

Hav (SKT) Harmail Singh (No. 15114465M now JC-274422K), 02 Feb 2010/01 Feb 2010\*

Hav (SKT) Baldev Raj (No. 14400758P now JC-274423M), 07 Feb 2010/01 Feb 2010\*

Hav (Clk) Pawar Satish Hanmant (No. 14403114A now JC-274506X), 01 Mar 2010

Hav (Clk) Bedage Sambhaji Maruti (No. 15114728A now JC-274507A), 01 Mar 2010

Hav (Clk) Dalvir Singh (No. 15114805K now JC-274508H), 01 Mar 2010

Hav (Clk) Vijay Sharma (No. 14403234Y now JC-274509L), 01 Mar 2010

Hav (Clk) Narender Kumar (No. 14403243A now JC-274510A), 01 Mar 2010

Hav (Clk) Madhu R (No. 14403244H now JC-274511H), 01 Mar 2010

Hav (Clk) Dharmendra Singh (No. 15114855P now JC-274512L), 01 Mar 2010

Hav (Clk) Mohinder Singh (No. 15114871M now JC-274513N), 01 Mar 2010

Hav (Clk) Pritam Singh (No. 15114891A now JC-274514W), 01 Mar 2010

Hav (Clk) Daya Chand Yadav (No. 15114981F now JC-274515Y), 04 Mar 2010/01 Mar 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay & allces)

Hav (Clk) Vinod Kumar (No. 15114982K now JC-274516F), 01 Mar 2010

Hav (SKT) Basudeb D E (No. 15113024K now JC-274517K), 01 Mar 2010

Hav (SKT) Gopala Krishnan T (No. 14403026K now JC-274518M), 04 Mar 2010/01 Mar 2010\*

Hav (SKT) Shyama Prasad Bachar (No. 14401029Y now JC-274424P), 02 Mar 2010/01 Mar 2010\*

Hav (SKT) Ashok Kumar Mohanty (No. 15113569F now JC-274519P), 01 Mar 2010/01 Mar 2010\*

Hav (Clk) Kumbhar Lal Chand Gangaram (No. 15114718W now JC-274276P), 01 Feb 2010

Hav (Clk) Nanda Kumar Mandal (No. 14402800F now JC-274277X), 21 Jan 2010/01 Jan 2010\*

Hav (Clk) Mazbool Hasan (No. 14403447M now JC-274520K), 01 Mar 2010

Hav (Clk) Sukumar S (No. 15104553P now JC-274521M), 23 Feb 2010/01 Jan 2010\*

Hav (Clk) BRB Chakravarthy (No. 15109015L now JC-274522P), 10 Feb 2010/01 Jan 2010\*

Hav (Clk) Ram Nath (No. 14403009K now JC-274523X), 14 Feb 2010/01 Jan 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay & allces)

To be Nb Sub

Hav Manoj Kumar (No. 15151659M now JC-274185L), 13 May 2009/17 Jun 2007\*

Hav Mukesh C (No. 15133834N now JC-274186N), 08 Jul 2009/22 Jun 2009\*

Hav Balwan Singh (No. 14418221Y now JC-274187W), 09 Jul 2009/22 Jun 2009\*

Hav Joginder Paul (No. 15111146P now JC-274188Y), 12 Aug 2009/20 Jul 2009\*

Hav P Subbu Ram (No. 15118392H now JC-274189F), 13 Aug 2009/20 Jul 2009\*

Hav Shakeel Ahmed (No. 15116591X now JC-274190W), 10 Oct 2009/20 Jul 2009\*

Hav Jitendra Kumar (No. 15121120M now JC-274191Y), 26 Oct 2009/20 Jul 2009\*

Hav Prakash Nath (No. 15116430P now JC-274192F), 21 Oct 2009/20 Jul 2009\*

Hav Arun Kumar Singh (No. 15117676A now JC-274193K), 12 Nov 2009/27 Jul 2009\*

Hav Mandalapu Gopala (No. 15118252W now JC-274194M), 05 Oct 2009/21 Aug 2009\*

Hav Narayan Chandra Jana (No. 15125112M now JC-274195P), 17 Oct 2009/21 Aug 2009\*

Hav Ramesh Singh (No. 15118990A now JC-274196X), 18 Nov 2009/01 Oct 2009\*

Hav Inderjit Singh (No. 15112785H now JC-274197A), 07 Dec 2009/01 Jun 2009\*

Hav Bhim Singh (No. 15110120N now JC-274198H), 27 Nov 2009/01 Jun 2009\*

Hav Kaptan Singh (No. 15108433N now JC-274199L), 27 Nov 2009/07 Jun 2009\*

Hav Rajan V Vatakkekara (No. 14391959K now JC-274200P), 18 Jul 2009/01 Jul 2009\*

Hav Balveer Singh (No. 15111840F now JC-274201X), 04 Sep 2009/01 Aug 2009\*

Hav Rajesh Pal Singh (No. 15104119H now JC-274202A), 02 Aug 2009/01 Aug 2009\*

Hav Prasanthan Varaprath (No. 14404833L now JC-274203H), 01 Aug 2009

Hav Birendra Bahadur Singh (No. 14402179F now JC-274204L), 16 Oct 2009/01 Sep 2009\*

Hav Sanjay Kumar (No. 15107978Y now JC-274205N), 14 Dec 2009/01 Sep 2009\*

Hav Pabitra Kumar Patra (No. 14414019N now JC-274206W), 13 Nov 2009/01 Sep 2009\*

Hav Umesh Singh (No. 15115689Y now JC-274207Y), 03 Nov 2009/05 Sep 2009\*

Hav Narayana Rao Yarlagadda (No. 15124384A now JC-274208F), 16 Nov 2009/01 Oct 2009\*

Hav Lakhwinder Singh (No. 15108883L now JC-274209K), 12 Nov 2009/11 Oct 2009\*

Hav Puran Singh (No. 15106138M now JC-274210Y), 04 Nov 2009/21 Oct 2009\*

Hav Bolin Gogoi (No. 15120047N now JC-274211F), 09 Nov 2009/01 Nov 2009\*

Hav Gelimi Reddy B Reddy (No. 15113891N now JC-274212K), 07 Nov 2009/01 Nov 2009\*

Hav Devanandan P R (No. 15119739W now JC-274220H), 02 Dec 2009/30 Nov 2008\*

Hav Prem Singh (No. 15105581N now JC-274221L), 27 Nov 2009/05 Mar 2009\*

Hav Pargat Singh (No. 14390198X now JC-274222N), 23 Jun 2009/01 May 2009\*

Hav Vuriti Suresh Babu (No. 14394024P now JC-274223W), 03 Dec 2009/01 May 2009\*

Hav Vijay Shankar Rai (No. 14388518H now JC-274111W), 11 Apr 2009/22 Nov 2008\*

Hav Joginder Singh (No. 14409265P now JC-274112Y), 13 Aug 2009/01 May 2009\*

Hav Surendra Veer Singh (No. 14398990Y now JC-274113F), 24 Oct 2009/18 May 2009\*

Hav Raveendra Nadhan K (No. 15111007L now JC-274114K), 28 Sep 2009/01 Jul 2009\*

Hav Khursheed Alam (No. 4265924K now JC-274115M), 21 Oct 2009/09 Aug 2009\*

Hav Karan Singh (No. 14399311H now JC-274116P), 01 Sep 2009

Hav Samir Biswas (No. 15121629A now JC-274117X), 26 Oct 2009/01 Sep 2009\*

Hav Ram Kisun (No. 15107034X now JC-274118A), 20 Oct 2009/01 Sep 2009\*

Hav Ram Bux (No. 13979107F now JC-274119H), 31 Oct 2009/01 Sep 2009\*

Hav Sibarama Mahakhud (No. 14396044F now JC-274120X), 04 Nov 2009/25 Sep 2009\*

Hav Raj Kumar (No. 15113766K now JC-274121A), 11 Oct 2009/01 Oct 2009\*

Hav Shiv Ram (No. 14492669N now JC-274122H), 05 Oct 2009/01 Oct 2009\*

Hav Muralidharan AV (No. 14401985F now JC-274123L), 06 Oct 2009/01 Oct 2009\*

Hav Ram Baboo Singh (No. 15104657W now JC-274124N), 08 Oct 2009/01 Oct 2009\*

Hav Pradeepan PK (No. 14409812Y now JC-274125W), 11 Nov 2009/01 Oct 2009\*

Hav Sher Singh Kulhari (No. 15110805M now JC-274126Y), 01 Nov 2009

Hav Sahukari Satyanvenkata Sree (No. 14389548M now JC-274127F), 21 Mar 2009/11 Oct 2008\*

Hav Mohanan Pillai (No. 14398469Y now JC-274128K), 05 May 2009/01 Feb 2009\*

Hav Patil Anandarav Dhyanadev (No. 15122211K now JC-274129M), 28 Aug 2009/26 May 2009\*

Hav Satish Kumar (No. 14389724Y now JC-274130F), 03 Sep 2009/05 Jun 2009\*

Hav Babu Ram (No. 15103318K now JC-274131K), 06 Oct 2009/07 Aug 2009\*

Hav Surendra Nath Yadav (No. 14410260H now JC-274132M), 27 Sep 2009/11 Aug 2009\*

Hav Jagtar Singh (No. 14391394K now JC-274133P), 18 Sep 2009/01 Sep 2009\*

Hav Dappilikasi Reddy (No. 15119928A now JC-274134X), 10 Nov 2009/23 Sep 2009\*

Hav Surinder Kumar (No. 14388462F now JC-274135A), 11 Nov 2009/01 Oct 2009\*

Hav G Gnanathickam (No. 15109927K now JC-274136H), 01 Oct 2009

Hav Pawar Rajendra Vilas (No. 14403414F now JC-274137L), 06 Oct 2009/01 Oct 2009\*

Hav Awanish Kumar (No. 15125149N now JC-274138N), 01 Oct 2009



Hav Satendra Singh (No. 15103330L now JC-274139W),  
01 Oct 2009

Hav Gajendra Kumar Rawal (No. 14389560N now JC-274140L), 02 Oct 2009

Hav Ashok Kumar (No. 15128152Y now JC-274141N),  
01 Nov 2009

Hav Sutar Ekanath Sakharam (No. 14411580K now JC-274142W), 01 Nov 2009

Hav Patil Vilas Raghunath (No. 14395885X now JC-274071A), 06 Nov 2009/29 Apr 2009\*

Hav Harkamal Singh (No. 14498814W now JC-274072H),  
05 Oct 2009/18 May 2009\*

Hav Ganireddi Adi Babu (No. 15109640M now JC-274073L), 08 Sep 2009/15 Jun 2009\*

Hav Vinod Kumar (No. 14399745H now JC-274074N),  
01 Sep 2009/01 Aug 2009\*

Hav Uma Shankar Tiwari (No. 15116884H now JC-274075W),  
08 Oct 2009/24 Aug 2009\*

Hav Rajendran Yadav (No. 14390096F now JC-274076Y),  
17 Sep 2009/25 Aug 2009\*

Hav K Venkateswarlu (No. 15125509Y now JC-274077F),  
23 Oct 2009/01 Sep 2009\*

Hav Balbir Singh (No. 15104701P now JC-274078K),  
01 Oct 2009/01 Sep 2009\*

Hav Rajendra Prasad Mishra (No. 14388527K now JC-274079M), 01 Sep 2009

Hav Korakanchi Sankaraiah (No. 15113888N now JC-274080F), 10 Oct 2009/01 Oct 2009\*

Hav Amarjit (No. 14496567P now JC-274081K), 10 Oct 2009/  
01 Oct 2009\*

Hav Anirudh Singh Sisodiya (No. 15116606P now JC-274082M), 01 Oct 2009

Hav Ramji Singh Yadava (No. 14407926L now JC-274083P),  
05 Oct 2009/01 Oct 2009\*

Hav Mukesh (No. 15112492X now JC-274084X), 02 Nov  
2009/12 Oct 2009\*

Hav Kuldip Singh (No. 15107203N now JC-274085A),  
05 Nov 2009/20 Oct 2009\*

Hav Vjayan MP (No. 15114907A now JC-274086H),  
01 Nov 2009

Hav Balkar Singh (No. 15103121N now JC-274087L),  
22 Apr 2009/01 Feb 2009\*

Hav Ashok Kumar (No. 14388704Y now JC-274088N),  
20 Apr 2009/01 Apr 2009\*

Hav Surendra Rai (No. 15109139A now JC-274089W),  
11 May 2009/07 May 2009\*

Hav Hari Ram (No. 15118565P now JC-274090L), 07 Nov  
2009/18 May 2009\*

Hav Ganga Sharan (No. 15103664A now JC-274091N),  
25 Aug 2009/01 Jun 2009\*

Hav Harpat Singh (No. 15112635M now JC-274092W),  
16 Oct 2009/01 Jun 2009\*

Hav Dharam Paul (No. 15102548L now JC-274093Y),  
29 Oct 2009/01 Aug 2009\*

Hav Rohtas Singh (No. 15108028W now JC-274094F),  
29 Oct 2009/18 Sep 2009\*

Hav Amarjit Singh (No. 14397359X now JC-274095K),  
27 Oct 2009/04 Sep 2009\*

Hav Devarajan KK (No. 14389857P now JC-274096M),  
01 Nov 2009/01 Oct 2009\*

Hav Udai Singh Chouhan (No. 15117517H now JC-274097P),  
05 Nov 2009/01 Oct 2009\*

Hav Rajendra Singh (No. 15110876N now JC-274098X),  
08 Oct 2009/01 Oct 2009\*

Hav G Gerald Arokia William (No. 15119643N now JC-274099A), 05 Nov 2009/05 Oct 2009\*

Hav Jaya Prakash (No. 8033766F now JC-274100K),  
06 Nov 2009/01 Nov 2009\*

Hav Fal Singh (No. 14392282W now JC-274101M),  
01 Nov 2009

Hav Naresh Kumar (No. 14405427X now JC-274102P),  
02 Nov 2009/01 Nov 2009\*

\*(Gtd seniority wef)

#### PIONEER CORPS

To be Nb Sub (GD)/Cik (SD)

Rank, Name, Army No. now JC No. and Date of Promotion

Hav (GD) Daulat Ram (No. 8032507M now JC-829473H),  
01 Jul 2009

Hav (GD) Mahendra Pradhan (No. 8032526X now JC-829475N), 01 Aug 2009

Hav (GD) Bharat Singh (No. 8032129Y now JC-829476W),  
01 Aug 2009

Hav (GD) Mahabir Singh (No. 8032527A now JC-829477Y),  
01 Aug 2009

Hav (GD) Ram Kumar Vishwakarma (No. 8032534W now JC-829478F), 14 Sep 2009

Hav (GD) Bhagwan Singh (No. 8032559H now JC-829479K),  
16 Sep 2009\*

Hav (GD) Prem Chand (No. 8031810F now JC-829480Y),  
14 Sep 2009

Hav (GD) Mahender Singh (No. 8032613L now JC-829481F),  
14 Sep 2009

Hav (GD) Bhaira Ram (No. 8030723F now JC-829482K),  
14 Sep 2009

Hav (GD) Radha Krishna Pillai S (No. 8030988L now JC-829483M), 14 Sep 2009

Hav (GD) Surendran NM (No. 8032619M now JC-829484P),  
14 Sep 2009

Hav (GD) Govind Singh Bisht (No. 8032630L now JC-829485X), 14 Sep 2009

Hav (GD) Alois Toppo (No. 8032318H now JC-829486A),  
14 Sep 2009

Hav (GD) Bijay Kumar Jaiswal (No. 8032634F now JC-829487H), 15 Sep 2009\*

Hav (GD) Shyamal Kantidhar (No. 8032109L now JC-829490H), 01 Nov 2009

Hav (GD) Bahadur Ram (No. 8032639A now JC-829491L),  
05 Nov 2009#

Hav (GD) Sanjay Kumar Rai (No. 8032646W now JC-829492N), 02 Nov 2009#

Hav (GD) Virendra Singh (No. 8032658L now JC-829494Y),  
01 Dec 2009

Hav (GD) Nagendra Sharma (No. 8032705X now JC-829495F), 01 Jan 2010

Hav (GD) Bhola Prasad Mondal (No. 8032261Y now JC-829496K), 03 Jan 2010%

Hav (GD) Swamy Appu Satalingaya (No. 8032732F now JC-829498P), 01 Feb 2010

Hav Clk (SD) Gautam Tiwari (No. 8030868M now JC-829472A), 01 Jul 2009

Hav Clk (SD) Harish Chandra Joshi (No. 8031109Y now JC-829474L), 01 Aug 2009

Hav Clk (SD) Krishan Pal Singh (No. 8031139W now JC-829488L), 01 Nov 2009

Hav Clk (SD) Raveendran Nair R (No. 8031183A now JC-829489N), 01 Nov 2009

Hav Clk (SD) Suresh Kumar (No. 8031202A now JC-829493W), 07 Dec 2009\$

Hav Clk (SD) Asit Kumar Das (No. 8033218K now JC-829497M), 01 Feb 2010

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) wef  
14 Sep 2009 without effect on pay & allowances)

#(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) wef  
01 Nov 2009 without effect on pay & allowances)

%(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) wef  
01 Jan 2010 without effect on pay & allowances)

\$(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) wef  
01 Dec 2009 without effect on pay & allowances)

## CORPS OF SIGNALS

To be Nb Sub (GD)

Hav Upendra Kumar Singh (No. 14249897Y now JC-376798Y), 11 Sep 2006

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2006  
without effect on pay and allowances)

Hav Ram Niwas Thakan (No. 14263843H now JC-377835N),  
01 Jan 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2006  
without effect on pay and allowances)

Hav Deepak Chander (No. 14248014X now JC-378727W),  
02 Jan 2009

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2007  
without effect on pay and allowances)

Hav Gyan Singh (No. 14248986L now JC-378369W), 01 Jul  
2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2007  
without effect on pay and allowances)

Hav Shiv Shankar Singh (No. 14243486K now JC-377496Y), 01 Aug 2007

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 02 Jul 2007  
without effect on pay and allowances)

Hav Puran Chand (No. 14261396L now JC-377539H), 01 Sep  
2007

Hav Rajpal Singh (No. 14246680K now JC-377607L),  
24 Mar 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2007  
without effect on pay and allowances)

Hav Jitendra Bahadur Singh (No. 15689729M now JC-378031L), 01 Apr 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 21 Oct 2007  
without effect on pay and allowances)

Hav G Satya Raju (No. 15671537M now JC-378314M),  
01 Jun 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 21 Oct 2007  
without effect on pay and allowances)

Hav Vijay Bahadur Yadav (No. 14262453N now JC-378370L), 01 Jul 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2007  
without effect on pay and allowances)

Hav Ram Naresh (No. 14255969N now JC-379194L),  
01 Sep 2009

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2008  
without effect on pay and allowances)

Hav Pradeep Kumar Yadav (No. 14266211H now JC-379274H), 01 Nov 2009

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Ramesh Chander (No. 14262992K now JC-378814K), 01 Mar 2009

Hav Ranjit Singh Chandel (No. 14268275M now JC-379009M), 04 May 2009

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Dinesh Kumar Choubey (No. 15350101P now JC-378934H), 01 Apr 2009

Hav Hari Lal Yadav (No. 14261241W now JC-378953N), 01 Jun 2009

Hav Bala Subramanian G (No. 14261516Y now JC-379195N), 01 Sep 2009

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Shiv Shanker Singh (No. 15352671K now JC-378976P), 26 Jul 2009

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Ashok Kumar (No. 15352868A now JC-378977X), 01 Jul 2009

Hav Pramod Kumar Yadav (No. 15353258A now JC-378978A), 01 Jul 2009

Hav Lilu Ram (No. 15353327L now JC-378979H), 01 Jul 2009

Hav Jagdish Giri Goswami (No. 15353428Y now JC-378980X), 01 Jul 2009

Hav Molani Moula AB (No. 15353419X now JC-378981A), 01 Jul 2009

Hav P John Kennedy (No. 15353938A now JC-378982H), 01 Jul 2009

Hav Jose KK (No. 15353998P now JC-378983L), 01 Jul 2009

Hav Shiv Pujan Mishra (No. 15351516W now JC-378984N), 01 Jul 2009

Hav Rishal Singh (No. 15352415P now JC-378985W), 01 Jul 2009

Hav Jugendra Singh (No. 15354022X now JC-378986Y), 01 Jul 2009

Hav Radhe Shyam Thakur (No. 15354141N now JC-378987F), 05 Jul 2009

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Asit Kanti Das (No. 15354138N now JC-378988K), 01 Jul 2009

Hav Rajesh Kumar PV (No. 15353822K now JC-379136F), 02 Sep 2009

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Uttam Kumar Garai (No. 15353955A now JC-379137K), 02 Sep 2009

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2009 without effect on pay and allowances)

Hav G Rajendra Laxman (No. 15354313X now JC-379063A), 01 Aug 2009

Hav Jagdish Singh (No. 15354689Y now JC-379064H), 01 Aug 2009

Hav Babu T (No. 15354800X now JC-379065L), 01 Aug 2009

Hav Parmod Kumar Singh (No. 15353779N now JC-379066N), 01 Aug 2009

Hav Sher Mohammed (No. 15354761K now JC-379067W), 01 Aug 2009

Hav Sajal Kumar Deb (No. 15355014L now JC-379068Y), 01 Aug 2009

Hav Babu Lal Yadav (No. 15350393H now JC-379069F), 01 Aug 2009

Hav Kunhunni M (No. 15355539P now JC-379070W), 01 Aug 2009

Hav G Hari Chandra B (No. 15354253N now JC-379071Y), 01 Aug 2009

Hav Thimmappa Naik M (No. 15352685K now JC-379073K), 01 Aug 2009

Hav Narvhai Singh Sangha (No. 15355207L now JC-379074M), 01 Aug 2009

Hav SS Chauhan (No. 15355217P now JC-379075P), 01 Aug 2009

Hav Rajinder Singh Sajwan (No. 15355586M now JC-379076X), 01 Aug 2009

Hav Jatinder Singh (No. 15355596W now JC-379077A), 01 Aug 2009

Hav Karale Ramesh R (No. 15355745Y now JC-379078H), 01 Aug 2009

Hav Jitendra Singha (No. 15355952L now JC-379125P), 01 Aug 2009

Hav Krishnan G (No. 15350461L now JC-379331Y), 01 Dec 2009

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 29 Aug 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Mehar Singh Chandel (No. 15356104Y now JC-379126X), 01 Sep 2009

Hav Raya Gouda Patil (No. 15356089P now JC-379127A), 01 Sep 2009

Hav Somanath Behera (No. 15356094A now JC-379128H), 01 Sep 2009

Hav B Ravindran (No. 15356232W now JC-379129L), 01 Sep 2009

Hav Roshan Lal (No. 15356154K now JC-379130A), 01 Sep 2009

Hav Yunus Khan (No. 15386742M now JC-379131H), 02 Sep 2009

Hav Sekar M (No. 14253806F now JC-379132L), 02 Sep 2009

Hav Shyam Sunder (No. 14253724Y now JC-379133N), 02 Sep 2009

Hav Wahatule Vilas W (No. 14269889F now JC-379134W), 02 Sep 2009

Hav S Chandra Rajput (No. 15351576L now JC-379135Y), 02 Sep 2009

Hav Rajeshwar (No. 15356156P now JC-379138M), 02 Sep 2009

Hav Dola Manmadha Rao (No. 15356171K now JC-379139P), 02 Sep 2009

Hav Venkata Rao Isai (No. 15356170F now JC-379140K), 02 Sep 2009

Hav Ramesh Chand (No. 15356395K now JC-379141M), 02 Sep 2009

Hav Joshi Chandra Shekhar (No. 15356518L now JC-379142P), 02 Sep 2009

Hav Dinesh Kumar Singh (No. 15356512K now JC-379143X), 02 Sep 2009

Hav Anil Kumar Upadhyay (No. 15351416L now JC-379196W), 02 Sep 2009

Hav Narendra Kumar (No. 15356487W now JC-379215W), 02 Sep 2009

Hav B Rajendra Ganpat (No. 15355080N now JC-379197Y), 15 Sep 2009

Hav Suresh Prasad (No. 14259205M now JC-379198F), 15 Sep 2009

Hav Anil Kumar (No. 15353222F now JC-379349P), 02 Dec 2009

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 15 Sep 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Raju Jagan Nath (No. 14252327N now JC-379199K), 15 Sep 2009

Hav D Jayaseelan (No. 15351160N now JC-379200N), 15 Sep 2009

Hav Bajinath Kumar (No. 15350340K now JC-379201W), 15 Sep 2009

Hav Ashok Barua (No. 15356313W now JC-379202Y), 15 Sep 2009

Hav N Dhanakotti (No. 15351897H now JC-379203F), 22 Sep 2009

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 15 Sep 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Chhote Lal (No. 15352452H now JC-379204K), 15 Sep 2009

Hav D Sathyan (No. 15351736A now JC-379205M), 15 Sep 2009

Hav Raghunathan B (No. 15352766K now JC-379206P), 15 Sep 2009

Hav Vijay Singh (No. 15353151L now JC-379207X), 05 Oct 2009

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 15 Sep 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Ram Kumar Gupta (No. 15353103L now JC-379208A), 15 Sep 2009

Hav Hari Krushna Gouda (No. 15353306P now JC-379209H), 15 Sep 2009

Hav Narasinga Sahu (No. 15353352K now JC-379210X), 15 Sep 2009

Hav Rajendra Kumar S (No. 15353355X now JC-379211A), 09 Oct 2009

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 15 Sep 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Patil Maruti D (No. 15355180Y now JC-379216Y), 15 Sep 2009

Hav Deewan Singh (No. 15353835F now JC-379227L), 01 Oct 2009

Hav Shiv Kumar Pal (No. 15353903K now JC-379228N), 01 Oct 2009

Hav Ahasan Ahamad (No. 15354127F now JC-379229W), 05 Oct 2009

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Shankar Lal Meena (No. 15354062Y now JC-379230L), 01 Oct 2009

Hav Rajender Kumar (No. 14269350X now JC-379231N), 01 Oct 2009

Hav M Chauhan (No. 15351644N now JC-379232W), 01 Oct 2009

Hav Suresh Kumar Chandel (No. 15353836K now JC-379233Y), 01 Oct 2009

Hav Bhojaraja Dhandasena (No. 15355903H now JC-379234F), 01 Oct 2009

Hav Paramjeet Singh (No. 15355071P now JC-379235K), 01 Oct 2009

Hav MK Nair PR (No. 15355685P now JC-379236M), 01 Oct 2009

Hav Shiv Kumar Jha (No. 14262284X now JC-379237P), 18 Oct 2009

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Surendra Singh (No. 14256241M now JC-379238X), 07 Oct 2009

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Shiv Singh (No. 14267429F now JC-379239A), 01 Oct 2009

Hav Kamta Singh (No. 15355841N now JC-379240P), 01 Oct 2009

Hav Tilak CH Talukdar (No. 14267443N now JC-379241X), 01 Oct 2009

Hav Aravindhakshan K (No. 15353915Y now JC-379242A), 01 Oct 2009

Hav Uttam Kumar Pandey (No. 15356412Y now JC-379243H), 01 Oct 2009

Hav Radha Krishna Bisoi (No. 15353496M now JC-379245N), 01 Oct 2009

Hav Anil Kumar KS (No. 15352944F now JC-379246W), 13 Oct 2009

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

Hav M Ali Shaikh (No. 14265375M now JC-379247Y), 01 Oct 2009

Hav Netrananda Mahanta (No. 14269688H now JC-379248F), 01 Oct 2009

Hav Shovaram Naik (No. 15355884H now JC-379249K), 01 Oct 2009

Hav Khot Haridas D Ram (No. 15355956F now JC-379250Y), 01 Oct 2009

Hav Binod Kumar J (No. 15352726H now JC-379275L), 01 Nov 2009

Hav Lal Singh (No. 15354206W now JC-379276N), 01 Nov 2009

Hav Birendra Singh Negi (No. 15355546L now JC-379278Y), 01 Nov 2009

Hav Mohammad Azad (No. 14269668P now JC-379279F), 01 Nov 2009

Hav Ramesan T (No. 14269854L now JC-379280W), 01 Nov 2009

Hav Sahukaru Anada Rao (No. 15350291M now JC-379281Y), 01 Nov 2009

Hav Om Prakash (No. 15350696X now JC-379283K), 01 Nov 2009

Hav GP Kushwaha (No. 15351254L now JC-379284M), 01 Nov 2009

Hav V Kumar Choudhary (No. 15351396H now JC-379285P), 01 Nov 2009

Hav Mane Maruti Apaya (No. 15353451M now JC-379286X), 01 Nov 2009

Hav Harish Kumar P (No. 15352684F now JC-379287A), 01 Nov 2009

Hav Thulaseedharan R (No. 15352715W now JC-379288H), 01 Nov 2009

Hav Patil Ravindra P (No. 15354369K now JC-379289L), 01 Nov 2009

Hav Ashok KR Pradhan (No. 15354825K now JC-379290A), 01 Nov 2009

Hav Patil Chintaman S (No. 15350323K now JC-379291H), 01 Nov 2009

Hav Ram Singh Dhurve (No. 15355274W now JC-379292L), 01 Nov 2009

Hav Uma Shankar (No. 14255386L now JC-379294W), 16 Nov 2009

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Ram Mehar (No. 15352852P now JC-379295Y), 01 Nov 2009

Hav Shew Narayan Bin (No. 15353530F now JC-379296F), 01 Nov 2009

Hav Sukhdev Singh (No. 15353862L now JC-379297K), 01 Nov 2009

Hav Jaya Prakash K (No. 15350103A now JC-379298M), 01 Nov 2009

Hav C Jayaraj (No. 14268763P now JC-379299P), 01 Nov 2009

Hav Suresh Chandra (No. 15354125W now JC-379300Y), 01 Nov 2009

Hav Ali Akbar (No. 14260004A now JC-379301F), 01 Nov 2009

Hav Manoj Kumar (No. 15350732X now JC-379302K), 01 Nov 2009

Hav B Srinivas (No. 15351925K now JC-379303M),  
01 Nov 2009

Hav Kunj Bihari Singh (No. 15356385A now JC-379304P),  
01 Nov 2009

Hav Bhriгу Nath Singh K (No. 15351646Y now JC-  
379306A), 01 Nov 2009

Hav Jogendra Singh (No. 15355418N now JC-379332F),  
01 Dec 2009

Hav Bishnupada Mohanta (No. 15353592F now JC-  
379333K), 01 Dec 2009

Hav Nabajiban Sonowal (No. 15356565H now JC-  
379334M), 01 Dec 2009

Hav Radha Krushna Panigrahi (No. 15356600A now JC-  
379335P), 01 Dec 2009

Hav Sadana Kumar A (No. 15356893W now JC-379336X),  
01 Dec 2009

Hav Surinder Pal (No. 15356940H now JC-379337A),  
01 Dec 2009

Hav Lakshman Singh Negi (No. 15356995M now JC-  
379338H), 01 Dec 2009

Hav Shamsher Singh (No. 15356998A now JC-379339L),  
01 Dec 2009

Hav Mahender Singh (No. 15357004A now JC-379340A),  
14 Dec 2009

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2009  
without effect on pay and allowances)

Hav Arvind Kumar (No. 15357077M now JC-379341H),  
01 Dec 2009

Hav Brij Mohan Singh (No. 14255857N now JC-379342L),  
01 Dec 2009

Hav Hari Narayan Singh (No. 14255693H now JC-  
379343N), 01 Dec 2009

Hav Tejpal (No. 15353833W now JC-379350K), 02 Dec  
2009

Hav John Mathew (No. 14261977H now JC-379351M),  
02 Dec 2009

Hav Ram Rotas (No. 15357507L now JC-379354A), 02 Dec  
2009

#### CORPS OF ARMY AIR DEFENCE

##### To be Nb Sub

Hav Kulwant Singh (No. 14382424P now JC-300696P),  
03 Nov 2008/30 Oct 2008\*

Hav Joginder Singh (No. 14388491W now JC-300697X),  
01 Nov 2008

Hav Sunil Kumar (No. 14388291A now JC-300698A),  
01 Nov 2008

BHM Subhash Chand (No. 14389164X now JC-300699H),  
20 Nov 2008/01 Nov 2008\*

Hav Tara Chand (No. 14395720Y now JC-300700M),  
01 Nov 2008

BHM Mahammad Sharif Baig (No. 14395303M now JC-  
300701P), 01 Nov 2008

Hav Sarwan Kumar (No. 14384812L now JC-300702X),  
15 Nov 2008/01 Nov 2008\*

Hav Albert Leema (No. 14396146X now JC-300703A),  
14 Nov 2008/01 Nov 2008\*

RHM Maman Singh Shekhawat (No. 15765994Y now JC-  
300704H), 09 Nov 2008/01 Nov 2008\*

BHM Prabhat Chand (No. 14381715H now JC-300705L),  
05 Sep 2008/01 Aug 2008\*

Hav P Prakash (No. 14396001M now JC-300706N), 11 Oct  
2008/01 Aug 2008\*

Hav Sat Pal (No. 14388058M now JC-300707W), 04 Sep  
2008/21 Aug 2008\*

BHM R Madhappan (No. 14400010N now JC-300708Y),  
08 Oct 2008/25 Aug 2008\*

BHM Shyam Dular (No. 14383858W now JC-300709F),  
03 Oct 2008/01 Sep 2008\*

Hav Dhanna Ram Mali (No. 14385019H now JC-300710W),  
01 Sep 2008

BHM Radha Krishna Kurup (No. 14385052A now JC-  
300711Y), 01 Oct 2008/05 Sep 2008\*

Hav Ashok Kumar Tiwari (No. 14499878N now JC-  
300712F), 01 Oct 2008

BHM Jai Pal Chand (No. 14388049L now JC-300713K), 03  
Oct 2008/01 Oct 2008\*

BHM Ram Sharan (No. 14386389P now JC-300714M), 06  
Oct 2008/01 Oct 2008\*

BHM Krishna Ray (No. 14379149P now JC-300715P),  
01 Oct 2008

BHM Ramesh Prasad Vishwakaran (No. 14383652K now  
JC-300716X), 03 Oct 2008/01 Oct 2008\*

Hav Mahadeo Kujur (No. 14383714Y now JC-300717A),  
06 Oct 2008/01 Oct 2008\*

Hav Namadeo Bhajantri (No. 14383820X now JC-300718H),  
05 Nov 2008/26 Oct 2008\*

BHM Shri Bhagwan (No. 14393202A now JC-300719L),  
14 Nov 2008/01 Nov 2008\*

Hav Val Sher Singh (No. 14388831N now JC-300720A),  
05 Nov 2008/01 Nov 2008\*

BHM Suresh Singh (No. 14385191K now JC-300721H),  
12 Nov 2008/01 Nov 2008\*

Hav Rajvir Singh (No. 14386297H now JC-300722L), 01 Nov  
2008

Hav TM Jaya Ram (No. 14402126H now JC-300723N),  
01 Nov 2008

Hav Sansar Singh (No. 14498777N now JC-300724W),  
24 Nov 2008/01 Nov 2008\*

Hav Harbir Singh (No. 14381708M now JC-300725Y),  
11 Dec 2008/01 Dec 2008\*

Hav Abhai Singh (No. 14386584M now JC-300726F),  
05 Dec 2008/01 Dec 2008\*

RHM Rajendra Kumar (No. 14394379A now JC-300727K),  
05 Jan 2009/27 Dec 2008\*

Hav Malek Mahmud Kaiyum Dadum Miyan (No.  
15105200F now JC-300728M), 14 Jan 2009/01 Jan 2009\*

BHM Parthan S (No. 14383728Y now JC-300729P), 03 Oct  
2008/10 Aug 2008\*

Hav Nahar Singh (No. 13978373W now JC-300730K),  
21 Oct 2008/01 Oct 2008\*

Hav Ramesh K (No. 14387568F now JC-300731M), 29 Oct  
2008/14 Oct 2008\*

BHM Ram Pal (No. 14391555F now JC-300732P), 01 Dec  
2008/01 Nov 2008\*

Hav Abraham PK (No. 14395990N now JC-300733X),  
09 Dec 2008/01 Nov 2008\*

Hav Sri Kishan Singh (No. 14400314L now JC-300734A),  
03 Nov 2008/01 Nov 2008\*

\*(Gtd Seniority date wef)

The President is pleased to make the following  
promotions :—

To be Nb Sub : PA

Hav Ravi Kumar R (No. 6926472P now JC-665840L), 01 May  
2009\*

Hav Jagannath Nayak (No. 4488992M now JC-665841N),  
01 May 2009\*

\*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2009  
without effect on pay and allces)

Hav Shankar Yadav (No. 15360473N now JC-665903H),  
01 Jul 2009\*

Hav Ram Singh (No. 14589701F now JC-665904L), 01 Jul  
2009\*

Hav Ram Niwas Singh Tomar (No. 14594353P now JC-  
665924Y), 01 Jul 2009\*

\*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2009 without  
effect on pay and allces)

Hav Rajani Kanta Mishra (No. 6382752X now JC-665842W),  
01 May 2009\*

\*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2009  
without effect on pay and allces)

To be Nb Sub Clk (GD/SD)

Hav Purna Chandrakar (No. 6381288M now JC-665844F),  
09 Mar 2009\*

\*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 10 Jan 2009  
without effect on pay and allces)

Hav Rama Chadran A (No. 6383668K now JC-665925F),  
26 Jun 2009\*

\*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2007  
without effect on pay and allces)

To be Nb Sub Clk (SD)

Hav Ajaya Kumar D (No. 6382544H now JC-667120H),  
09 Jan 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2009  
without effect on pay & allces)

Hav Ajai Singh (No. 6382135P now JC-667121L), 17 Dec  
2009\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2009  
without effect on pay & allces)

Hav Bipendra Dabral (No. 6382118P now JC-667124Y),  
01 Feb 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2010  
without effect on pay & allces)

Hav Hari Kumar B (No. 6389434W now JC-667122N),  
01 Jan 2010\*

Hav Rajender Kumar (No. 6476728A now JC-667123W),  
05 Jan 2010\*

Hav Jain K B (No. 6382522K now JC-667139F), 06 Jan  
2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2010  
without effect on pay & allces)

To be Nb Sub PA

Hav Bhanwarlal Palania (No. 14593222X now JC-667114P),  
04 Jan 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2009  
without effect on pay & allces)

Hav K Sampath Kumar (No. 6386023M now JC-667113M),  
23 Dec 2009\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2009  
without effect on pay & allces)

Hav R Chandra Kumar (No. 9418877L now JC-667115X),  
09 Jan 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2010  
without effect on pay & allces)

Hav Baby Joseph (No. 14601640K now JC-667117H),  
01 Feb 2010

Hav Anup Kumar Gaur (No. 4183266W now JC-667118L),  
01 Feb 2010

Hav M E Biju (No. 6930289K now JC-667119N), 01 Feb  
2010

Hav Rakesh Kumar Shivhare (No. 8031997Y now JC-  
667116A), 01 Feb 2010

Hav Raj Pal Singh Jamwal (No. 9923455M now JC-  
667140W), 01 Mar 2010

Hav Tarkeshwar Singh (No. 2989919X now JC-667141Y),  
02 Mar 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2010  
without effect on pay & allces)

To be Sub Musician

Nb Sub Sudhir Kumar Gautam (JC-470043A), 07 Jan 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2009  
without effect on pay & allces)

To be Nb Sub Clk (SD)

Hav Chacko Pappy (No. 6382538P now JC-666042K),  
21 Oct 2009

Hav Jai Jeev George (No. 6382547W now JC-667014K),  
22 Oct 2009

Hav Thomson T P (No. 6382564W now JC-667015M),  
22 Oct 2009

Hav Nandigam Kameshwara Rao (No. 6382635M now JC-  
667018P), 24 Oct 2009

Hav Mukala Ananda Rao (No. 6382636P now JC-667017X),  
23 Oct 2009

Hav Pawar Yashwant Madhava Rao (No. 6382656H now  
JC-667018A), 23 Oct 2009

Hav Satpal (No. 6382715K now JC-667019H), 28 Oct 2009

Hav Biswajit Mondal (No. 6382811Y now JC-667020X),  
23 Oct 2009

Hav Bhanwar Lal Sad (No. 6382868N now JC-667021A),  
31 Oct 2009

Hav Tarjeen Chetry (No. 6383041K now JC-667022H),  
24 Oct 2009

Hav Suresh Chandra (No. 6382890Y now JC-667023L),  
31 Oct 2009

Hav Sanap Dinkar Mahadu (No. 6379994P now JC-  
667024N), 30 Oct 2009

Hav Sribas Chandra Saha (No. 13895681X now JC-  
667025W), 23 Oct 2009

Hav Gulli Palli Pakeero Naidu (No. 6382458X now JC-  
667026Y), 21 Oct 2009

Hav Utpal Chowdhury (No. 6382479N now JC-666039K),  
21 Oct 2009

Hav Khushi Ram (No. 13887654Y now JC-667027F),  
29 Oct 2009\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2009  
without effect on pay & allces)

Hav Paighan Vilash Chandra Ram (No. 6382098M now  
JC-667028K), 29 Oct 2009

Hav Sarat Chandra Pani (No. 6382359P now JC-667029M),  
21 Oct 2009

Hav Sanjay Kumar (No. 6382021K now JC-667030F),  
23 Oct 2009

Hav Ram Kumar (No. 6389162F now JC-667031K), 26 Oct  
2009\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2009  
without effect on pay & allces)

Hav Ran Pal (No. 6389164M now JC-667032M), 23 Oct  
2009

Hav T Veerana Goud (No. 6389175Y now JC-666040Y),  
21 Oct 2009

Hav Radhakrishan R (No. 6389180K now JC-666043M),  
21 Oct 2009

Hav Rajendra Singh (No. 6389174W now JC-667033P), 29  
Oct 2009

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2009  
without effect on pay and allowances)

Hav Radhakrishnan S (No. 6389187N now JC-667034X),  
22 Oct 2009

Hav Arun Kumar (No. 6389194K now JC-667035A),  
05 Nov 2009

Hav Jagrup Singh (No. 6389200M now JC-667036H),  
23 Oct 2009

Hav Kuldip Kumar Sharma (No. 6389201P now JC-  
667055N), 26 Oct 2009

Hav Gopi Chand (No. 6389210W now JC-666044P),  
22 Oct 2009

Hav Jai Karan (No. 6389225Y now JC-667038N), 02 Nov  
2009

Hav Nirmal Singh (No. 6389268N now JC-667039W),  
23 Oct 2009



Hav Madan Lal Sharma (No. 6389269W now JC-667040L),  
28 Oct 2009

Hav Ajit (No. 6389151P now JC-667041N), 24 Oct 2009

Hav Satya Vrit (No. 6389235H now JC-667042W), 26 Oct  
2009

Hav Chikadoli Vijay Aapana (No. 6381154N now JC-  
667043Y), 02 Nov 2009

Hav Chandra Pal (No. 6382116K now JC-667044F),  
24 Oct 2009

Hav Satya Pal Singh (No. 6382117M now JC-667045K),  
31 Oct 2009

Hav Omvir Singh Rana (No. 6381948Y now JC-666041F),  
21 Oct 2009

Hav Sisir Kumar Bhanja (No. 6382377X now JC-667046M),  
09 Nov 2009

Hav Dipak Samadder (No. 6382616F now JC-667047P),  
29 Oct 2009

Hav Mani Kandan A (No. 6382578W now JC-667048X),  
23 Oct 2009

Hav G Ravi (No. 6382626L now JC-667049A), 23 Oct 2009

Hav Rishi Nath Yadav (No. 6382906Y now JC-667050P),  
24 Oct 2009

Hav Sukanta Kumar Sahoo (No. 6382496M now JC-  
667051X), 30 Oct 2009

Hav Chander Bhan Singh (No. 6389205L now JC-667037L),  
29 Oct 2009

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2009  
without effect on pay and allowances)

To be Nb Sub : PA

Hav Venugopala Pillai J (No. 14390737H now JC-666045X),  
20 Oct 2009

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 20 Jun 2009  
without effect on pay and allowances)

Hav R Marappan (No. 15361909A now JC-667052A),  
01 Sep 2009

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2009  
without effect on pay and allowances)

Hav Abhe Ram (No. 6381992H now JC-667053H), 07 Nov  
2009

Hav Santhosh Kumar PK (No. 4469544M now JC-  
667054L), 09 Nov 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2009  
without effect on pay and allowances)

Hav T V Sanyasi Rao (No. 6382633F now JC-665962P),  
05 Jan 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2009  
without effect on pay and allowances)

Hav Kamal Prasad (No. 6381108Y now JC-665963X),  
01 Dec 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2009  
without effect on pay and allowances)

Hav Narinder Pal (No. 6389198A now JC-665967N), 04 Jan  
2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2009  
without effect on pay and allowances)

Hav Trilochana Mishra (No. 6389219L now JC-665970N),  
08 Jan 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2009  
without effect on pay and allowances)

Hav Abdul Rashid (No. 6389222L now JC-665968W),  
05 Jan 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2009  
without effect on pay and allowances)

Hav Anil Kumar (No. 6389226F now JC-665964A), 16 Dec  
2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2009  
without effect on pay and allowances)

Hav Shish Ram (No. 6389232P now JC-665969Y), 06 Jan  
2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2009  
without effect on pay and allowances)

Hav Pradip Kumar Pradhan (No. 6389265A now JC-  
665966L), 01 Jan 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2009  
without effect on pay and allowances)

Hav Hira Singh (No. 6389272W now JC-665965H), 30 Dec  
2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2009  
without effect on pay and allowances)

Hav Rajesh Kumar (No. 6381275P now JC-665974K),  
01 Jan 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2009  
without effect on pay and allowances)

Hav Ram Das (No. 6381858X now JC-665975M), 02 Jan  
2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2009  
without effect on pay and allowances)

Hav Manomohan K (No. 6382031N now JC-665972Y),  
24 Dec 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2009  
without effect on pay and allowances)

Hav Prafulla Kumar Bartia (No. 6382512A now JC-  
665973F), 30 Dec 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2009  
without effect on pay and allowances)

Hav Shesadeb Pattnayak (No. 6388981Y now JC-  
665971W), 15 Dec 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2009  
without effect on pay and allowances)

Hav Bishnu Charan Swain (No. 6389274F now JC-665976P),  
16 Dec 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2009  
without effect on pay and allowances)

Hav Prosun Kanti Das (No. 6381314H now JC-665979H),  
01 Jan 2010

Hav Kaushik Kumar Nath (No. 6381318Y now JC-  
665985W), 13 Jan 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2010  
without effect on pay and allowances)

Hav Shishupal Singh (No. 6381335Y now JC-665980X),  
01 Jan 2010

Hav Hardeep Singh (No. 6381339P now JC-665981A),  
04 Jan 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2010  
without effect on pay and allowances)

Hav Pramod Chandra (No. 6381349Y now JC-665978A),  
01 Jan 2010

Hav Naipal Singh (No. 6382137A now JC-665984N),  
06 Jan 2010\*

Hav Gupta Ray (No. 6382682K now JC-665982H), 04 Jan  
2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2010  
without effect on pay and allowances)

Hav Farizuddin Barbhuiya (No. 6382720P now JC-  
665983L), 06 Jan 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2010  
without effect on pay and allowances)

Hav Satheesan Kumbakara (No. 6389479W now JC-  
665977X), 01 Jan 2010

Hav Surendar Kumar (No. 6388192M now JC-665746F),  
03 Jan 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2008  
without effect on pay and allowances)

Hav Dhandhukiya Mansukhlal Bhikha Bhai (No. 6382188N  
now JC-665719X), 26 Dec 2008\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2008  
without effect on pay and allowances)

Hav Vijendra Kumar Verma (No. 6382136X now JC-  
665776Y), 17 Jan 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 08 Nov 2008  
without effect on pay and allowances)

Hav Inder Pal Singh (No. 6381336F now JC-665704P),  
01 Jan 2009

Hav Babu Lal Patidar (No. 6382222H now JC-665705X),  
01 Jan 2009

Hav Ram Deo Verma (No. 6382272N now JC-665706A),  
01 Jan 2009

Hav Chhote Lal (No. 6382283A now JC-665747K), 01 Jan  
2009

Hav Bahadur Singh (No. 6381860P now JC-665828K),  
01 Apr 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2008  
without effect on pay and allowances)

Hav Aundhakar Rajender Shankar Rao (No. 6382351H now  
JC-665829M), 01 Apr 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2009  
without effect on pay and allowances)

Hav Hari Krishna Mohanty (No. 6382513H now JC-  
665830F), 01 Apr 2009

Hav Bijay Kumar Nayak (No. 6382518F now JC-665831K),  
01 Apr 2009

Hav Santosh K J (No. 6382584K now JC-665837L), 01 Apr  
2009

Hav Sanat Kumar Roy (No. 6382613N now JC-665832M),  
01 Apr 2009

Hav Laxman Singh (No. 6382614W now JC-665833P),  
01 Apr 2009

Hav Krishna Chandra Ghosh (No. 6382675N now JC-  
665835A), 01 Apr 2009

Hav Karuna Kishore Bairagi (No. 6382677Y now JC-  
665836H), 01 Apr 2009

Hav Amulya Kumar Mishra (No. 6381127K now JC-  
665889F), 01 Aug 2008

Hav Tapan Sarkar (No. 6381269F now JC-665890W),  
01 Sep 2008

Hav Vinay Kumar (No. 6381882N now JC-665885L),  
01 Oct 2008

Hav Gopinathan T M (No. 6385044W now JC-665944M),  
27 Jul 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 02 May 2009  
without effect on pay and allowances)

Hav Udayan G (No. 6389183X now JC-665927M), 18 Jul  
2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 02 May 2009  
without effect on pay and allowances)

Hav Vilas Hanumant Yadav (No. 6382038X now JC-  
665901X), 07 May 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 10 Jan 2009  
without effect on pay and allowances)

Hav Sutar Shivaji Ratnappa (No. 6382091H now JC-665900P), 07 May 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 10 Jan 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Upananda Khamaru (No. 6382332X now JC-665902A), 19 May 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Mathur Kalita (No. 6382412P now JC-665817X), 02 Mar 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Shyam Sunder Hati (No. 6382671X now JC-665834X), 01 Apr 2009

To be Nb Sub : PA

Hav Bhagaban Panda (No. 13753093N now JC-665957K), 29 Dec 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Satish Chandra (No. 15359605K now JC-665958M), 29 Dec 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Manoj Kumar Panigrahi (No. 13618208H now JC-665960K), 01 Jan 2010

Hav Barundeb Bandyopadhyaya (No. 13752351W now JC-665959P), 01 Jan 2010

Hav Tembhurnikar Manik (No. 2594254H now JC-665961M), 01 Jan 2010

Hav Naresh Kumar (No. 15362757W now JC-665945P), 01 Aug 2009

Hav Ravindra Nath Yadav (No. 2481751Y now JC-665946X), 01 Aug 2009

Hav Kashid Krishna Murlidhar (No. 2592002X now JC-665948H), 01 Aug 2009

Hav Harish Chander Gurjar (No. 2886124K now JC-665947A), 01 Aug 2009

Hav M Syed Kamil (No. 6381557N now JC-667056W), 05 Nov 2009\*

Hav Ram Pal Singh (No. 6382895X now JC-667057Y), 21 Nov 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Narayanan P K (No. 6389170A now JC-667058F), 30 Oct 2009\*

Hav Jaswant Singh (No. 6389185H now JC-667059K), 31 Oct 2009\*

Hav Munendra Singh (No. 6382134M now JC-667060Y), 31 Oct 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Suresh Kumar V (No. 6382582Y now JC-667062K), 27 Nov 2009\*

Hav Shyam Bihari Singh (No. 6382100Y now JC-668027N), 06 Nov 2009\*

Hav Purna Chandra Sahu (No. 6389221H now JC-668035M), 15 Dec 2009\*

Hav Rishipal Singh (No. 6382270H now JC-668043L), 06 Dec 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Sansare Ganpat Govind Rao (No. 6381307M now JC-667061F), 28 Nov 2009\*

Hav Gurmukh Singh (No. 6382278P now JC-667063M), 27 Nov 2009\*

Hav T Daud Khan Kasam Khan (No. 6381478Y now JC-668028W), 05 Dec 2009\*

Hav Shivaji B (No. 6382625H now JC-668029Y), 05 Dec 2009\*

Hav Santosh D E (No. 6382603K now JC-668044N), 16 Dec 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Gopal Nag (No. 6388988H now JC-668045W), 17 Dec 2009\*

Hav Idhate Surya Bhan Bhau Rao (No. 6381308P now JC-668046Y), 17 Dec 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Satheendran Nair S (No. 6382536K now JC-668047F), 04 Dec 2009\*

Hav Balachandran N P (No. 6382535F now JC-668048K), 09 Dec 2009\*

Hav Dilip Kumar Mandal (No. 6379880K now JC-668030N), 04 Dec 2009\*

Hav Reghu R (No. 6382534Y now JC-6680031W), 01 Dec 2009\*

Hav Santosh Kumar P (No. 6382585M now JC-668032Y), 04 Dec 2009\*

Hav Mahabir Prasad Ranwa (No. 6381933W now JC-668033F), 01 Dec 2009\*

Hav P Bhuvanewsara Rao (No. 6382642H now JC-668034K), 01 Dec 2009\*

Hav Sita Ram (No. 6381941P now JC-668036P), 02 Dec 2009\*

Hav Pradip Kumar Mandal (No. 6382810W now JC-668038A), 16 Dec 2009\*

Hav Arvind Kumar (No. 6476512Y now JC-668040X), 16 Dec 2009\*

Hav Polaki Ashok Kumar (No. 6388980W now JC-668050F), 21 Dec 2009\*

Hav Mukut Ali (No. 6382219H now JC-668051K), 23 Dec 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Jagat Singh (No. 6381928L now JC-667064P), 01 Dec 2009\*

Hav Sukhvinder Singh (No. 6380643M now JC-668025H), 03 Dec 2009\*

Hav Santosh Kumar Das (No. 6382607A now JC-668026L), 03 Dec 2009\*

Hav Hiranmoy Biswas (No. 6382679K now JC-668037X), 11 Dec 2009\*

Hav Jai Narayan (No. 6382052N now JC-668039H), 16 Dec 2009\*

Hav Sargar Vasant Dhondiba (No. 6380300P now JC-668049M), 16 Dec 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Chhavi Lal (No. 6382294M now JC-667065X), 01 Dec 2009\*

Hav K Prakash Babanrao (No. 6387987N now JC-668041A), 16 Dec 2009\*

Hav Sudarsanan S (No. 6387169M now JC-668042H), 15 Dec 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 07 Nov 2009 without effect on pay and allowances)

To be Nb Sub (PA)

Hav Kadavarthi Papa Rao (No. 13897250K now JC-667066A), 09 Nov 2009\*

Hav Bhise Sanjay Patlu (No. 6382027L now JC-668052M), 22 Dec 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Bindage Motilal Gunavant (No. 14593669P now JC-668053P), 22 Dec 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2009 without effect on pay and allowances)

## CORPS OF SIGNALS

To be Nb Sub (Y of S)

Hav Prem Pal Singh (No. 15391896H now JC-379020L), 01 Jul 2009\*

Hav Manoj Kumar Singh (No. 15382159A now JC-379157X), 01 Sep 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Tarun Halder (No. 15383757K now JC-379158A), 01 Sep 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Sri Ballmukunda Gautam (No. 15390431W now JC-379159H), 01 Sep 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2009 without effect on pay and allowances)

Hav S Narayan Poonia (No. 15387803L now JC-379160X), 01 Sep 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Sunil (No. 15665244L now JC-379161A), 01 Sep 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2009 without effect on pay and allowances)

To be Nb Sub (F of S)

Hav Kumar K (No. 15394786Y now JC-379169M), 01 Sep 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Murugan K (No. 15662689M now JC-379170F), 01 Sep 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Chiman Lal (No. 15380330P now JC-379171K), 01 Sep 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Nagaraj Naik (No. 15397638Y now JC-379173P), 01 Sep 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Gupta Shivhari SP (No. 15385417A now JC-379176H), 01 Sep 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Jai Prakash Yadav (No. 15380772N now JC-379177L),  
01 Sep 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2009  
without effect on pay and allowances)

Hav Gurappa Puja R (No. 15397488N now JC-379178N),  
01 Sep 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2009  
without effect on pay and allowances)

To be Naib Subedar (OSS)

Hav Sheshnath Singh (No. 15355375K now JC-379319X),  
01 Dec 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 21 Jul 2009  
without effect on pay and allowances)

To be Nb Sub (Clk SD)

Hav Lakshi Nath Pegu (No. 14268260K now JC-378819H),  
01 Feb 2008\*

Hav Kulamani Sahu (No. 14258559H now JC-378920H),  
01 May 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2008  
without effect on pay and allowances)

Hav Om Prakash (No. 14255880F now JC-378637P), 01 Dec  
2008\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2008  
without effect on pay and allowances)

Hav Ved Prakash Sahu (No. 15359540F now JC-379191X),  
19 Sep 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 15 Sep 2009  
without effect on pay and allowances)

Hav Girja Shankar Shukla (No. 15359618F now JC-379226H),  
01 Oct 2009

Hav Vimallesh Singh (No. 14253695P now JC-379262N),  
01 Nov 2009

Hav Binod Kumar Singh (No. 15359873N now JC-  
379263W), 01 Nov 2009

Hav Rajeevan K (No. 15359596N now JC-379264Y),  
09 Nov 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2009  
without effect on pay and allowances)

Hav Surjit Singh (No. 15359148F now JC-379266K),  
01 Nov 2009

Hav Hari Kumar P (No. 15361597P now JC-379324H),  
01 Dec 2009

Hav Shiv Swaroop Dwivedi (No. 15361922K now JC-  
379325L), 01 Dec 2009

Hav Ajay Kumar (No. 15361930H now JC-379326N),  
01 Dec 2009

To be Nb Sub (OP CIPH)

Hav P Krishnan (No. 15358391M now JC-379182W),  
01 Sep 2009

Hav Chandra Sen Singh (No. 15364303F now JC-379183Y),  
15 Sep 2009

Hav Gopal Singh Khattri (No. 15360297P now JC-379184F),  
15 Sep 2009

Hav Aji P (No. 14269540K now JC-379185K), 15 Sep 2009

Hav Akhilesh Kumar (No. 15364099N now JC-379186M),  
15 Sep 2009

Hav Bappaditya Haldar (No. 15358665M now JC-379217F),  
05 Oct 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2009  
without effect on pay and allowances)

Hav Sanadi Subhash Buran (No. 15360903M now JC-  
379218K), 01 Oct 2009

Hav Vijay Kumar Gupta (No. 15360249F now JC-379219M),  
01 Oct 2009

Hav MD Jalaluddin (No. 15360619W now JC-379220F),  
01 Oct 2009

Hav Bhabani Goutam (No. 15361025N now JC-379221K),  
01 Oct 2009

Hav Unni R (No. 15367156P now JC-379253M), 01 Nov  
2009

Hav Krishan Kumar (No. 15367440L now JC-379254P),  
03 Nov 2009

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2009  
without effect on pay and allowances)

Hav Rajani Kanta Parhi (No. 15358891K now JC-379256A),  
01 Nov 2009

Hav Tuluk Raj Pradhan (No. 15364762A now JC-379257H),  
01 Nov 2009

Hav Dhoop Singh (No. 15357088Y now JC-379258L),  
01 Nov 2009

Hav Gyaneshwar Prasad (No. 15355372W now JC-  
379259N), 01 Nov 2009

Hav Ravi Datta (No. 15365545W now JC-379260H),  
01 Nov 2009

Hav Ram Chandra (No. 15358593N now JC-379261L),  
01 Nov 2009

To be Nab Sub (SKT)

Hav Arun Kumar Singh (No. 14262961K now JC-379124M),  
01 Sep 2009

Hav Sahid Ansari (No. 14262400P now JC-379193H),  
15 Sep 2009

Hav Satyavir Singh (No. 14259750W now JC-379327W),  
01 Dec 2009

Hav Malay Kumar Mondal (No. 14254626L now JC-379328Y), 01 Dec 2009

Hav Rajpal Singh (No. 14261797A now JC-379329F),  
01 Dec 2009

Hav Amit Kumar Gupta (No. 14262691A now JC-379330W),  
01 Dec 2009

Hav BC Mohanty (No. 14267717N now JC-379476Y),  
01 Jan 2010

AVBAGUR  
Under Secy

#### AIR FORCE

No. 440, dated 12th July 2010—The President is pleased to make the following Substantive Promotions:—

#### INDIAN AIR FORCE

SQN LDR To be Substantive WG CDR

#### AE (M) BRANCH

AL Hanwate (23931), SS Suddi (23932), wef 26 Apr 2009

#### AE (L) BRANCH

AK Choudhury (23933), wef 26 Apr 2009

#### LGS BRANCH

Bhagawat (20625), wef 16 Jun 2008, (with Notional seniority wef 16 Dec 2004)

N Vijay Kumar  
Wing Commander  
Jt Director  
Personnel Officers-3(D)

#### DEPARTMENT OF DEFENCE RESEARCH & DEVELOPMENT

#### (DEFENCE RESEARCH & DEVELOPMENT ORGANISATION)

No. 441, dated 12 July 2010—The President is pleased to make the following promotions:—

Acting Air Vice Marshal to Substantive Air Vice Marshal

No., Rank & Name and Subs Rank to be Granted from

AVM ND Sharma (14361) AE(L), 23 Apr 2009

Acting Air Cmde to Substantive Air Cmdr

No., Rank & Name and Subs Rank to be Granted from

Air Cmde Y Radhakrishna (16544) AE(M), 17 Aug 2009

N MARIAPPAN  
Addl Director (Pers)  
For DG Research & Development